








# सामान्य विज्ञान

आठवीं कक्षा





शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ के अनुसार समन्वय समिति का गठन किया गया। दि. २९.१२.२०१७ को हुई इस समिति की बैठक में यह पाठ्यपुस्तक सन २०१८-१९ इस शैक्षणिक वर्ष से निर्धारित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई है।



# सामान्य विज्ञान

## आठवीं कक्षा



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे - ४११ ००४



JFA3MZ

आपके स्मार्टफोन में DIKSHA APP द्वारा पाठ्यपुस्तक के पहले पृष्ठ के Q. R. Code द्वारा डिजिटल पाठ्यपुस्तक और प्रत्येक पाठ में दिए गए Q. R. Code द्वारा आपको पाठ से संबंधित अध्ययन अध्यापन के लिए उपयुक्त दृकश्राव्य साहित्य उपलब्ध होगा।

प्रथमावृत्ती : 2018 © महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे ४११००४.

पुनर्मुद्रण : 2020

इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है। इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

### मुख्य समन्वयक :

श्रीमती प्राची रविंद्र साठे

### शास्त्र विषय समिती :

डॉ. चंद्रशेखर वसंतराव मुरुमकर, अध्यक्ष

डॉ. दिलीप सदाशिव जोग, सदस्य

डॉ. सुषमा दिलीप जोग, सदस्य

डॉ. पुष्पा खरे, सदस्य

डॉ. इम्तियाज एस. मुल्ला, सदस्य

डॉ. जयदीप विनायक साळी, सदस्य

डॉ. अभय जेरे, सदस्य

डॉ. सुलभा नितिन विधाते, सदस्य

श्रीमती मृणालिनी देसाई, सदस्य

श्री. गजानन शिवाजीराव सूर्यवंशी, सदस्य

श्री. सुधीर यादवराव कांबळे, सदस्य

श्रीमती दिपाली धनंजय भाले, सदस्य

श्री. राजीव अरुण पाटोळे, सदस्य-सचिव

### शास्त्र विषय अभ्यास गट :

डॉ. प्रभाकर नागनाथ क्षीरसागर

डॉ. विष्णू वझे

डॉ. प्राची राहूल चौधरी

डॉ. शेख मोहम्मद वाकीओद्दीन एच.

डॉ. अजय दिगंबर महाजन

डॉ. गायत्री गोरखनाथ चौकडे

श्री. प्रशांत पंडीतराव कोळसे

श्री. संदीप पोपटलाल चोरडिया

श्री. सचिन अशोक बारटक्के

श्रीमती श्वेता दिलीप ठाकूर

श्री. रूपेश दिनकर ठाकूर

श्री. दयाशंकर विष्णू वैद्य

श्री. सुकुमार श्रेणिक नवले

श्री. गजानन नागोरावजी मानकर

श्री. मोहम्मद आतिक अब्दुल शेख

श्रीमती अंजली लक्ष्मीकांत खडके

श्रीमती मनिषा राजेंद्र दहिवेलकर

श्रीमती ज्योती मिल्तींद मेडपिलवार

श्रीमती दिप्ती चंदनसिंग बिशत

श्रीमती पुष्पलता रविंद्र गावंडे

श्रीमती अनिता राजेंद्र पाटील

श्रीमती कांचन राजेंद्र सोरते

श्री. राजेश वामनराव रोमन

श्री. नागेश भिमसेवक तेलगोटे

श्री. शंकर भिकन राजपूत

श्री. मनोज रहांगडाळे

श्री. हेमंत अच्युत लागवणकर

श्रीमती ज्योती दामोदर करणे

श्री. विश्वास भावे

### भाषांतरकार

श्रीमती साधना भांडगे, श्री कैलाश वंजारी, श्रीमती रंजना मदाने,  
श्री हरीश शिवाल, श्रीमती माया नाईक, श्रीमती अनुपमा सुरेश पाटील,

### समीक्षक

श्रीमती अनुपमा सुरेश पाटील, श्रीमती माया नाईक

### मुखपृष्ठ एवं सजावट :

श्री. विवेकानंद शिवशंकर पाटील

कु. आशना अडवाणी

### अक्षरांकन :

मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे.

### संयोजक :

श्री. राजीव अरुण पाटोळे

विशेषाधिकारी, शास्त्र विभाग

पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे.

### निर्मिती :

श्री. सच्चितानंद आफळे

मुख्य निर्मिती अधिकारी

श्री. राजेंद्र विसपुते

निर्मिती अधिकारी

### कागद

70 जी.एस.एम. क्रिमवोव्ह

### मुद्रणादेश

### मुद्रक

### प्रकाशक

श्री. विवेक उत्तम गोसावी

नियंत्रक

पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई-25.



# भारत का संविधान

## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,  
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता  
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता  
बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख  
26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो  
हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,  
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

## राष्ट्रगीत

जनगणमन - अधिनायक जय हे  
भारत - भाग्यविधाता ।  
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,  
द्राविड, उत्कल, बंग,  
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,  
उच्छल जलधितरंग,  
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,  
गाहे तव जयगाथा,  
जनगण मंगलदायक जय हे,  
भारत - भाग्यविधाता ।  
जय हे, जय हे, जय हे,  
जय जय जय, जय हे ॥

## प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई-  
बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की  
समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं  
पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन  
परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता  
मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों  
का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से  
सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने  
देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा  
रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में  
ही मेरा सुख निहित है ।

## प्रस्तावना

विद्यार्थी मित्रों,

तुम सभी का आठवीं कक्षा में स्वागत है। नए पाठ्यक्रम पर आधारित सामान्य विज्ञान की इस पाठ्यपुस्तक को तुम्हारे हाथों में देते हुए हमें विशेष आनंद का अनुभव हो रहा है। प्राथमिक स्तर से अबतक तुमने विज्ञान का अध्ययन विभिन्न पाठ्यपुस्तकों द्वारा किया है। कक्षा आठवीं से तुम विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाओं और प्रौद्योगिकी का अध्ययन एक अलग दृष्टिकाण से और विज्ञान की विविध शाखाओं के माध्यम से कर सकोगे।

‘सामान्य विज्ञान’ इस पाठ्यपुस्तक का मूल उद्देश्य अपने दैनिक जीवन से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी ‘समझो और दूसरों को समझाओ’ है। विज्ञान की संकल्पनाओं, सिद्धांतों और नियमों को समझते समय उनका व्यवहार के साथ सहसंबंध समझ लो। इस पाठ्यपुस्तक से अध्ययन करते समय ‘थोड़ा याद करो’, ‘बताओ तो’ इन कृतियों का उपयोग पुनरावृत्ति के लिए करो। ‘निरीक्षण करो और चर्चा करो’, ‘करके देखो’ जैसी अनेक कृतियों से तुम विज्ञान सीखने वाले हो। ये सभी कृतियाँ तुम अवश्य करो। ‘थोड़ा सोचो’, ‘खोजो’, ‘विचार करो’ जैसी कृतियाँ तुम्हारी विचार प्रक्रिया को प्रेरणा देंगी।

पाठ्यपुस्तक में अनेक प्रयोगों का समावेश किया गया है। ये प्रयोग, उनका कार्यान्वयन और उस समय आवश्यक निरीक्षण तुम स्वयं, सावधानीपूर्वक करो तथा आवश्यकतानुसार अपने शिक्षकों, अभिभावकों और कक्षा के सहपाठियों की सहायता लो। तुम्हारे जीवन की अनेक घटनाओं में विद्यमान विज्ञान का रहस्योद्घाटन करने वाली विशेषतापूर्ण जानकारी और उसपर आधारित विकसित हुई प्रौद्योगिकी इस पाठ्यपुस्तक की कृतियों के माध्यम से स्पष्ट की गई है। वर्तमान तकनीकी के गतिशील युग में संगणक, स्मार्टफोन आदि से तुम परिचित ही हो। पाठ्यपुस्तक से अध्ययन करते समय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों का सुयोग्य उपयोग करो, जिससे तुम्हारा अध्ययन सरलतापूर्वक होगा। परिणामकारक अध्ययन के लिए ऑप के माध्यम से क्यू. आर. कोड द्वारा प्रत्येक पाठ से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उपयुक्त साहित्य उपलब्ध है। उसका अभ्यास के लिए निश्चित उपयोग होगा।

कृति और प्रयोग करते समय विभिन्न उपकरणों, रासायनिक सामग्रियों के संदर्भ में सावधानी बरतो और दूसरों को भी सतर्क रहने को कहो। वनस्पतियों, प्राणियों से संबंधित कृतियाँ, अवलोकन करते समय पर्यावरण संवर्धन का भी प्रयत्न करना अपेक्षित है, उन्हें हानि न पहुँचे यह ध्यान रखना तो आवश्यक ही है।

इस पाठ्यपुस्तक को पढ़ते समय, अध्ययन करते समय और समझते समय उसका पसंद आया हुआ भाग और उसीप्रकार अध्ययन करते समय आने वाली परेशानियाँ, निर्मित होने वाले प्रश्न हमें अवश्य बताओ।

तुम्हें तुम्हारी शैक्षणिक प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

पुणे

दिनांक : १८ अप्रैल २०१८, अक्षय्य तृतीया

भारतीय सौर दिनांक : २८ चैत्र १९४०

(डॉ. सुनिल मगर)

संचालक

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व  
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

## शिक्षकों के लिए

- कक्षा तीसरी से कक्षा पाँचवी तक परिसर अध्ययन के माध्यम से दैनिक जीवन के सरल विज्ञान को आपने बताया है तथा छटवीं से आठवीं की पाठ्यपुस्तकों द्वारा विज्ञान से परिचित करवाया है।
- विज्ञान शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य यह है कि दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण विचार किया जाए।
- कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों की आयु को ध्यान में रखते हुए आसपास घटित होने वाली घटनाओं के बारे में उनकी जिज्ञासा, उन घटनाओं के पीछे छुपे कार्यकारणभाव खोजने की शोधवृत्ति और स्वयं नेतृत्व करने की भावना इन सबका अध्ययन के लिए समुचित उपयोग करने के अवसर विद्यार्थियों को देना आवश्यक है।
- विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में अवलोकन, तर्क, अनुमान, तुलना करने और प्राप्त जानकारी का अनुप्रयोग करने के लिए प्रयोग कौशल्य आवश्यक है इसलिए प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग करवाते समय इन कौशलों को विकसित करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा आने वाले सभी अवलोकनों के पाठ्यांकों को स्वीकार करके अपेक्षित निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए उन्हें सहायता करना चाहिए।
- विद्यार्थियों के विज्ञान संबंधी उच्च शिक्षण की नींव माध्यमिक स्तर के दो वर्ष होते हैं, इस कारण हमारा दायित्व है कि उनकी विज्ञान के प्रति अभिरूचि समृद्ध और संपन्न हो। विषयवस्तु और कौशल्य के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सर्जनात्मकता विकसित करने के लिए आप सभी हमेशा की तरह ही अग्रणी होंगे।
- विद्यार्थियों को अध्ययन में सहायता करते समय 'थोड़ा याद करो' जैसी कृति का उपयोग करके पाठ के पूर्वज्ञान का पुनःपरीक्षण किया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों को अनुभव से प्राप्त ज्ञान और उसकी अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करके पाठ की प्रस्तावना करने के लिए पाठ्यांश के प्रारंभ में 'बताओ तो' जैसे भाग का उपयोग करना चाहिए। यह सब करते समय आपको ध्यान में आने वाले विविध प्रश्नों, कृतियों का भी अवश्य उपयोग कीजिए। विषयवस्तु के बारे में स्पष्टीकरण देते समय 'आओ करके देखें' (यह अनुभव आपके द्वारा देना है।) तथा 'करो और देखो' इन दो कृतियों का उपयोग पाठ्यपुस्तक में प्रमुख रूप से किया गया है। पाठ्यांश और पूर्वज्ञान के एकत्रित अनुप्रयोग के लिए 'थोड़ा सोचो', 'इसे सदैव ध्यान में रखो' के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ या आदर्शमूल्य दिए गए हैं। 'खोजो', 'जानकारी प्राप्त करो', 'क्या तुम जानते हो?', परिचय वैज्ञानिकों का, संस्थानों के कार्य जैसे शीर्षक पाठ्यपुस्तक से बाहर की जानकारी की कल्पना करने के लिए, अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से संदर्भ खोजने की आदत लगाने के लिए हैं।
- यह पाठ्यपुस्तक कक्षा में पढ़कर और समझाकर सिखाने के लिए नहीं है, अपितु इसके अनुसार कृति करके विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, इसका मार्गदर्शन करने के लिए है। पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य सफल करने के लिए कक्षा में अनौपचारिक वातावरण होना चाहिए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चर्चा, प्रयोग और कृति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। विद्यार्थियों द्वारा किए गए उपक्रमों, प्रकल्पों आदि के विषय में कक्षा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, प्रदर्शनी लगाना, विज्ञान दिवस के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण दिन मनाना जैसे कार्यक्रमों का आयोजन अवश्य कीजिए।
- पाठ्यपुस्तक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विषयवस्तु के साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को समाहित किया गया है। विभिन्न संकल्पनाओं का अध्ययन करते समय उनका उपयोग करना आवश्यक होने के कारण उसे अपने मार्गदर्शन के अंतर्गत करवा लीजिए, इसीप्रकार Q. R. Code के आधार पर विद्यार्थियों को अतिरिक्त जानकारी दी जाए।

**मुखपृष्ठ एवं मलपृष्ठ :** पाठ्यपुस्तक की विभिन्न कृतियाँ, प्रयोग और संकल्पना चित्र

DISCLAIMER Note : All attempts have been made to contact copy righters (©) but we have not heard from them. We will be pleased to acknowledge the copy right holder (s) in our next edition if we learn from them.



## अध्ययन निष्पत्ति : कक्षा आठवीं

### अध्ययन में सुझाई गई शैक्षणिक प्रक्रिया -

- अध्ययनकर्ता को जोड़ी से/समूह में/व्यक्तिगत स्वरूप में सर्वसमावेशक कृति करने के लिए अवसर प्रदान करना और निम्न मुद्दों के लिए प्रोत्साहित करना ।
- परिसर, प्राकृतिक प्रक्रिया, घटना को देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सुगंध लेना, सुनना इन्हें ज्ञानेन्द्रियों से खोजना ।
- प्रश्न उपस्थित करना और मनन, चर्चा, रचना, सुयोग्य कृति, भूमिका, नाटक, वादविवाद, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से उत्तर खोजना ।
- कृति, प्रयोग, सर्वेक्षण, क्षेत्रभेंट इत्यादि के दरम्यान प्रेक्षणों को नोट करना ।
- नोट की गई जानकारी का विश्लेषण करना, परिणामों का अर्थ लगाना, अनुमान ज्ञात करना, सामान्यीकरण करना, मित्र तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ मिलकर निष्कर्ष निकालना ।
- नई कल्पना प्रस्तुत करना, नई रचना/उदाहरण, तुरंत विस्तार करना इत्यादि द्वारा सर्जनशीलता प्रदर्शित करना ।
- सहकार्य, सहयोग, सत्य विवरण देना, संसाधनों का उचित उपयोग इत्यादि मूल्यों को अंगीकृत करना, स्वीकारना और उनकी प्रशंसा करना ।
- परिसर में घटित होने वाली विविध आपदाओं के प्रति, संकटों के प्रति जागरूक रहना और कृति करना ।
- खगोलीय संकल्पनाओं को जानकर उस संदर्भ में मानव द्वारा की गई प्रगति समझ लेना ।
- वैज्ञानिक अविष्कारों की बातों पर चर्चा करना और उनका महत्त्व समझ लेना ।
- पर्यावरण का रक्षण करने के लिए प्रयत्न करना । उदा. खाद, कीटकनाशकों का उपयोग, पर्यावरण संवर्धन के लिए प्रयत्न करना इत्यादि ।
- उपलब्ध साधन सामग्री का उपयोग, रचना और नियोजन योग्य पद्धति से दर्शाना ।
- प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के परिणामों के विषय में अन्य को संवेदनशील करना ।

### अध्ययनार्थी -

- 08.72.01 गुणधर्म, संरचना और कार्य के आधार पर पदार्थ और सजीव में अंतर स्पष्ट करते हैं । जैसे कि प्राकृतिक और मानवनिर्मित धागे, संपर्क और असंपर्क बल, विद्युत चालक तथा विद्युत अवरोधक द्रव, वनस्पति तथा प्राणी कोशिका, अंडज तथा जरायुज प्राणी ।
- 08.72.02 गुणधर्म/विशेषताओं के आधार पर पदार्थ और सजीव का वर्गीकरण करते हैं । उदा. धातु और अधातु, लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्मजीव, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, खगोलीय पिंड, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत इत्यादि ।
- 08.72.03 जिज्ञासा के कारण निर्मित होने वाले प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आसान परीक्षण करते हैं । उदा. ज्वलन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं । अचार और मुरब्बे में नमक और शक्कर का उपयोग क्यों किया जाता है? एकसमान गहराई पर द्रव समान दाब क्यों प्रयुक्त करता है?
- 08.72.04 प्रक्रिया और घटना इनका कारणों से संबंध जोड़ते हैं । उदा. धुएँ की निर्मिति एवं हवा के प्रदुषकों का अनुपात, स्मारकों को होने वाली हानि और अम्लीय वर्षा इत्यादि ।
- 08.72.05 प्रक्रिया और घटना स्पष्ट करते हैं । उदा. मानव और प्राणी इनमें विविध क्रिया (श्वसन, रक्ताभिसरण इत्यादि), ध्वनि निर्मित और प्रसरण, विद्युतधारा के रासायनिक गुणधर्म, बहुविध प्रतिबिंब निर्मित होना, ज्योति की संरचना इत्यादि ।
- 08.72.06 रासायनिक अभिक्रिया के लिए शाब्दिक समीकरण लिखते हैं, उदा. धातु और अधातु इनकी हवा, पानी और अम्ल इत्यादि के साथ होने वाली अभिक्रिया ।
- 08.72.07 आपतन कोण और परावर्तन कोण का मापन करते हैं ।
- 08.72.08 सूक्ष्मजीव, प्याज की झिल्ली, मानव के गाल की कोशिका इत्यादि की स्लाईड तैयार करते हैं और उनकी सूक्ष्मदर्शकीय विशेषताएँ बताते हैं ।
- 08.72.09 नामांकित आकृति/प्रवाह तालिका बनाते हैं । उदा. कोशिका की रचना, हृदय की रचना, श्वसन संस्थान, प्रायोगिक विन्यास, तंतुवाद्य, पेरीस्कोप इत्यादि मानव नेत्र मानवीय प्रजनन अंग, प्रायोगिक विन्यास इत्यादि ।



- 08.72.10 अपने आसपास उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके प्रतिकृति तैयार करते हैं तथा उनके कार्य स्पष्ट करते हैं ।  
उदा. एक तार वाला विद्युतदर्शक, अग्निशामक इत्यादि ।
- 08.72.11 रचना, नियोजन, उपलब्ध स्रोतों के उपयोग इत्यादि के बारे में सर्जनशीलता प्रदर्शित करते हैं ।
- 08.72.12 जिन वैज्ञानिक संकल्पनाओं को सीख रहे हैं उनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उदा. पानी का शुद्धिकरण, जैविक विघटनशील और अजैविक विघटनशील कचरा पृथक करना, फसल का उत्पादन बढ़ाना । योग्य धातुओं एवं अधातुओं का विभिन्न कारणों के लिए उपयोग, घर्षण बढ़ाना, कम करना, पौगंडावस्था संबंधी दंतकथा और नकारात्मक रूढ़ियों को आव्हान देना, इत्यादि ।
- 08.72.13 वैज्ञानिक अविष्कारों के बारे में चर्चा और उनका महत्त्व समझ लेते हैं ।
- 08.72.14 पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रयत्न करते हैं । उदा. संसाधन स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, खादों और कीटकनाशकों का नियंत्रित उपयोग करना, पर्यावरण आपदाओं का सामना करने के उपाय सुझाना इत्यादि ।
- 08.72.15 प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के बारे में अन्य लोगों को संवेदनशील करते हैं ।
- 08.72.16 ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहयोग तथा भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति ये मूल्य प्रदर्शित करते हैं ।
- 08.72.17 विश्व की निर्मिति और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मानव की प्रगति स्पष्ट करते हैं ।
- 08.72.18 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विविध साधनों का संकल्पनाएँ समझने के लिए उपयोग करते हैं ।

## अनुक्रमणिका

### अ.क्र. पाठ का नाम

### पृष्ठ क्रमांक

1. सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण .....	1
2. स्वास्थ्य और रोग .....	6
3. बल तथा दाब .....	14
4. धारा विद्युत और चुंबकत्व .....	23
5. परमाणु का अंतर्भाग .....	28
6. द्रव्य की संरचना .....	39
7. धातु-अधातु .....	49
8. प्रदूषण .....	54
9. आपदा प्रबंधन .....	62
10. कोशिका तथा कोशिका के अंगक .....	67
11. मानव शरीर और अंग संस्थान .....	75
12. अम्ल, क्षारक की पहचान .....	83
13. रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध .....	89
14. उष्मा का मापन तथा प्रभाव .....	95
15. ध्वनि.....	104
16. प्रकाश का परावर्तन.....	110
17. मानवनिर्मित पदार्थ.....	116
18. परिसंस्था .....	122
19. तारों की जीवनयात्रा.....	129

# 1. सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण



थोड़ा याद करो।

1. सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन-सा है ?
2. सजीवों को पहचानने की जो 'द्विनाम पद्धति' उपयोग में लाई जाती है, उसकी खोज किसने की ?
3. द्विनाम पद्धति से नाम लिखते समय कौन से पदानुक्रम का विचार किया जाता है ?

## जैवविविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता (Biodiversity and need of classification)

पिछली कक्षा में हमने देखा की भौगोलिक परिवेश, अन्नग्रहण, संरक्षण ऐसे विभिन्न कारणों के कारण पृथ्वी पर पाए जानेवाले सजीवों में अनुकूलन दिखाई देता है। अनुकूलन अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीवों में भी विभिन्न बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं।

2011 की गणना के अनुसार पृथ्वीपर की जमीन और समुद्र आदि में पाए जानेवाले सभी सजीवों को मिलाकर लगभग 87 दस लाख प्रजातियाँ ज्ञात हैं। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करना चाहिए, ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। सजीवों में पाई जानेवाली समानताओं और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समूह और उपसमूह बनाए गए।

सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की इस प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं।

रॉबर्ट हार्डींग व्हिटाकर (1920- 1980) ये अमेरिकन पारिस्थितिकी तज्ञ (Ecologist)हो चुके थे। उन्होने इ.स. 1969 में सजीवों का 5 समूहों में विभाजन किया।

वर्गीकरण के लिए व्हिटाकर ने आगे दिए मापदंडों को विचार में लिया।


1. कोशिका की जटिलता (Complexity of cell structure) : आदिकेंद्रकी और दृश्यकेंद्रकी
2. सजीवों के प्रकार / जटिलता (Complexity of organisms) : एककोशिकीय और बहुकोशिकीय
3. पोषण का प्रकार (Mode of nutrition): वनस्पति - स्वयंपोषी (प्रकाशसंश्लेषण), कवक - परपोषी (मृतअवशेषों से अन्न शोषण), प्राणी- परपोषी (भक्षण)
4. जीवन शैली (Life style) : उत्पादक - वनस्पति, भक्षक - प्राणी, विघटक - कवक
5. वंशावली संबंध (Phylogenetic relationship) : आदिकेंद्रकी से दृश्यकेंद्रकी, एककोशिकीय से बहुकोशिकीय

## इतिहास के पन्नों से

इ.स. 1735 में कार्ल लिनियस ने सजीवों को दो जगतों में विभाजित किया वनस्पति और प्राणी (Vegetabilia & Animalia)।

इ.स. 1866 साल में हेकेल ने 3 जगतों की कल्पना की, जिसमें प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी का समावेश था। इ.स. 1925 में चॉटन ने फिरसे सजीवों के दो समूह किए - आदिकेंद्रकी और दृश्यकेंद्रकी।

इ.स. 1938 में कोपलैंड ने सजीवों को 4 जगतों में विभाजित किया - मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी।



## 1.1 पंचजगत वर्गीकरण पद्धति



करो और देखो ।

### जगत 1 : मोनेरा (Monera)

कृति . किसी साफ काँच पट्टी पर दही या छाछ की छोटीसी बूँद लेकर उसपर थोड़ा पानी डालकर मिला लो । उसपर धीरे से कव्हर स्लिप रख दो । सुक्ष्मदर्शी के नीचे काँचपट्टी का निरीक्षण करो । तुम्हें क्या दिखाई दिया ? हलचल करने वाले बिल्कुल छोटे तिनके जैसे सुक्ष्मजीव अर्थात् लैक्टोबैसिलाय जीवाणु ।

मोनेरा इस जगत में सभी प्रकार के जीवाणुओं और नीलहरित शैवाल का समावेश होता है ।

विशेषताएँ :

1. ये सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं ।
2. स्वयंपोषी या परपोषी होते हैं ।
3. ये आदिकेंद्रकी होते हैं जिनमें आवरणयुक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते ।

### जगत 2 : प्रोटिस्टा (Protista)


कृति : किसी डबरे से पानी की एक बूँद काँचपट्टीपर रखकर सुक्ष्मदर्शी के नीचे उसका निरीक्षण करो । कुछ अनिश्चित आकारवाले सुक्ष्मजीव हलचल करते दिखाई देंगे । ये सजीव अमीबा हैं ।

विशेषताएँ :


1. प्रोटिस्टा जगत के सजीव एककोशिकीय होते हैं और कोशिका में आवरणयुक्त केंद्रक पाया जाता है ।
2. प्रचलन हेतु कूटपाद या बाल जैसे रोमक या कशाभिकाएँ होती हैं ।
3. स्वयंपोषी उदा. युग्लिना, व्हॉल्व्हॉक्स कोशिका में हरितलवक होते हैं । परपोषी उदा. अमीबा, पैरामिशियम, प्लास्मोडियम, आदि ।

### जगत 3 : कवक (Fungi)


कृति : ब्रेड या रोटी का टुकड़ा पानी से थोड़ा-सा भिगाओ और किसी डिब्बिया में रखकर ढक्कन से उसे ढँक दो । दो दिनों बाद खोलकर देखो । उस टुकड़े पर कपास के जैसे सफेद तंतुओं की वृद्धि हुई दिखाई देगी । उनमें से कुछ तंतुओं का सुक्ष्मदर्शी के नीचे निरीक्षण करो ।



### 1.2 मोनेरा जगत के विविध सजीव



### 1.3 प्रोटिस्टा जगत के सजीव



### 1.4 कवक

**कार्य संस्थाके :** राष्ट्रीय विषाणु संस्था, पुणे (National Institute of Virology, Pune) यह विषाणुओं के संदर्भ में संशोधन का कार्य करती है । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत सन 1952 में इस संस्था की स्थापना की गई ।



## विशेषताएँ :

1. कवक जगत में परपोषी, असंश्लेषी और दृश्यकेंद्रकी सजीवों का समावेश होता है।
2. बहुसंख्य कवक मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं।
3. कवकों की कोशिकाभित्ति 'कायटिन' नामक जटिल शर्करा से बनी होती है।
4. कुछ कवक तंतुमय होते हैं जिनके कोशिकाद्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं।
5. कवक - किण्व (बेकर्स यीस्ट) फफूंदी, अस्पेरजिलस, (भुट्टे पर पाई जानेवाली फफूंदी), पेनिसिलियम, कुकूरमुत्ता (मशरूम)

व्हिटाकर के बाद वर्गीकरण की कुछ पद्धतियाँ प्रतिपादित की गईं। फिर भी आज तक कई वैज्ञानिक व्हिटाकर के पंचजगत वर्गीकरण को ही प्रमाण मानते हैं, यही इस पद्धति की सफलता है।




**थोड़ा सोचो।**

व्हिटाकर के वर्गीकरण पद्धति के गुण दोषों को स्पष्ट करो।

## सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण (Classification of microbes)

पृथ्वीपर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्मजीवों की संख्या सर्वाधिक है। उनके अध्ययन के लिए उनका निम्नप्रकार से विभाजन किया गया है।



### 1.6 सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण

सूक्ष्मजीवों के आकार के संदर्भ में निम्न अनुपात ध्यान में रखो।


1 मीटर =  $10^6$  मायक्रोमीटर ( $\mu\text{m}$ )

1 मीटर =  $10^9$  नैनोमीटर (nm)

### 1. जीवाणु (Bacteria) :

(आकार -  $1 \mu\text{m}$  से  $10 \mu\text{m}$ )

1. एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव (एककोशिकीय सजीव स्वतंत्र कोशिका) के रूप में जीवन यापन करती हैं। कभी-कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर बस्तियाँ (Colonies) बनाते हैं।
2. जीवाणु की कोशिका आदिकेंद्रकी होती है। कोशिका में केंद्रक और आवरणयुक्त अंगक नहीं पाए जाते, कोशिकाभित्ति होती है।
3. प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन (एक कोशिका के दो भाग होना) पद्धति से होता है।
4. अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या के दोगुने हो सकते हैं।



### 1.7 कुछ जीवाणु

## 2. आदिजीवी (Protozoa) : (आकार - लगभग 200 $\mu\text{m}$ )

1. मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं।
  2. दृश्यकेंद्रकी कोशिका वाले एक कोशिकीय सजीव।
  3. आदिजीवी की कोशिकारचना, संचलन के अंग, पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती हैं।
  4. प्रजनन द्विविभाजन पद्धति से होता है।
- उदा. अमीबा, पैरामिशियम - मटमैले पानी में पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवनयापन करते हैं।

एन्टामिबा हिस्टोलिटिका - आँव होने का कारण

प्लाज्मोडियम व्हायवॅक्स - मलेरिया (शीतज्वर) होने का कारण

युग्लीना - स्वयंपोषी

## 3. कवक (Fungi) : (आकार - लगभग 10 $\mu\text{m}$ से 100 $\mu\text{m}$ )

1. सड़े गले पदार्थ, वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर, कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं।
2. दृश्यकेंद्रकी एककोशकीय सूक्ष्मजीव कवक की कुछ प्रजातियाँ आँखों से दिखाई देती हैं।
3. मृतोपजीवी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से अन्नशोषण करते हैं।
4. प्रजनन लैंगिक पद्धति से और द्विविभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से होता है। उदा. यीस्ट, कॅन्डीडा, मशरूम

## 4. शैवाल (Algae) : (आकार - लगभग 10 $\mu\text{m}$ से 100 $\mu\text{m}$ )

1. पानी में बढ़ते हैं।
2. दृश्यकेंद्रकी, एककोशकीय, स्वयंपोषी सजीव
3. कोशिका में स्थित हरितलवकों की सहायता से प्रकाशसंश्लेषण करते हैं।


उदा. युग्लिना, क्लोरेल्ला, क्लॅमिडोमोनास

शैवाल की कुछ प्रजातियाँ एककोशिकीय हैं, अन्य सभी शैवाल बहुकोशिकीय होकर निरी आँखों से दिखाई देते हैं।


## 5. विषाणु (Virus) : (आकार - लगभग 10 nm से 100 nm)

विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता या वे सजीव-निर्जीव की सीमारेखा के मध्य हैं ऐसा कहा जाता है, परंतु इनका अध्ययन सूक्ष्मजैवविज्ञान (Microbiology) में किया जाता है।


1. विषाणु अतिसूक्ष्म अर्थात् जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। वे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई दे सकते हैं।
2. स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात् DNA (डीऑक्सीरायबो न्युक्लिक अम्ल) या RNA (रायबो न्युक्लिक अम्ल) से बना हुआ लंबा अणु है जिसपर प्रथिन का आवरण होता है।
3. वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही वे रह सकते हैं और उन कोशिकाओंकी सहायता से विषाणु स्वयं के प्रथिन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियाँ निर्माण करते हैं। इस के बाद पोषक (Host) कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिकृतियाँ मुक्त होती हैं और ये स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं।
4. विषाणुओं के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में विभिन्न रोग होते हैं।



पैरामेशियम




एन्टामिबा




प्लाज्मोडियम



सॅकरोमायसिस



क्लोरेल्ला



टोमॅटो - विल्ट विषाणु

1.8 कुछ सूक्ष्मजीव



## क्या तुम जानते हो?


मनुष्य - पोलियो विषाणु, इन्फ्लुएन्ज़ा विषाणु, HIV-एड्स विषाणु आदि  
 पशु - पिकोर्ना विषाणु (Picorna virus)  
 वनस्पति - टमाटर विल्ट विषाणु, तंबाकु मोझाईक विषाणु आदि ।  
 जीवाणु - बैक्टेरियोफाज विषाणु जीवाणुओं पर हमला करते हैं ।

## इंटरनेट मेरा मित्र

विभिन्न सूक्ष्मजीवों के चित्र और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर के तालिका बनाओ ।

## स्वाध्याय

- जीवाणु, आदिजीवी, कवक, शैवाल, आदिकेंद्रकी, दृश्यकेंद्रकी, सुक्ष्मजीव इनका वर्गीकरण व्हिटाकर पद्धति से करो ।
- सजीव, आदिकेंद्रकी, दृश्यकेंद्रकी, बहुकोशिकीय, एककोशिकीय, प्रोटिस्टा, प्राणी, वनस्पति, कवक की सहायता से पंचजगत वर्गीकरण पूरा करो ।



- मेरा जोडीदार खोजो ।

अ	ब
कवक	क्लोरेल्ला
प्रोटोजोआ	बैक्टेरियोफेज
विषाणु	कॉन्डिडा
शैवाल	अमीबा
जीवाणु	आदिकेंद्रकी

- दिए गए कथन सही या गलत लिखकर उनका स्पष्टीकरण लिखो ।

- लैक्टोबैसिलाय ये हानिकारक जीवाणु हैं ।
- कवकों की कोशिका भित्ति कायटिन से बनी होती हैं ।
- अमीबा कूटपादों की सहायता से संचलन करता है ।
- प्लाज्मोडियम के कारण आँव होती है ।
- टोमॅटोविल्ट यह जीवाणुजन्य रोग है ।

- उत्तर लिखो ।

- व्हिटाकर वर्गीकरण पद्धति के लाभ लिखो ।
- विषाणुओं की विशेषताएँ लिखो ।

- कवकों का पोषण कैसे होता है ।
  - मोनेरा जगत में कौन कौन से सजीवों का समावेश होता है ?
- पहचानो तो मैं कौन ?
    - मुझमें केंद्रक या प्ररसकलायुक्त कोशिका अंगक नहीं होते ।
    - मुझमें केंद्रक, प्ररसकलायुक्त कोशिका अंगक होते है ।
    - मैं सडेगले कार्बनिक पदार्थों पर जीवनयापन करता हूँ ।
    - मेरा प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन पद्धति से होता है ।
    - मैं मेरे समान प्रतिकृति का निर्माण करता हूँ ।
    - मेरा शरीर अंगहीन हैं और मैं हरे रंग का हूँ ।

- सही आकृतियाँ बनाकर नामांकित करो ।

- जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार
- पैरामिथियम
- बैक्टेरियोफाज

- आकार के अनुसार दिए गए नामों को आरोही क्रम में लिखो ।

जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल

### उपक्रम :

- इंटरनेट की सहायता से विभिन्न रोगकारक जीवाणुओं और उनसे होनेवाले रोगों की जानकारी प्राप्त कर उसकी तालिका बनाओ ।
- तुम्हारे इलाके में स्थित किसी पॅथॉलॉजी प्रयोगशाला में जाकर वहाँ के विशेषज्ञों से सूक्ष्मजीव, उनकी निरीक्षण पद्धति और विभिन्न सुक्ष्मदर्शियों के संदर्भ में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करो ।



JFIYYH



## 2. स्वास्थ्य और रोग



### थोड़ा याद करो ।

1. स्वास्थ्य खराब के कारण तुमने कभी विद्यालय से छुट्टी ली है क्या ?
2. हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, अर्थात निश्चित रूप से हमें क्या होता है ?
3. बीमार होने के पश्चात कभी-कभी औषधोपचार न लेते हुए भी हमें कुछ समय बाद ठीक लगने लगता है, तो कभी-कभी डॉक्टर के पास जाकर नियमित रूप से औषधोपचार लेते हैं । ऐसा क्यों होता है ?


### स्वास्थ्य (Health)

रोगों का केवल अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं ।

### रोग का क्या अर्थ है ?

शरीर की क्रियात्मक अथवा मानसशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रूकावट निर्माण करने वाली स्थिति ही रोग है । प्रत्येक रोग के विशेष लक्षण होते हैं ।

**रोगों के प्रकार :** तुमने मधुमेह, सर्दी, अस्थमा, डाऊन सिंड्रोम, हृदय विकार ऐसे विभिन्न रोगों के नाम सुने होंगे । इन सभी रोगों के कारण और लक्षण भिन्न-भिन्न होते हैं । विभिन्न रोगों का वर्गीकरण निम्ननुसार किया जाता है ।



### बताओ तो

1. नीचे दिए गए रोगों का प्रसार कौन-से माध्यम से होता है ?  
(पीलिया, मलेरिया, दाद, क्षय, डेंग्यू, अतिसार(पेचिश), नायटा, स्वाईन फ्ल्यू)
2. रोगजंतु का क्या अर्थ है ?
3. संक्रामक रोगों का क्या अर्थ है ?



2.2 थूंकद्वारा होने वाला रोगप्रसार

**अ. संसर्गजन्य/संक्रामक रोग :** दूषित हवा, पानी, भोजन अथवा वाहक (कीटक व प्राणी) इनके माध्यम से फैलने वाले रोग ही संक्रामक रोग होते हैं ।

रोगों के नाम	कारक	संक्रमण के माध्यम	लक्षण	उपाय तथा उपचार
क्षय (Tuberculosis)	जीवाणु (मायकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस)	रोगी के थूँक से, हवाद्वारा प्रसार, रोगी के संपर्क में दीर्घकाल रहना, रोगी की वस्तुओं का उपयोग करना।	अधिक समय तक खाँसी, थूँक के साथ खून गिरना वजन घटना, श्वासोच्छ्वास में कष्ट होना ।	बी. सी.जी. टीका लगवाना, रोगी को अन्य लोगों से अलग रखना, नियमित रूप से औषधियाँ लेना, DOT यह उपचार पूर्णतः व नियमित लेना चाहिए ।
पीलिया (Hepatitis)	विषाणु (हेपेटाइटिस A,B,C,D,E)	पानी, रोगी की उपयोग की हुई सुईयाँ, रक्त आधान ।	भूख कम लगना, गाढी पीली पेशाब, थकावट, जी मचलाना, उल्टी, धूसर विष्ठा (राख जैसे रंग की विष्ठा)	पानी उबालकर और छानकर पीना चाहिए, शौचालय का उपयोग करने के पूर्व और पश्चात हाथ साबुन से धोने चाहिए ।
पेचिश (अतिसार) (Diarrhoea)	जीवाणु, विषाणु, शिगैला बैसीलस, एन्टामिबा हिस्टोलिटीका	दूषित पानी और भोजन	पेट में दर्द, पानी की तरह पतले जुलाब	खाद्यपदार्थ ढँककर रखना चाहिए। पानी उबालकर तथा छानकर पीना चाहिए । जल संजीवनी (ORS) लेनी चाहिए ।
हैजा (Cholera)	जीवाणु (विह्रियो कॉलरी)	दूषित भोजन तथा पानी	उल्टियाँ और बार-बार जुलाब, पेट में दर्द, पैरों में अकड़न पैदा होती हैं ।	स्वच्छता रखनी चाहिए, खुले भोज्यपदार्थ नहीं खाना चाहिए, पानी उबालकर पीना चाहिए, कॉलरा प्रतिबंधक टीका लगवाना चाहिए ।
विषमज्वर (Typhoid)	जीवाणु (सालमोनेला टायफी)	दुषित भोजन तथा पानी	भूख कम होना, सिरदर्द, जी मचलाना, पेट पर लाल- लाल फुँसियाँ आना, अतिसार, 104°F तक ज्वर आना ।	स्वच्छ तथा निर्जंतुक पानी पीना, टीका लगवाना, गंदे पानी का निपटारा उचित प्रकार से करना चाहिए ।

### 2.3 कुछ संक्रामक रोग




तालिका पूर्ण करो ।

आंत्रशोथ, मलेरिया, प्लेग, कुष्ठरोग, जैसे विविध रोगों की जानकारी प्राप्त करो और ऊपर दिये अनुसार सारणी तैयार करो ।



निरीक्षण करो तथा चर्चा करो ।



### 2.4 परिसर की अस्वच्छता

#### इंटरनेट मेरा मित्र

- चेचक (Chicken pox) रोग की जानकारी, कारण, लक्षण तथा उपाय खोजो ।
- अधिक जानकारी प्राप्त करो । अ. पल्स पोलिओ अभियान आ. WHO

- चित्र में पानी संचित की गई वस्तुएँ तुम्हें कहाँ-कहाँ दिखाई देती हैं ?
- चित्र के आधार पर तुम्हें कौन-से खतरों की कल्पना होती है ?

## वर्तमान स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण रोग



**बताओ तो**


1. विद्यालय में 'स्वच्छ हाथ' उपक्रम का क्यों आयोजन किया जाता है?
2. बारिश के मौसम में पानी उबालकर क्यों पीना चाहिए ?
3. व्यक्तिगत स्वच्छता किस प्रकार रखते हैं?

**डेंगू (Dengue) :** सग्रहित पानी में मच्छर अंडे देते हैं तथा उनकी वृद्धि के लिए पोषक वातावरण निर्मित होकर उनकी संख्या बढ़ती है। मच्छरों की विभिन्न प्रजातियाँ अलग-अलग रोगों का प्रसार करती हैं। उनमें से एडिस इजिप्ती प्रकार के मच्छरद्वारा डेंगू नामक संक्रामक रोग का प्रसार होता है। यह रोग फ्लेवी व्हायरस प्रकार के डेन -1- 4 विषाणु के कारण होता है।

### लक्षण

1. तेज बुखार, तेज सिरदर्द, उल्टियाँ होना।
2. सबसे महत्वपूर्ण आँखों में अधिक दर्द होता है।
3. रक्त में रक्त पट्टिकाओं की (platelets) संख्या कम होने के कारण शरीर के अंदर रक्तस्राव होना।

**समझिए और दूसरों को समझाइए।**



**निरीक्षण करो तथा चर्चा करो।**

नीचे दर्शाई अनुसार आकृति के चित्रों का निरीक्षण करके उनका वर्णन चौखट में लिखो और कक्षा में चर्चा करो।



**जानकारी प्राप्त करो।**

तुम्हारे परिसर में पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका मच्छरों के प्रसार के प्रतिबंध के लिए कौन-सी उपाय करती हैं?



**क्या तुम जानते हो?**

मलेरिया का प्रसार मादा एनॉफिलीज मच्छर के कारण होता है तो हाथी रोग मादा क्युलेक्स मच्छर से होता है। एनॉफिलीज और एडिस मच्छर स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं तो क्युलेक्स मच्छर दूषित पानी, गटरों, नालियों में पाए जाते हैं।

### 2.5 डेंगू : कारण तथा प्रतिबंधात्मक उपाय

**स्वाइन फ्लू : संसर्ग होने के कारण**

- स्वाइन फ्ल्यू का संसर्ग सूअर इस प्राणी द्वारा तथा मानवद्वारा होता है।
- स्वाइन फ्ल्यू के विषाणु का प्रसार रोगी के नाक तथा गले के स्राव व थूँक से होता है।

**स्वाइन फ्लू के लक्षण**

- दम लगना अथवा श्वसन में रूकावट निर्माण होना।
- गले में खिंचखिंच, शरीर में दर्द होता है।



**स्वाईन फ्लू का निदान :** स्वाईन फ्लू के निदान के लिए रोगी के गले के द्रव पदार्थ का नमूना प्रयोगशाला में जाँच के लिए भेजा जाता है। 'राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी - एन. आय.व्ही.), पुणे' और 'राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसिजेस - एन.आय.सी.डी) दिल्ली' की प्रयोगशाला में जाँच करने की व्यवस्था उपलब्ध है।



### क्या तुम जानते हो?

मार्च 2009 में मेक्सिको देश में सर्वप्रथम इस रोग से पीड़ित रोगी निदर्शन में आए। स्वाईन फ्लू इन्फ्लुएन्सा ए (H<sub>1</sub>N<sub>1</sub>) विषाणु के कारण होता है। यह रोग सूअरों में पाए जाने वाले विषाणुओं के कारण होता है। सूअर के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को इन विषाणुओं की बाधा हो सकती है।



**एड्स (AIDS) :** एड्स (AIDS - Acquired Immuno Deficiency Syndrome) यह रोग HIV (Human Immuno Deficiency Virus) विषाणु के कारण मानव को होता है। इसमें मानव को प्राकृतिक रोगप्रतिकारशक्ति धीरे-धीरे क्षीण होने के कारण विभिन्न रोगों से वह पीड़ित हो जाता है। वैद्यकीय प्रयोगशाला में की गई जाँच द्वारा प्राप्त नतीजे के बिना एड्स के निदान को निश्चित नहीं किया जा सकता है। उसका निश्चित निदान करने के लिए ELISA यह रक्त की जाँच है। एड्स के लक्षण व्यक्तिसापेक्ष होते हैं।



### इसे सदैव ध्यान में रखो।

- HIV ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करने पर, साथ में भोजन करने पर, व HIV ग्रस्त व्यक्ति की सेवा करने पर एड्स नहीं होता है।
- HIV ग्रस्त व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार रखना चाहिए।



### क्या तुम जानते हो?

एच. आय.व्ही. विषाणु प्रथम आफ्रिका में बंदर की एक विशेष प्रजाति में पाया गया। 'नॅशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम' और 'यू एन एड्स' के अनुसार भारत में 80 से 85 प्रतिशत असुरक्षित विषम लैंगिक संबंध से फैल रहा है।

### प्राणियों द्वारा होने वाला रोगप्रसार



### बताओ तो

1. चूहो, मूसों को नष्ट करने के लिए तुम्हारे घर में कौन से उपाय करते हैं?
2. पालतू कुत्तों, बिल्लियों, पक्षियों की स्वास्थ्यसंबंधी देखभाल की सावधानी क्यों ली जाती है?
3. क्या कबूतर, घुमंतु प्राणियों और मानवीय स्वास्थ्य का कुछ संबंध है?
4. चूहों, मूसों, तिलचिट्टों का मानव स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है?

**रेबीज (Rabies) :** रेबीज एक विषाणुजन्य रोग है। यह रोग रेबीज से प्रभावित कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली आदि के काँटने से होता है। इस रोग के विषाणु तंत्रिकांतुओं द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। जल का डर (Hydrophobia) इस रोग का प्रमुख लक्षण है। इस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है इसीलिए इसे जलांतक भी कहा जाता है। रेबीज जानलेवा रोग है, परंतु रोग होने से पूर्व टीका देकर उससे संरक्षण कर सकते हैं। कुत्ते के काटने के बाद इस रोग के लक्षण 90 से 175 दिन में दिखाई देते हैं।

### रेबीज रोग के लक्षण

1. 2 से 12 हफ्ते तक ज्वर रहता है।
2. रोगी अतिशयोक्तिपूर्ण कृति करता है।
3. पानी से डर लगता है।

### इंटरनेट मेरा मित्र

1. इंटरनेट पर रेबीज रोग संबंधी विविध व्हिडियो देखो।
2. रेबीज रोगों के प्रतिबंधात्मक उपचार की जानकारी प्राप्त करो और सूची तैयार करके मित्रों के साथ चर्चा करो।



### बताओ तो

1. प्राणियों के रहने की जगह, पिंजरे, रसोईघर तथा भोजन के स्थान पर क्यों नहीं होने चाहिए?
2. रेबीज रोग को कौन से लक्षणोंद्वारा पहचानोगे?

**ब. असंक्रामक रोग :** वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति (रोगी) से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग कुछ विशेष कारणों से व्यक्ति के शरीर में ही उत्पन्न होते हैं।

**1. कर्करोग (Cancer) :** कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि को कर्करोग कहते हैं। कर्करोग की कोशिकाओं के समूह अथवा गाँठ को ट्यूमर (Tumor) कहते हैं। कर्करोग, फेफड़ों, मुँह, जीभ, जठर, स्तन, गर्भाशय, त्वचा इन अंगों में तथा रक्त या अन्य ऊतकों में हो सकता है।

**कारण :** अधिक मात्रा में तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान करना, आहार में तंतुमय अन्नपदार्थों (फल तथा सब्जियों) को समावेश न होना, अधिक मात्रा में जंकफुड (वडापाव, पिइझा, आदि) खाना। इस प्रकार और भी अन्य कारण हो सकते हैं। आनुवंशिकता भी एक कारण हो सकता है।

### लक्षण

1. दीर्घकालीन खाँसी, आवाज में परिवर्तन होना, खाते समय गले में दर्द होता है।
2. उपचार करने पर ठीक न होने वाला दाग या सूजन।
3. स्तन में गाँठ निर्माण होना।
4. अकारण वजन कम होना।



### चर्चा करो

कर्करोग पर प्रतिबंध किस प्रकार करना चाहिए इसपर चर्चा करो और पोस्टर तैयार करके कक्षा में लगाओ।



### बताओ तो

बिना शक्कर की चाय लेने वाले या मीठे पदार्थ का सेवन टालने वाली व्यक्ति क्या तुम्हें मालूम हैं? उनके द्वारा ऐसा करने का क्या कारण होगा ?

**2. मधुमेह (Diabetes) :** स्वादुपिंड में निर्मित होनेवाला इन्सुलिन संप्रेरक रक्त की ग्लूकोज शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। इन्सुलिन की मात्रा कम होने पर शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं होती, इस विकार को मधुमेह कहते हैं।



### क्या तुम जानते हो?

**कर्करोग पर आधुनिक निदान व उपचार पद्धति :** कर्करोग का निदान करने के लिए टिशू डायग्नोसिस, सी.टी.स्कॅन, एम.आर.आय.स्कॅन, मॅमोग्राफी बायप्सी, आदि तंत्रों का उपयोग किया जाता है। उपचार में रसायनोपचार, किरणोपचार शल्यचिकित्सा इन प्रचलित पद्धतियों के साथ-साथ रोबोटिक सर्जरी, लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी ऐसी उपचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है।



### इसे सदैव ध्यान में रखो।

आहार पर उचित नियंत्रण रखने पर कुछ प्रकारों के कर्करोग से संरक्षण हो जाता है। कर्करोग पर आधुनिक उपचार के साथ-साथ शारीरिक व्यायाम करने से अधिक लाभ होता है तंबाकू सेवन, धूम्रपान जैसे व्यसनों से दूर रहो।



### बताओ तो

बिना शक्कर की चाय लेने वाले या मीठे पदार्थ का सेवन टालने वाली व्यक्ति क्या तुम्हें मालूम हैं? उनके द्वारा ऐसा करने का क्या कारण होगा ?

**2. मधुमेह (Diabetes) :** स्वादुपिंड में निर्मित होनेवाला इन्सुलिन संप्रेरक रक्त की ग्लूकोज शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। इन्सुलिन की मात्रा कम होने पर शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं होती, इस विकार को मधुमेह कहते हैं।

इन लक्षणों की ओर ध्यान न देना उचित नहीं है।

- रात में मुत्रविसर्जन को बार-बार जाना, वजन में वृद्धि या कमी होना ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं।

**मधुमेह के कारण :** ● आनुवंशिकता ● अधिक मोटापा ● व्यायाम या कष्ट का अभाव ● मानसिक तनाव

**प्रतिबंधात्मक उपचार :** डॉक्टर की सलाह से आहार, औषधी और व्यायाम अपनाकर नियंत्रण करना।



### क्या तुम जानते हो?


वर्तमान में साधारणतः देश में सात करोड़ मधुमेह के रोगी हैं। विश्व में मधुमेह के सबसे अधिक रोगी भारत में पाए जाते हैं।

**3. हृदयविकार (Heart Diseases) :** हृदय की पेशियों को रक्त की अर्थात् ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की कम आपूर्ति होने पर हृदय की कार्यक्षमता कम होती है। इस कारण हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है और तनाव से दिल का दौरा पड सकता है। दिल का दौरा पडने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह व औषधपचार अत्यावश्यक हैं।

**इन लक्षणों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए।**

\* सीने में असहनीय दर्द होना, सीने के दर्द के कारण कंधे, गर्दन और हाथ में दर्द, हाथ सिकुडना, पसीना आना, अस्वस्थ, कपकपी महसूस होना।

**हृदयविकार के कारण :** धूम्रपान करना, मद्यपान, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मोटापा, शारीरिक कष्ट की कमी, व्यायाम का अभाव, निरंतर बैठे काम करना, आनुवंशिकता, तनाव, अतिक्रोध और चिंता।



### जानकारी प्राप्त करो।

1. तुमने कभी दादा-दादी को काढा (अर्क) लेते हुए या कुछ चाटने वाले पदार्थ (चाटण) लेते हुए देखा है क्या? उनके साथ उससंबंधी चर्चा करो।
2. घृतकुमारी, हल्दी, अदरक, लहसुन इनका उपयोग औषधी के रूप में कौन-सी बिमारी के लिए और किस प्रकार करते हैं, इसकी जानकारी दादा-दादी से प्राप्त करो।

**औषधियों का दुरुपयोग :** कभी-कभी डॉक्टर की सलाह न लेकर कुछ व्यक्ति अपने आप औषधियाँ लेते हैं। उनका अधिक मात्रा में उपयोग करने से हमारे शरीर पर दुष्परिणाम होते हैं। जैसे अधिक मात्रा में या बार बार वेदनाशामक (Pain Killers) लेने से तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यकृत इनपर विपरीत परिणाम होता है। प्रतिजैविकों (Antibiotic) का अधिक उपयोग करने से जी मचलना, पेट में दर्द, पतली जुलाब, शरीर पर लाल चकते (Rash) आना, जीभ पर सफेद (श्वेत) दाग पडना आदि लक्षण दिखाई देते हैं।

### इंटरनेट मेरा मित्र

इंटरनेट पर मधुमेह की जानकारी देनेवाले विविध विडियो देखो। महत्त्वपूर्ण जानकारी को नोट करो और समूह में कक्षा में PPT प्रस्तुतीकरण करो।



### इसे सदैव ध्यान में रखो।

प्रत्येक रोग का एक विशेष वैज्ञानिक कारण होता है। दैवी प्रकोप अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वेष से रोग नहीं होते हैं। उचित चिकित्सकीय उपचार से ही रोग ठीक होते हैं। तंत्र-मंत्र, जादूटोना के कारण रोग ठीक नहीं होते हैं।



### इसे सदैव ध्यान में रखो।

#### हृदयविकार पर प्राथमिक उपचार

प्रथमतः 108 नंबर पर रूग्णवाहिका को फोन करो। रोगी के कंधे हिलाकर उसकी चेतना को पहचानो। रोगी को कठोर पृष्ठभाग पर लेटाकर वैज्ञानिक पद्धति से रोगी के सीने पर दाब दो। इस पद्धति को कॉम्प्रेसन ओन्ली लाईफ सपोर्ट (C.O.L.S.) कहते हैं। इसमें एक मिनट में 100 से 120 दाब की गति से कम से कम 30 बार सीने के मध्यभाग में दाब देना चाहिए।

### इंटरनेट मेरा मित्र

आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी, निसर्गोपचार, अॅलोपॅथी, युनानी इन चिकित्सकीय पद्धतियों संबंधी इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करो।





## विचार करो ।

गरीब रोगी महँगी औषधियाँ खरीद नहीं सकता । क्या ऐसे समय में उनके लिए कुछ विकल्प उपलब्ध होंगे और कौन से ?



### 2.6 जेनेरिक औषधियाँ

**जेनेरिक औषधियाँ :** जेनेरिक औषधियों को सामान्य औषधियाँ भी कहते हैं । इन औषधियों की निर्मिति तथा वितरण किसी पेटेंट के बिना किया जाता है । ये औषधियाँ ब्रॅन्डेड औषधियों के समतुल्य और उसी दर्जे की होती हैं । जेनेरिक औषधियाँ तैयार करते समय उस औषधियों के घटकों का अनुपात अथवा उन औषधियों का फॉर्मूला तैयार मिलने के कारण उसके संशोधन का खर्च बच जाता है । इस कारण जेनेरिक औषधियों की कीमत ब्रॅन्डेड औषधियों की कीमत से बहुत कम होती है ।

#### सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के साथ

जेनेरिक औषधियों को तुम Healthkart और Jan Samadhan इस मोबाइल ऐप की सहायता से आसानी से प्राप्त कर सकते हो । वे ऐप तुम्हारे घर के मोबाइल पर डाऊनलोड करो । जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करो ।

**जीवनशैली और बिमारी :** जीवनशैली का अर्थ आहार-विहार इसमें हरदिन की दिनचर्या तथा आहार का समावेश होता है । आजकल देर से उठना, देर से सोना, भोजन के समय में परिवर्तन, व्यायाम तथा कष्ट के कार्य का अभाव होना, जंकफुड खाना ऐसी बातों का अनुपात बढ़ गया है । इसलिए बीमार पड़ने का अनुपात बढ़ गया है । बीमार होने का अनुपात कम करना है, तो उचित जीवनशैली को अपनाना अत्यंत आवश्यक है । इनमें उचित नींद, उचित आहार, इसके अलावा योगासन, प्राणायाम और व्यायाम करना आवश्यक है । इसी प्रकार व्यायाम भी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना जरूरी है । प्राणायाम तथा योगासन विशेषज्ञ व्यक्तियों के मार्गदर्शन में करना चाहिए विविध प्राणायाम तथा योगासन के विडियो देखो ।

**टीकाकरण (Vaccination) :** रोग न हो इसलिए उसका प्रतिबंध करने के लिए टीकाकरण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है । तुम्हारे पास के अस्पताल से टीकाकरण की तालिका प्राप्त करके उसका अध्ययन करो ।



## क्या तुम जानते हो ?

- \* प्रधानमंत्री जन औषधी योजना 1 जुलै 2015 में भारत सरकार ने घोषित की । इस योजना के अंतर्गत उच्च दर्जे की औषधियों को कम कीमत में जनता को उपलब्ध कर देते हैं । उसके के लिए 'जन औषधी स्टोअर्स' शुरू किए गए हैं ।
- \* भारतीय कंपनियाँ अधिक पैमाने पर जेनेरिक औषधियों का निर्यात करती हैं । परंतु देश में मात्र ब्रॅन्डेड कंपनी के नाम से ही अधिक कीमत पर औषधियों को बेचा जाता है । अमेरिका में 80% जेनेरिक औषधियों का उपयोग किया जाता है अतः औषधियों पर खर्च होने वाले सैकड़ों अरब रूपयों की वहाँ बचत होती है ।

### आओ मनाएँ स्वास्थ्य दिन विशेष

7 अप्रैल - विश्व स्वास्थ्य दिवस

14 जून - विश्व रक्तदान दिवस

29 सितंबर - विश्व हृदय दिवस

14 नवंबर - विश्व मधुमेह दिवस

## महत्त्व जानो .....

**रक्तदान :** रक्तदाता के एक युनिट रक्तदान से एक समय में कम से कम तीन रोगियों की जरूरत पूर्ण होती है। जैसे कि लालरक्तकण, श्वेतरक्तकण, रक्तपट्टिका। एक वर्ष में चार बार रक्तदान करने पर 12 रोगियों की जान बचा सकते हैं।

**नेत्रदान :** मृत्यू के बाद हम नेत्रदान कर सकते हैं। इस के कारण अंधे व्यक्तियों को दृष्टि मिल सकती है।



## स्वाध्याय

1. अंतर स्पष्ट करो।  
संक्रामक और असंक्रामक रोग
2. असंगत शब्द पहचानो।  
अ. मलेरिया, पीलिया, हाथीरोग, डेंग्यू  
आ. प्लेग, एड्स, हैजा क्षय.
3. एक से दो वाक्य में उत्तर लिखो।  
अ. संक्रामक रोग फैलाने वाले माध्यम कौन-कौन से हैं?  
आ. पाठ के अतिरिक्त असंक्रामक रोगों के कौन-से नाम तुम बता सकते हो?  
इ. मधुमेह, हृदयविकार इनके प्रमुख कारण कौन-से हैं?
4. तो क्या निष्पन्न होगा/तो क्या टाल सकोगे तो किन-से रोगों पर नियंत्रण होगा?  
अ. पानी उबालकर व छानकर पीना।  
आ. धूम्रपान, मद्यपान न करना।  
इ. नियमित संतुलित आहार लेना व व्यायाम करना।  
ई. रक्तदान के पूर्व रक्त की उचित जाँच की।
5. परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो।  
“गौरव 3 वर्ष का है। वह और उसका परिवार सामान्य बस्ती (झोपडपट्टी) में रहते हैं। सार्वजनिक शौचालय उसके घर के पास है। उसके पिताजी को मद्यपान करने की आदत है। उसकी माताजी को संतुलित आहार का महत्त्व पता नहीं है।”  
अ. ऊपर्युक्त स्थिति में गौरव को कौन-कौनसी बीमारियाँ हो सकती हैं?  
आ. उसे तथा उसके अभिभावकों को तुम क्या मदद करोगे?  
इ. गौरव के पिताजी को कौनसी बिमारी होने की संभावना है?
6. नीचे दिए गए रोगों के प्रतिबंधात्मक उपाय लिखो।  
अ. डेंग्यू आ. कर्करोग इ. एड्स
7. महत्त्व स्पष्ट करो।  
अ. संतुलित आहार  
आ. व्यायाम/योगासन
8. सूची बनाओ।  
अ. विषाणुजन्य रोग  
आ. जिवाणुजन्य रोग  
इ. कीटकोंद्वारा फैलने वाले रोग  
ई. आनुवांशिकता के कारण होने वाले रोग
9. कर्करोग की आधुनिक निदान व वैद्यकीय उपचार पद्धति संबंधी जानकारी लिखो।
10. तुम्हारे घर में उपलब्ध औषधियों के नाम और उनके घटक लिखो तथा उनकी सूची बनाओ।

### उपक्रम :

- अ. भिन्न-भिन्न रोगों की जानकारी देने वाले, जनजागृती निर्मित करने वाले भित्तिपत्रक तैयार करके विद्यालय में प्रदर्शन लगाओ।
- आ. नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जाओ और टीकाकरण संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करो।
- ई. डेंग्यू, मलेरिया, स्वाईन फ्लू संबंधी जनजागृती करने वाले पथनाट्य तैयार करके तुम्हारे विद्यालय के नजदीक के स्थान पर प्रस्तुत करो।



### 3. बल तथा दाब



थोड़ा याद करो ।

बल का अर्थ क्या है ?

स्थिर वस्तु पर बल क्रियाशील न हो, तो वह स्थिर ही रहती हैं। गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह उसी वेग से व उसी दिशा में सतत गतिशील रहती है। यह न्यूटन का गतिसंबंधी पहला नियम है।



निरीक्षण करो

आकृति 3.1 व 3.2 के चित्रों का निरीक्षण करो।



#### 3.1 विभिन्न क्रियाएँ

**संपर्क व असंपर्क बल (Contact and Non contact Forces) :** आकृति 3.1 में मोटर ढकेलने वाले मनुष्य द्वारा पीछे से बल लगाने पर मोटर आगे की दिशा में ढकेली जाती है। रूठ कर बैठे हुए कुत्ते को लड़का खींचता है और फुटबॉल खेलने वाला लड़का पैर से गेंद को ढकेलता है। इससे क्या स्पष्ट होता है ? दो वस्तुओं में आंतरक्रिया द्वारा उन वस्तुओं पर बल प्रयुक्त होता है।

आकृति 3.2 में चुंबक के ध्रुवों की ओर लोहे की आलपिनें चुंबकीय बल के कारण आकर्षित होती है और चिपकती हैं, यह दिखाया है।



#### 3.2 कुछ घटनाएँ

नारियल के पेड़ से नारियल नीचे गिर रहा है। गुरुत्वीय बल के कारण पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। बालों पर रगड़ी हुई कंघी की ओर टेबल पर रखे गए कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं। कंघी पर स्थिर विद्युत आवेश होने के कारण एवं टुकड़ों पर प्रेरित विद्युत आवेश होने के कारण कंघी और टुकड़ों में स्थिर विद्युत बल प्रयुक्त होता है और कागज के टुकड़े कंघी पर चिपकते हैं।

आकृति 3.1 में पिंडों का एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क के कारण अथवा एक और पिंड के द्वारा किए गए संपर्क के कारण बल प्रयुक्त हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार के बल को 'संपर्क बल' कहते हैं। आकृति 3.2 में दो वस्तुओं में संपर्क न होने पर भी उन दो पिंडों पर बल प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। इसप्रकार के बल को 'असंपर्क बल' कहते हैं।

स्नायुबल (पेशीय बल) यह संपर्क बल का उदाहरण है यह हमारे स्नायुओं (पेशियों) की मदद से पिंडों पर प्रयुक्त

किया जाता है। उठाना, ढकेलना, खींचना ऐसी अनेक क्रियाओं में यह प्रयुक्त होता है। इसके विपरीत चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल जैसे बल किसी भी प्रकार के संपर्क के बिना प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये असंपर्क बल के उदाहरण हैं।

किसी गेंद को मेज पर रखकर उसे हल्का सा धक्का देने पर वह थोड़ा आगे जाकर धीमा होते-होते रूक जाती है। समतल रास्ते पर गतिशील वाहन इंजन बंद करने के बाद थोड़ी दूरी पर जाकर रूक जाता है। टेबल का और जमीन का पृष्ठभाग और उसपर गतिशील वस्तु इनमें पाए जानेवाले घर्षण बल के कारण ऐसा घटित होता है। घर्षण बल नहीं होता तो न्यूटन के पहले गतिसंबंधी नियमानुसार पिंड गतिशील ही रहता। घर्षण बल दैनिक जीवन में अत्यंत उपयुक्त है। जमीन पर चलते समय हम पैरों से जमीन को पीछे की ओर ढकलते हैं। घर्षण बल न हो तो हम फिसलकर गिर जाएंगे और चल नहीं सकेंगे। घर्षण बल यह सभी गतिशील पिंडों पर प्रयुक्त होता है और वह गति की दिशा



के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। रास्तों पर गिरे केले के छिलके पर से फिसलते हुए किसी को तुमने देखा होगा। उसी प्रकार कीचड के कारण भी फिसलते हैं, ये दोनों उदाहरण घर्षण कम होने के कारण घटित होते हैं।




**थोड़ा सोचो।**

संपर्क व असंपर्क बल प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य उदाहरणों की सूची बनाओ तथा किस प्रकार के बल हैं, यह लिखो।



**करो और देखो।**

प्लास्टिक की चौकोन आकार की दो छोटी बोतलें लो। उनके ढक्कन कस कर बंद करो। दोनों बोतलों पर 2 छोटे छड़ चुंबक रखो और उन्हें चिपकपट्टी की सहायता से व्यवस्थित चिपकाओ। (आकृति 3.3)



**3.3 असंपर्क बल**

एक बड़े से प्लास्टिक के ट्रे में पानी भर कर उसमें ये बोतलें चुंबक ऊपर की ओर आए इसप्रकार से तैरते हुए छोड़ो। एक बोतल दूसरी के पास लेकर जाओ। चुंबक के विरुद्ध ध्रुवों में आकर्षण होने के कारण एक बोतल के छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास में हो तो दोनों बोतलें एक-दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। बोतलों की दिशा बदलकर क्या होता है? उसका

निरीक्षण करो। प्रत्यक्ष संपर्क में न आते हुए भी बोतलों की गति में होनेवाला परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इसका अर्थ दोनों चुंबकों पर असंपर्क बल क्रियाशील है।




**थोड़ा सोचो।**

स्थिर विद्युत बल के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। स्थिर विद्युत बल यह असंपर्क बल है। यह सिद्ध करने के लिए तुम कौन-सा प्रयोग करोगे?

### संतुलित और असंतुलित बल (Balanced and Unbalanced Forces)



**करो और देखो।**



**3.4 संतुलित और असंतुलित बल**

पुट्टे का एक खाली खोका लेकर उसके दोनों ओर डोरी अथवा मजबूत धागा बाँधकर आकृति 3.4 में दिखाए अनुसार खोका समतल पृष्ठभाग वाले मेज पर रखो। धागा मेज के दोनों बाजुओं की ओर नीचे लो। उनके सिरों पर पलडे बांधो। दोनों पलडों में समान द्रव्यमानवाली वस्तु (या वजन) रखो। खोका मेज पर स्थिर दिखाई देगा। किसी एक पलडे में दूसरे पलडे की अपेक्षा अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु रखने पर खोका उस पलडे की दिशा में सरकने लगेगा। पलडे में समान द्रव्यमान होने पर पलडे पर समान गुरुत्वीय बल क्रियाशील होता है, अर्थात् खोके पर संतुलित बल क्रियाशील होता है। बलों की दिशा विपरीत होने के कारण परिणामी बल शून्य होता है और खोका स्थिर रहता है। इसके विपरीत यदि किसी एक पलडे में अधिक द्रव्यमान (भार) रखने पर खोका अधिक द्रव्यमान वाले पलडे की दिशा में सरकने लगता है। खोके पर दोनों ओर से असमान बल लगाने से असंतुलित बल क्रियाशील होता है तथा उसके परिणामस्वरूप खोके को गति प्राप्त होती है।

रस्सी खींच का खेल खेलनेवाले अपनी-अपनी दिशा में डोरी को खींचते हैं। दोनों ओर से एक समान ताकत अर्थात् समान बल हो तो डोरी हिलती नहीं। एक ओर का बल अधिक होने पर डोरी उस ओर सरकती है, अर्थात् प्रथमतः दोनों ओर से लगाया गया बल संतुलित था, वह असंतुलित होने पर अधिक बल की दिशा में डोरी सरकती है।

एक और उदाहरण देखो। अनाज से भरा बड़ा डिब्बा जमीन पर सरकाते समय एक व्यक्ति की अपेक्षा दो व्यक्तियों द्वारा एक ही दिशा में बल लगाने पर सरकाना आसान होता है। इसका अनुभव तुमने लिया ही होगा। इस उदाहरण से तुम्हें क्या समझ में आया ?

- अ. किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अनेक बल लगाने पर उनके योगफल के बराबर उस वस्तु पर बल प्रयुक्त होता है ।  
 आ. यदि दो बल एक ही वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में लगाए जाएं तो, उनके अंतर के बराबर बल उस वस्तु पर प्रयुक्त होता है ।  
 इ. बल यह परिमाण तथा दिशा इन दोनों द्वारा व्यक्त किया जाता है । इसलिए बल एक सदिश राशि है ।

किसी एक वस्तु पर एक से अधिक बल प्रयुक्त हो तो उस वस्तु पर होने वाला परिणाम यह उसपर प्रयुक्त कुल बल के कारण होता है ।

बल के कारण स्थिर पिंड को गति प्राप्त होती है । गतिशील पिंड की चाल तथा दिशा बदलती है । उसी प्रकार गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है । बल के कारण वस्तु का आकार भी बदल सकता है । आटे को गूँथते समय आटे के गोले को बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है । कुम्हार घड़े को आकार देते समय विशिष्ट दिशा में बल लगाता है । रबड बँड को खींचने पर उसका प्रसरण होता है । ऐसे अनेक उदाहरण हैं ।

**जडत्व (Inertia) :** बल के कारण पिंड की स्थिति का बदलना हमने देखा है । बल के बिना पदार्थ की गति जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति दिखाता है । नीचे कुछ उदाहरण देखेंगे ।



**करो और देखो ।**

**कृति 1 :** एक काँच के गिलास पर पोस्टकार्ड रखो । उस पर 5 रूपये का सिक्का रखो । अब पोस्टकार्ड को हाथ की ऊँगली की सहायता से टक्कर मारो । सिक्का सीधा गिलास में गिरता है । क्या यह देखा है ?

**कृति 2 :** एक लोहे के स्टैंड पर किसी एक धागा 1 की सहायता से एक आधे किलोग्राम द्रव्यमान का बाँट (वजन) लगाओ । उस बाँट पर दूसरा धागा 2 बांधकर लटकता हुआ रखो । अब धागे 2 को झटका देकर नीचे खींचो । धागा 2 टूटता है परंतु बाँट नीचे नहीं गिरता । भारी वस्तु हिलती नहीं । अब धागा 2 धीरे-धीरे नीचे खींचो । धागा 1 टूटता है और बाँट नीचे गिरता है । इसका मुख्य कारण अर्थात् धागा 1 पर बाँट के कारण आया हुआ तनाव ।



**इसे सदैव ध्यान में रखो ।**

पिंड गति की जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति को उसका जडत्व कहते हैं । इसलिए बाह्य बल प्रयुक्त न होने पर स्थिर अवस्था वाली वस्तु स्थिर ही रहती है तथा गतिशील अवस्था वाली वस्तु गतिशील ही रहती है ।

**दाब (Pressure) :** दो पहिए एवं चार पहिए वाली गाड़ियों के टायर में हवा भरते हुए तुमने देखा होगा । हवा भरने वाले यंत्र के ऊपर 'दाब' दर्शाने वाली चकती (disk) होती है अथवा डिजिटल मीटर पर 'दाब' के आँकड़े दिखते हैं । यंत्र के द्वारा एक विशिष्ट (अंक) मान तक टायर में दाब बढ़ाया जाता है । साइकिल के टायर में हाथ पंप की सहायता से हवा भरते समय बल लगाना पड़ता है, यह तुम्हें मालुम ही है । बल लगाकर हवा का दाब बढ़ाकर वह टायर में भरी जाती है । क्या बल और दाब इनमें कुछ संबंध है ?

**कृति 3 :** कुछ नुकीली कीलें लेकर हथौड़े की सहायता से एक लकड़ी के तख्त पर ठोंको । उसी की एक कील लेकर कील के ऊपर वाले भाग को तख्त पर रखकर नुकीले भाग की ओर से हथौड़े से ठोंको । क्या होता है ? कील नुकीले भाग से तख्त में घुसती है, परंतु ऊपर वाले भाग से नहीं घुसती । ड्रॉइंगबोर्ड पर ड्रॉइंग पिन टॉचते समय वे आसानी से ड्रॉइंगबोर्ड में टोंची जाती हैं । हमारे अँगूठे द्वारा बल लगा कर हम ड्रॉइंग पिन को आसानी से टोच सकते हैं । उसके विपरीत आलपिन ड्रॉइंगबोर्ड पर टोचते समय अँगूठे को चोट पहुँचने की संभावना होती है ।

**जडत्व के प्रकार : 1. विरामावस्था का जडत्व :**

पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने विरामावस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता । उसे विरामावस्था का जडत्व कहते हैं ।

**2. गति का जडत्व :** पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, उसे गति का जडत्व कहते हैं ।

उदाहरणार्थ : बिजली के घूमते हुए पंखे को बंद करने पर भी वह कुछ समय तक घुमता रहता है ।

बस के अचानक रूक जाने से बस में बैठे यात्री आगे की दिशा में ओर फेंके जाते हैं ।

**3. दिशा का जडत्व :** पिंड के जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण वह अपने गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, उसे दिशा का जडत्व कहते हैं । उदाहरणार्थ,

वाहन सीधे सरल रेखा में गतिशील होने पर अचानक मुड़ने पर यात्री विपरीत दिशा में फेंके जाते हैं ।

इस सरल प्रयोग से क्या समझ में आया? कील के नुकिले भाग से कील लकड़ी में आसानी से घुसती है। इससे एक बात तुम्हारे ध्यान में आई होगी कि कील के ऊपर वाले भाग पर बल लगाने से कील तख्त पर ठोकना आसान होता है।



**थोड़ा सोचो।**

सब्जी या फलों को धारदार चाकू से काटना आसान होता है। कम धार वाले चाकू ऐसे काम के लिए उपयोगी नहीं होते, यह किस कारण होता है?

इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को दाब (Pressure) कहते हैं :

$$\text{दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{जिसपर बल प्रयुक्त किया है वह क्षेत्रफल}}$$

फिलहाल हम केवल किसी पृष्ठभाग पर लंबवत दिशा में होनेवाले बल का ही विचार करते हैं।

**दाब की इकाई (Unit of Pressure) :** SI प्रणाली में बल की इकाई Newton (N) हैं। क्षेत्रफल की इकाई  $m^2$  या वर्गमीटर है।

इसलिए दाब की इकाई  $N/m^2$  इसप्रकार होगी। इसे ही पास्कल (Pa) कहते हैं। मौसम विज्ञान में दाब की इकाई bar है।  $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ , दाब यह अदिश राशि है।

क्षेत्रफल में वृद्धि होनेपर उसी बल का दाब कम होता है और क्षेत्रफल कम होने पर उसी बल के दाब में वृद्धि होती है।


उदाहरणार्थ, ऊँट के पैर के तलवे फैले हुए होते हैं जिसके कारण ऊँट का भार अधिक पृष्ठभाग पर पड़ता है और रेत पर पड़ने वाला दाब कम होता है, इसलिए ऊँट के पैर जमीन में धँसते नहीं तथा उसे चलना आसान होता है।

**ठोस पदार्थ पर दाब :** हवा में स्थित सभी ठोस पदार्थों पर हवा का दाब होता ही है। ठोस पदार्थ पर कोई एक भार रखा, तो उस भार के कारण ठोस पदार्थ पर दाब पड़ता है। वह दाब उस भार पर तथा भार का ठोस पदार्थ के साथ होनेवाले संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर होता है।



**करो और देखो।**

आकृति 3.5 नुसार कृति करो। क्या दिखाई देता है ?



3.5 बल व दाब



**थोड़ा सोचो।**

सब्जी की टोकरी सिर पर ले जानेवाली सब्जीवाली तुमने देखी होगी? वह अपने सिर पर टोकरी के नीचे कपड़े की चुंवर रखती है, उसका क्या उपयोग होता है ?

हम अधिक समय तक एक ही जगह पर खड़े नहीं रह सकते। फिर एक ही जगह पर आठ-आठ घंटे कैसे सो सकते हैं ?

बर्फ पर फिसलने के लिए समतल तख्तों का उपयोग क्यों करते हैं ?




**करो और देखो।**

**द्रव पदार्थ का दाब (Pressure of liquid)**

**कृति 1 :** प्लास्टिक की एक बोतल लो। रबड़ का गुब्बारा जिस पर कस कर बैठेगा ऐसी काँच की नली का साधारण 10 cm लंबाईवाला टुकड़ा लो। नली का एक सिरा थोड़ा सा गर्म कर धीरे से बोतल के आधार से 5 cm ऊँचाई पर बोतल के एक सिरे से दाब देकर अंदर जाएगा इस प्रकार लगाओ (आकृति 3.6)। पानी न टपके इसलिए नली के बाजु में मोम गर्म करके लगाओ। अब बोतल में थोड़ा-थोड़ा पानी भरकर गुब्बारा फूलता है, इसे देखो। इससे क्या समझ में आता है? पानी का दाब बोतल के दीवार पर भी पड़ता है।





3.6 द्रव का दाब

**कृति 2:** एक प्लास्टिक की बोतल को आकृति 3.7 में दिखाए अनुसार 1,2,3 इन स्थानों पर प्रत्येक स्तर पर दाबन अथवा मोटी सुई की सहायता से छिद्र करो। बोतल में पूर्णतः पानी भरो। आकृति में दिखाए अनुसार पानी की धाराएँ बाहर निकलते हुए दिखाई देंगी। सबसे ऊपर वाले छिद्र से पानी की धारा बोतल के पास गिरती है, तो सबसे नीचे वाले छिद्र से पानी की धारा सबसे दूर गिरती है। इसके अतिरिक्त एक ही स्तर के दो छिद्रों में से गिरनेवाली धाराएँ बोतल से समान अंतर पर गिरती हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है ? एक ही स्तर पर द्रव का दाब समान होता है, उसी प्रकार द्रव के गहराईनुसार दाब में वृद्धि होती है।




3.7 द्रव का दाब और स्तर

**गैस का दाब (Gas Pressure) :** कोई एक गुब्बारा मुँह से फूलाते समय वह चारों ओर से फूलता है। गुब्बारे पर छोटा-सा छिद्र किया तो उसमें से हवा बाहर निकलती है और गुब्बारा पूर्णतः नहीं फूलता। यह निरीक्षण ऊपर्युक्त द्रव के प्रयोग के निष्कर्ष जैसा है। ऐसा दिखाई देता है की वायु भी द्रव के जैसे जिस पात्र में बंदिस्त होती है, उस पात्र के दीवार पर दाब प्रयुक्त करती है। सभी द्रवों और गैसों को तरल पदार्थ (fluid) कहते हैं। पात्र का प्रवाही पदार्थ पात्र के सभी पृष्ठभागों पर, दीवारों पर और आधार पर अंदर से दाब प्रयुक्त करता है। बंद पात्र में, दिए गए द्रव्यमान के प्रवाही पदार्थ में पाया जाने वाला दाब सभी दिशाओं में समानरूप से प्रयुक्त होता है।

**वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) :** पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सभी ओर हवा का आवरण है। इस हवा के आवरण को ही वायुमंडल (वातावरण) कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग से लगभग 16 km ऊँचाई तक वायुमंडल है। उसके भी आगे लगभग 400 km तक यह अत्यंत विरल स्वरूप में पाया जाता है। हवा के कारण निर्माण होनेवाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ऐसी कल्पना करो कि इकाई क्षेत्रफल वाले पृथ्वी के पृष्ठभाग पर बहुत अधिक लंबा खोखला बेलन खड़ा है और उसमें हवा भरी है (आकृति 3.8) इस हवा का भार यह पृथ्वी की दिशा में लगाया गया बल है। अर्थात् हवा का दाब इस भार और पृष्ठभाग के क्षेत्रफल का अनुपात है।

समुद्र की सतह पर पाए जानेवाले हवा के दाब को 1 वायुमंडलीय दाब (1 Atmosphere) कहते हैं। जैसे-जैसे हम समुद्र-सतह से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे-वैसे हवा का दाब कम होते जाता है।




3.8 वायुमंडलीय दाब

$$1 \text{ Atmosphere} = 101 \times 10^3 \text{ Pa} = 1 \text{ bar} = 10^3 \text{ mbar}$$


$$1 \text{ mbar} \approx 10^2 \text{ Pa (hectopascal)}$$

वायुमंडलीय दाब mbar अथवा hectopascal (hPa) इन इकाईयों में बताया जाता है। वायुमंडलीय दाब हवा के किसी एक बिन्दु पर सभी दिशाओं से होता है। यह दाब कैसे तैयार होता है ? किसी बंद पात्र में हवा होने पर हवा के अणु यादृच्छिक गति से पात्र की दीवारों पर प्रहार करते हैं। इस आंतरक्रिया के कारण दीवार पर बल प्रयुक्त होता है, इस बल के कारण दाब का निर्माण होता है।

हम भी वायुमंडलीय दाब लगातार सिर पर लेकर घूमते हैं, परंतु हमारे शरीर के खोखले भाग में भी हवा भरी होती है और रक्तवाहिनों में रक्त भी होता है। तथा उसमें का दाब वायु मंडलीय दाब के बराबर होता है जिसके कारण पानी तथा वायुमंडलीय दाब के नीचे हम फँस नहीं सकते। वायुमंडलीय दाब संतुलित होता है। पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब समुद्र सतह से की ऊँचाई के अनुसार बदलता है। यह कैसे बदलता है उसे आकृति 3.9 में दर्शाया है।



### 3.9 वायुमंडलीय दाब




### थोड़ा सोचो ।

1 m<sup>2</sup> पृष्ठभाग वाले मेज पर समुद्र सतह से 101x10<sup>3</sup> Pa इतना दाब प्रयुक्त होता है । इतने प्रचंड दाब से मेज का पृष्ठभाग टूट कर गिरता क्यों नहीं ?

### उप्लावक बल (Buoyant force)



### करो और देखो ।



### 3.10 संतुलित और असंतुलित उप्लावक बल

प्लास्टिक की खाली बोतल और गेंद पानी के पृष्ठभाग पर तैरती है । इसके विपरीत पानी से पूरी भरी हुई बोतल पानी के अंदर तैरती है, वह पूर्णतः डूबती नहीं । अंदर के पानी के द्रव्यमान की अपेक्षा खाली बोतल का द्रव्यमान नगण्य होता है, ऐसी बोतल पूर्णतः डूबती नहीं तथा ऊपर भी आती नहीं । इसका अर्थ पानी से भरी बोतल पर नीचे की दिशा में प्रयुक्त गुरुत्वीय बल ( $f_g$ ) उसके विपरीत ऊपर की दिशा में प्रयुक्त बल ( $f_b$ ) द्वारा संतुलित हुआ होगा । यह बल बोतल के आसपास के पानी द्वारा निर्मित हुआ होगा । पानी में अथवा अन्य द्रव में अथवा गैस में होने वाली वस्तु पर ऊपर की दिशा में प्रयुक्त होनेवाले बल को उप्लावक बल ( $f_b$ ) कहते हैं ।



### थोड़ा सोचो ।

कुँए से पानी निकालते समय डोरी से बाँधी गई बाल्टी पानी में पूर्णतः डूबी होने पर जितनी हल्की महसूस होती है, उसकी अपेक्षा वह पानी से बाहर निकालते समय भारी क्यों लगती है ? उत्प्लावक बल किन बातों पर निर्भर होता है ?



### करो और देखो ।

एल्युमिनिअम का एक छोटा सा पतला पतरा लो और किसी एक बाल्टी में पानी लेकर उसे धीरे से डुबाओ, क्या दिखाई देता है ? अब उसी पतरे को मोडकर छोटीसी नाव तैयार करो और पानी में डालो, क्या नाव तैरती है ?

लोहे की कील पानी में डुबती है परंतु स्टील का बड़ा सा जहाज पानी में तैरता है ऐसा क्यों होता है ? द्रव में डुबाए गए वस्तु पर उत्प्लावक बल प्रयुक्त होने के कारण वस्तु के द्रव्यमान में कम होने का आभास होता है ।

मीठे पानी के तरण तालाब में तैरने की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है । इसका मुख्य कारण है कि समुद्र के पानी का घनत्व मीठे पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है । क्योंकि उसमें लवण मिश्रित होते हैं । इस पुस्तक में तुमने गिलास में पानी भरकर उसमें नींबू डालने पर वह डूबता है, परंतु उस पानी में दो चम्मच नमक घोलकर मिश्रित कर उसमें मात्र नींबू तैरता है इसका अध्ययन किया है । पानी का घनत्व नमक से बढ़ता है । यहाँ उत्प्लावक बल गुरुत्वीय बल की अपेक्षा अधिक होता है । इस उदाहरण से क्या स्पष्ट होता है ? उत्प्लावक बल दो बातों पर निर्भर होता है :

1. वस्तु का आयतन - द्रव में डूबे हुए वस्तु का आयतन अधिक होने पर उत्प्लावक बल अधिक होता है ।
2. द्रव का घनत्व - जितना अधिक घनत्व उतना उत्प्लावक बल अधिक होता है ।



## क्या तुम जानते हो ?

कोई पिंड द्रव में डुबाने पर वह पिंड द्रव में डूबेगा, ऊपर आकर तैरेगा या द्रव के अंदर तैरेगा यह कैसे निश्चित करोगे ?

1. उप्लावक बल पिंड के भार की अपेक्षा अधिक हो तो पर पिंड तैरता है ।
  2. उप्लावक बल पिंड के भार की अपेक्षा कम हो तो पिंड डूबता है ।
  3. उप्लावक बल पिंड के भार के बराबर हो तो वस्तु द्रव में तैरती है ।
- उपर्युक्त प्रकारों में असंतुलित बल कौन-से हैं ?

## आर्किमिडीज का सिद्धांत :




### करो और देखो ।

आकृति 3.11 में दिखाए अनुसार एक बड़ा सा रबर बँड लेकर उसे एक बिन्दु पर काट दो। उसके एक सिरे पर स्वच्छ धोया हुआ एक छोटासा पत्थर अथवा 50 gm का बाँट बांधो ।

अब रबड़ बँड का दूसरा सिरा ऊँगलियों से पकड़ कर वहाँ पेनसे चिन्हांकित करो । पत्थर हवा में लटकाते हुए रखकर ऊपर्युक्त चिह्न से लटकते हुए पत्थर तक की रबड़ की लंबाई मापो । अब एक पात्र में पानी भरकर पत्थर उसमें डुबेगा ऐसी ऊँचाई तक उसे पकड़ो । अब फिर से रबड़ की लंबाई मापो । क्या दिखाई दिया ? यह लंबाई पहले की अपेक्षा कम हुई दिखाई देगी । पानी में पत्थर डुबाने पर तने हुए रबड़ की लंबाई धीरे-धीरे कम होती है और पत्थर पानी में पूर्णतः डूबने पर लंबाई सबसे कम होती है । लंबाई पानी में कम होने का क्या कारण है ?

पानी में पत्थर डूबने पर उस पर ऊपर की दिशा में उत्प्लावक बल प्रयुक्त होता है । पत्थर का भार नीचे की दिशा में प्रयुक्त होता है । जिसके कारण नीचे की दिशा में प्रयुक्त किया गया कुल बल कम होता है ।

इस उत्प्लावक बल का परिणाम कितना होता है ? वह किसी भी द्रव के लिए समान होता है, क्या ? सभी वस्तुओं पर उत्प्लावक बल क्या समान परिणाम का होता है ? इन प्रश्नों के उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत में अंतर्भूत है । यह सिद्धांत इस प्रकार है : कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः अथवा पूर्णतः डुबाने पर उसपर ऊपर की दिशा में बल प्रयुक्त होता है और यह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है ।




3.11 प्लावक बल



## थोड़ा सोचो ।

आर्किमिडीज के सिद्धांतानुसार पिछले प्रयोगों के निरीक्षणों का स्पष्टीकरण करो ।

## परिचय वैज्ञानिकों का



आर्किमिडीज

(287 ख्रिस्तपूर्व – 212 ख्रिस्तपूर्व)

आर्किमिडीज ग्रीक वैज्ञानिक और प्रखर बुद्धिमत्ता वाले गणितज्ञ थे ।  $\pi$  का ज्ञान उन्होंने गणितीय क्रिया द्वारा प्राप्त किया । भौतिक विज्ञान में घिरनी, कप्पीयाँ, पहिए इन संबंधों में उनका ज्ञान यूनानी (ग्रीक) सैनिकों को रोमन सैनिकों के साथ युद्ध करते समय उपयोगी हुआ । भूमिति और अभियांत्रिकी में उनका अमूल्य कार्य उन्हें प्रसिद्धी प्राप्त करवाते गया । बाथ टब में स्नान के लिए उतरने पर बाहर गिरने वाले पानी को देखकर उन्होंने ऊपर्युक्त सिद्धांत की खोज की । 'युरेका, युरेका' याने की 'मुझे मिल गया, मुझे मिल गया' ऐसा चिल्लाते हुए वे उसी अवस्था में रास्ते पर दौड़े ।

आर्किमिडीज के सिद्धांत की उपयुक्तता बड़ी है । जहाज, पनडुब्बियाँ इनकी रचनाओं में इस सिद्धांत का उपयोग किया गया है । 'दुग्धमापी' और 'आर्द्रतामापी' ये उपकरण इसी सिद्धांत पर आधारित हैं ।



### पदार्थ का घनत्व और सापेक्ष घनत्व :

घनत्व =  $\frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}}$ , घनत्व की इकाई S.I. प्रणाली में  $\text{kg/m}^3$  हैं। पदार्थ की शुद्धता निश्चित करते समय घनत्व यह गुणधर्म उपयोगी होता है। पदार्थ का सापेक्ष घनत्व पानी के घनत्व के साथ तुलना करने पर व्यक्त किया जाता है।

सापेक्ष घनत्व =  $\frac{\text{पदार्थ का घनत्व}}{\text{पानी का घनत्व}}$ , यह समान इकाई का अनुपात होने के कारण यह इकाई रहित होता है। सापेक्ष घनत्व को पदार्थ का 'विशिष्ट गुरुत्व' भी कहते हैं।

### हल किए गए उदाहरण

**उदाहरण 1.** लकड़ी के तख्ते पर रखे खाने के डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल  $0.25\text{m}^2$  हैं और उसका भार  $50\text{N}$  हैं, तो उस डिब्बे द्वारा तख्ते पर प्रयुक्त किए गए दाब की गणना करो।  
**दिया गया है :** क्षेत्रफल =  $0.25\text{m}^2$ , डिब्बे का भार =  $50\text{N}$ , दाब = ?

$$\text{दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}} = \frac{50\text{N}}{0.25\text{m}^2} = 200\text{N/m}^2$$

**उदाहरण 2.** यदि पानी का घनत्व  $10^3\text{kg/m}^3$  और लोहे का घनत्व  $7.85 \times 10^3\text{kg/m}^3$  हो तो लोहे का सापेक्ष घनत्व ज्ञात करो।

**दिया गया है :** पानी का घनत्व =  $10^3\text{kg/m}^3$ , लोहे का घनत्व =  $7.85 \times 10^3\text{kg/m}^3$   
लोहे का सापेक्ष घनत्व = ?  
लोहे का सापेक्ष घनत्व =  $\frac{(\text{लोहे का घनत्व})}{(\text{पानी का घनत्व})}$

$$= \frac{7.85 \times 10^3\text{kg/m}^3}{10^3\text{kg/m}^3} = 7.85$$

**उदाहरण 3.** स्क्रू के नुकिले सिरे का क्षेत्रफल  $0.5\text{mm}^2$  है और उसका भार  $0.5\text{N}$  हैं, तो स्क्रू द्वारा लकड़ी के तख्त पर लगाया दाब ज्ञात करो। (Pa में)।


**दिया गया है :** क्षेत्रफल =  $0.5 \times 10^{-6}\text{m}^2$

स्क्रू का भार =  $0.5\text{N}$ , दाब = ?

$$\text{दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}} = \frac{0.5\text{N}}{(0.5 \times 10^{-6}\text{m}^2)} = 10^6\text{N/m}^2$$

$$= 10^6\text{Pa}$$

**उदाहरण 4.** एक धातु के आयताकार टुकड़े का द्रव्यमान  $10\text{kg}$  है और उसकी लंबाई  $50\text{cm}$ , चौड़ाई  $10\text{cm}$  तथा ऊँचाई  $20\text{cm}$  है। (आकृति) टेबल पर धातु का आयताकार टुकड़ा दिए गए पृष्ठभागों पर रखने पर उसके द्वारा प्रयुक्त किया गया दाब ज्ञात करो। ABCD, CDEF व BCFG किस स्थिति में दाब महत्तम होगा बताओ।



**दिया गया है :** धातु के आयताकार टुकड़े का भार =  $mg$   
 $= 10 \times 9.8\text{N} = 98\text{N}$

पृष्ठभाग ABCD के लिए, लंबाई =  $50\text{cm}$ , ऊँचाई =  $20\text{cm}$ .

$$\text{क्षेत्रफल} = \text{लंबाई} \times \text{ऊँचाई} = 50\text{cm} \times 20\text{cm}$$

$$= 1000\text{cm}^2 = 0.1\text{m}^2$$

$$\text{दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}} = \frac{98}{(0.1)} = 980\text{Pa}$$

पृष्ठभाग CDEF के लिए, लंबाई =  $50\text{cm}$  चौड़ाई =  $10\text{cm}$

$$\text{क्षेत्रफल} = \text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई} = 50\text{cm} \times 10\text{cm}$$

$$= 500\text{cm}^2 = 0.05\text{m}^2$$

$$\text{दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}} = \frac{98}{(0.05)} = \frac{9800}{5} = 1960$$

पृष्ठभाग BCFG के लिए ऊँचाई =  $20\text{cm}$  चौड़ाई =  $10\text{cm}$

$$\text{क्षेत्रफल} = \text{ऊँचाई} \times \text{चौड़ाई} = 20\text{cm} \times 10\text{cm}$$

$$= 200\text{cm}^2$$

$$= 0.02\text{m}^2$$

$$\text{दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}} = \frac{98\text{N}}{0.02\text{m}^2}$$

$$= 4900\text{Pa} : \text{अधिकतम दाब}$$

∴ संपर्क क्षेत्रफल जितना कम, उतना दाब अधिक

**उदाहरण 5.** एक संगमरमर के फर्श के टुकड़े का द्रव्यमान हवा में  $100\text{g}$  हैं, उसका घनत्व  $2.5\text{g/cc}$  इतना हो तो उसका पानी में द्रव्यमान कितना होगा?

दिया गया है : हवा में टुकड़े का द्रव्यमान 100 g

घनत्व  $2.5 \text{ g/cc}$   $\therefore$  आयतन = (द्रव्यमान) / (घनत्व) =  $100 \text{ g} / (2.5 \text{ g/cc}) = 40 \text{ cc}$

इसलिए आर्किमिडीज के सिद्धांतनुसार पानी में डुबाने पर टुकड़े के आयतन के बराबर अर्थात 40 cc इतना पानी विस्थापित होगा। इस पानी के द्रव्यमान के बराबर अर्थात 40g इतनी कमी टुकड़े के द्रव्यमान में आएगी।

$\therefore$  पानी में टुकड़े का द्रव्यमान =  $100 \text{ g} - 40 \text{ g} = 60 \text{ g}$

## स्वाध्याय

### 1. रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो।

अ. SI प्रणाली में बल की इकाई ..... है।

(डाईन, न्यूटन, ज्यूल)

आ. हमारे शरीर पर हवा का दाब ..... दाब के बराबर होता है।

(वायुमंडलीय, समुद्र सतह के ऊपर, अंतरिक्ष के)

इ. किसी एक वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न ..... द्रव में उत्प्लावक बल ..... होता है।

(एक जैसा, घनत्व के, भिन्न, क्षेत्रफल के)

ई. दाब की SI प्रणाली में इकाई ..... है।

( $\text{N/m}^3$ ,  $\text{N/m}^2$ ,  $\text{kg/m}^2$ ,  $\text{Pa/m}^2$ )

### 2. बताओ, मेरी जोड़ी किसके साथ!

अ गट

ब गट

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. प्रवाही पदार्थ    | अ. अधिक दाब                   |
| 2. बिना धार वाली सुई | आ. वायुमंडलीय दाब             |
| 3. नुकीली सुई        | इ. विशिष्ट गुरुत्व            |
| 4. सापेक्ष घनत्व     | ई. कम दाब                     |
| 5. हेक्टो पास्कल     | उ. सभी दिशाओं में एक जैसा दाब |

### 3. निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो।

अ. पानी के अंदर प्लास्टिक का टुकड़ा डालने पर वह पानी में डूबेगा या पानी के पृष्ठभाग पर आएगा? कारण लिखो।

आ. माल वाहक भारी वाहनों के पट्टियों की संख्या अधिक क्यों होती है?

इ. हमारे सिर पर हवा का भार लगभग कितना होता है? वह हमें क्यों महसूस नहीं होता?

### 4. ऐसा क्यों घटित होता है?

अ. समुद्र के पानी की अपेक्षा मीठे पानी में जहाज अधिक गहराई तक डूबता है।

आ. धारदार चाकू से फल आसानी से काटे जाते हैं।

इ. बाँध की दीवार आधारपर अधिक चौड़ी होती है।

ई. स्थिर बस के अचानक शुरू होने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर फेंके जाते हैं।

### 5. निम्न तालिका पूर्ण करो।

द्रव्यमान (kg)	आयतन ( $\text{m}^3$ )	घनत्व ( $\text{kg/m}^3$ )
350	175	-
-	190	4

धातु का घनत्व ( $\text{kg/m}^3$ )	पानी का घनत्व ( $\text{kg/m}^3$ )	सापेक्ष घनत्व
-	$10^3$	5
$8.5 \times 10^3$	$10^3$	-

भार (N)	क्षेत्रफल ( $\text{m}^2$ )	दाब ( $\text{Nm}^{-2}$ )
-	0.04	20000
1500	500	-

6. एक धातु का घनत्व  $10.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$  हैं, तो धातु का सापेक्ष घनत्व ज्ञात करो। (उत्तर : 10.8)

7. एक वस्तु का आयतन  $20 \text{ cm}^3$  तथा द्रव्यमान 50 g है। पानी का घनत्व  $1 \text{ g cm}^{-3}$  हो तो वह वस्तु पानी पर तैरेगी या डूबेगी? (उत्तर : डूबेगी)

8. एक 500 g द्रव्यमान वाले को प्लास्टिक के आवरण से बंद किए खोके का आयतन  $350 \text{ cm}^3$  है। पानी का घनत्व  $1 \text{ g cm}^{-3}$  हो, तो खोका पानी पर तैरेगा या डूबेगा? खोके द्वारा विस्थापित किए गए पानी का द्रव्यमान ज्ञात करो? (उत्तर : डूबेगा, 350 g)

### उपक्रम :

पाठ में दिए गए सभी कृतियों का मोबाइल फोन की मदद से चित्रिकरण करो व अन्य को भेजो।



## 4. धारा विद्युत और चुंबकत्व



**थोड़ा याद करो ।** परमाणु में कौन-कौन से घटक होते हैं ?

परमाणु में इलेक्ट्रॉन (ऋण आवेशित कण) और प्रोटॉन (धन-आवेशित कण) पाए जाते हैं जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय दृष्टि से उदासीन (Neutral) होते हैं, फिर भी उनमें परमाणु पाए जाने के कारण उनमें ऋण आवेश और धन आवेश होता ही है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं, कि हमारे आसपास पाए जानेवाले पदार्थों में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में समाविष्ट होता है। काँच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है? पदार्थ आवेशित कैसे होते हैं? स्थिर आवेश और चल आवेश किसे कहते हैं? चल विद्युत एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होती है। यह ऋण आवेश होता है। चल ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या यह ऋण आवेश प्रवाहित कर सकते हैं? पानी जिस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार क्या विद्युत को प्रवाही बना सकते हैं? स्थिर वस्तुको गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ता है यह तुमने पढ़ा ही है। किसी सुचालक में से इलेक्ट्रॉनों को यदि गतिशील करके प्रवाहित किया जाए तो हमें “धारा विद्युत” प्राप्त होती है।


**धारा विद्युत (Current Electricity) :** जब बादलों से जमीन पर बिजली गिरती है तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है, तो कोई भी संवेदना हमें मस्तिष्क की ओर जाने वाले सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से प्राप्त होती है। घर में तारों से, बिजली के बल्ब से, अन्य उपकरणों से प्रवाहित होनेवाले विद्युत प्रवाह का तुम्हें परिचय है ही। रेडियो के इलेक्ट्रिक सेलों (electric cells) में से और वाहन की बॅटरी से धन आवेशित तथा ऋण आवेशित ऐसे दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है।

**स्थिर विद्युत विभव (Electrostatic Potential) :** पानी अथवा द्रव पदार्थ ऊँचे स्तर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। ऊष्मा सदैव अधिक तापमानवाली वस्तु से कम तापमानवाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उसी प्रकार धन आवेश की प्रवृत्ति उच्च विद्युत स्तरवाले बिन्दु से निम्न विद्युत स्तर वाले बिन्दु की ओर प्रवाहित होने की होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निश्चित करनेवाले विद्युत स्तर को विद्युत स्थिर विभव (Electrostatic potential) कहते हैं।


**विभवांतर (Potential difference) :** ‘जलप्रपात की ऊँचाई’, ‘गरम तथा ठंडे’ पदार्थ के तापमान में पाए जानेवाला अंतर इसी प्रकार दो बिन्दुओं के विभव में पाए जानेवाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। यह हमारे दृष्टि से बहुत ही रोचक है।



**करो और देखो ।**



4.1 (अ) विद्युत परिपथ



4.1 (आ) विद्युत परिपथ

तांबे के तार को जोड़कर आकृति 4.1 (अ) में दिखाए अनुसार ‘परिपथ’ पूर्ण करो। बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती ऐसा ही दिखाई देता है। अब इसी परिपथ में आकृति 4.1 (आ) में दिखाए अनुसार बाजार में उपलब्ध एक 1.5 वोल्ट का शुष्क सेल जोड़ो। अब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यह बल्ब के प्रकाशित होने के कारण ध्यान में आएगा। विद्युत सेल के दो सिरो में पाए जानेवाले विभवांतर के कारण तार में इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। वे विद्युत सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। सांकेतिक विद्युत धारा यह विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और उसे तीर के चिह्न द्वारा आकृति में दिखाया गया है। विद्युत परिपथ क्या है वह इसी पाठ में आगे देखेंगे। आकृति 4.1 (अ) में विद्युत सेल न होने के कारण किसी भी प्रकार का विभवांतर नहीं है। इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। परिपथ में विद्युत सेल के कारण विभवांतर का निर्माण होते ही स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आकृति 4.1 (आ)। विभवांतर की SI प्रणाली में इकाई वोल्ट (Volt) है। इस विषय में अगली कक्षा में हम अधिक जानकारी प्राप्त करनेवाले हैं।



## विचार करो ।

किसी एक पानी के पाइप से आनेवाला पानी का प्रवाह कैसे मापेंगे? विशिष्ट समय में उसमें से कितने लीटर पानी बाहर निकला इसके आधार पर वह ज्ञात कर सकते हैं। फिर विद्युत धारा कैसे मापोगे?

विद्युत धारा यह विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है यह हमने देखा है। किसी एक तार में से 1 सेकंड में प्रवाहित होनेवाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की SI प्रणाली में इकाई कूलॉम प्रति सेकंड अर्थात् एम्पियर (Ampere) है।

$1 \text{ Ampere} = 1 \text{ A} = 1 \text{ Coulomb}/1 \text{ second} = 1 \text{ C/s}$  विद्युत धारा एक अदिश राशि है।


**विद्युतसेल (Electric Cell) :** किसी एक परिपथ में एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ऐसे एक सर्व सामान्य साधन को विद्युत सेल कहते हैं। विविध प्रकार के विद्युत सेल आज उपलब्ध हैं। वे हाथघड़ी से लेकर पनडुब्बियों तक ऐसे अनेक यंत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं। विद्युत सेल के अतिरिक्त सौर सेल (Solar cell) तुम्हें मालुम होगा। विभिन्न विद्युत सेलों का मुख्य कार्य उसके दो सिरों में विभवांतर मौजूद रखना है। विद्युत आवेश पर कार्य कर विद्युत सेल यह विभवांतर को मौजूद रखता है, यह तुम आगे पढ़ोगे। विद्युत सेल के कुछ प्रकार फिलहाल उपयोग में लाए जाते हैं, उस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।

**शुष्क विद्युत सेल (Dry Cell) :** हमारे रेडियो संच में, दीवार पर लगी घड़ी में, बॅटरी में इस शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। वे 3-4 आकारों में उपलब्ध होते हैं। शुष्क विद्युत सेल की रचना आकृति 4.2 में दिखाए अनुसार होती है।



## करो और देखो ।

एक अनुपयोगी हुआ शुष्क विद्युत सेल लेकर उसके बाहर का आवरण निकालो। उसके अंदर एक सफेद आवरण दिखाई देगा। यह जस्ते के धातु (Zn) का आवरण है। यह सेल का ऋण सिरा है। अब यह भी आवरण धीरे से तोड़ दो। जस्ते के आवरण के अंदर एक और आवरण होता है इन दोनों आवरणों में विद्युत अपघट्य (विश्लेषी) (Electrolyte) पदार्थ भरा होता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। उनके द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। यह विद्युत अपघट्य पदार्थ अर्थात्  $\text{ZnCl}_2$  (जिंक क्लोराइड) और  $\text{NH}_4\text{Cl}$  (अमोनियम क्लोराइड) इनके गीले मिश्रण की लुगदी (प्रलेप) होती है। सेल के मध्य भाग में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है यह सेल का धन सिरा होता है। छड़ के चारों ओर  $\text{MnO}_2$  (मैंगनीज डाय ऑक्साइड) का मिश्रण भरा होता है। इन सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों सिरों पर (graphite rod, zinc) विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है।




4.2 शुष्क सेल

इस विद्युत सेल में गीले मिश्रण की लुगदी का उपयोग करने के कारण रासायनिक अभिक्रिया मंदगति से घटित होती है। इसलिए अधिक विद्युत धारा इससे प्राप्त नहीं कर पाते। द्रव पदार्थ का उपयोग करनेवाले विद्युत सेल की तुलना में इनकी संग्रहण कालमर्यादा (Shelf life) अधिक होती है। शुष्क विद्युत सेल उपयोग में आसान होते हैं, कारण वे खड़े-आड़े, तिरछे किसी भी तरह रखे जाते हैं और चालक साधनों में आसानी से उपयोग में लाए जाते हैं।




**लेड-अम्ल विद्युत सेल (Lead-Acid Cell) :** आकृति 4.3 में लेड-अम्ल विद्युत सेल की रचना दिखाई गई है। उसका सिद्धांत देखेंगे। इस प्रकार के सेल का विद्युत विमोचन (Electric discharge) होने के बाद भी उसे पुनः विद्युत आवेशित कर सकते हैं। लेड-अम्ल विद्युत सेल में सीसे (Pb) का एक विद्युतग्र (Electrode) तथा लेड डायऑक्साइड ( $PbO_2$ ) यह दूसरा विद्युतग्र (Electrode) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबा होता है।  $PbO_2$  इस विद्युतग्र पर धन आवेश तो Pb इस विद्युतग्र पर ऋण आवेश होता है। दोनों में विभवांतर लगभग 2V होता है। सेल के पदार्थों की रासायनिक अभिक्रियासे दोनों विद्युतग्रों पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में लगे उपकरण में से (जैसे विद्युत बल्ब में) विद्युत धारा प्रवाहित होती है।



4.3 लेड-अम्ल विद्युतसेल



4.4 (अ) सेलधारक



4.4 (ब) सरल विद्युत परिपथ



### खोजो

लिथियम (Li) आयन विद्युत सेल आधुनिक साधनों में उपयोग में लाते हैं। उदाहरणार्थ, स्मार्टफोन, लैपटॉप इत्यादि। ये सेल पुनः आवेशित किए जाते हैं। इसमें Ni-Cd सेल की अपेक्षा अधिक ऊर्जा का संचयन किया जाता है।


इस प्रकार के विद्युत सेलों की अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है। इसके कारण वाहनों में, ट्रक में, मोटर साईकल, अखंड विद्युत शक्ति पूर्तिवाले यंत्रों (UPS) में लेड अम्ल विद्युत सेल का उपयोग करते हैं।

**निकेल-कॅडमियम सेल (Ni-Cd cell) :** आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, उपकरण उपलब्ध हैं। जिन्हें यहाँ वहाँ लेकर जाना पड़ता है। ऐसे साधनों के लिए निकेल कॅडमियम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। यह सेल 1.2 V विभवांतर देता है तथा इसे पुनः आवेशित किया सकता है।


**विद्युत परिपथ (Electric Circuit) :** सेल धारक (Cell holder) आकृति 4.4 (अ) विद्युत बल्ब और प्लग कुँजी को विद्युतवाहक तारों से जोड़ने पर तथा सेल धारक में शुष्क सेल रखने पर बल्ब प्रकाशित होता है। इसका अर्थ बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तथा बल्ब प्रकाशित होता है। सेल निकालते ही बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा खंडित होती है और बल्ब का प्रकाशित होना बंद हो जाता है। इस प्रकार के विद्युत घटकों के सुव्यवस्थित संयोजन को विद्युत परिपथ कहते हैं।  $\oplus \mid \ominus$  परिपथ आकृति 4.4 (ब) में दिखाया गया है। विद्युत सेल + - इस चिह्न द्वारा

दर्शाया गया है। हमारे घर में भी इसी प्रकार के विद्युत परिपथ का संयोजन किया होता है, परंतु विद्युत सेल के अतिरिक्त बाहर से तारों के द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इस विषय में तुम आगे पढ़ोगे।

**सेलों का संयोजन :** विद्युत परिपथ में कभी-कभी एक से अधिक सेलों को एक साथ जुड़े हुए तुमने देखा होगा (आकृति 4.5 अ)। ट्रांज़िस्टर, रेडियो में 2-3 शुष्क सेल 'श्रेणी क्रम' में संयोजित किए हुए दिखते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य, एक सेल के विभवांतर की अपेक्षा अधिक विभवांतर प्राप्त करना होता है जिसके कारण अधिक विद्युत धारा प्राप्त होती है। विद्युत सेल आकृति 4.5 (आ) में दिखाए अनुसार जोड़ने पर उसे सेलों की बॅटरी (Battery of cell) कहते हैं। इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरा से तथा दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरा से जोड़ते हैं जिससे यदि प्रत्येक सेल का विभवांतर 1V हो तो तीन सेलों का कुल विभवांतर 3 V होगा।



(अ)



(आ)

#### 4.5 विद्युत सेलों का संयोजन




थोड़ा सोचो ।

बाजार में मिलनेवाली मोटर की बॅटरी तुमने देखी होगी उसे सेल न कहकर बॅटरी (Battery) कहते हैं । क्यों ?

#### धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव : (Magnetic effects of electric current)



करो और देखो ।




#### 4.6 धारा विद्युत का चुंबकीय परिणाम

कृति 1 : किसी एक अनुपयोगी माचिस के बाक्स जैसे डिब्बे के अंदरवाला ट्रे लो, उसमें छोटीसी चुंबक सुई रखो । अब विद्युत सुचालक का लंबा तार लेकर उसे ट्रे के चारो ओर लपेटो । विद्युत सेल, प्लग कुँजी इसे तार तथा बल्ब से जोड़कर परिपथ पूर्ण करो । (आकृति 4.6)

अब चुंबक सुई की स्थिति देखो । एक चुंबक पट्टी लेकर उसे चुंबक सुई के पास लेकर जाओ, क्या दिखाई दिया ? चुंबकसुई के तरफ नजर रखकर परिपथ की प्लगकुँजी दबाओ, बल्ब प्रकाशित होगा अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हुआ है यह ध्यान में आएगा । चुंबक सुई अपनी दिशा बदलती है क्या ? अब प्लग कुँजी को खुला करो, चुंबक सुई पुनः अपनी मूल दिशा में स्थिर होती है क्या ? इस प्रयोग से तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे ?

चुंबक सुई अर्थात एक छोटासा चुंबक ही होता है यह तुम्हें मालुम है । छड़ चुंबक को चुंबक सुई के पास लेकर जाने चुंबकसुई अपनी दिशा को परिवर्तित करती है यह तुमने देखा है । उसी प्रकार परिपथ में विद्युत धारा शुरू करने पर भी चुंबकसुई अपनी दिशा परिवर्तित करती है, यह भी निरीक्षण तुमने किया । अर्थात तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है । हान्स ख्रिस्तियन ओरस्टेड इस वैज्ञानिकने ऐसा निरीक्षण सर्वप्रथम स्पष्ट किया था । संक्षिप्त में ऐसा कह सकते हैं कि “किसी विद्युत सुचालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है ।




#### 4.7 विद्युत चुंबक

कृति 2 : लगभग 1 मीटर लंबी विद्युत अवरोधक आवरणवाली तांबे की नरम (लचीली) तार लेकर लोहे के किसी कील या स्क्रू पर कसकर लपेटो । तार के दोनों सिरे आकृति 4.7 में दिखाए अनुसार विद्युत परिपथ के साथ जोड़ो, परिपथ में विद्युत सेल और प्लग कुँजी भी जोड़ो । स्क्रू के पास 2-4 लोहे की आलपिनें रखो । अब प्लग कुँजी बंद करके परिपथ में से विद्युत प्रवाह शुरू करो । आलपिने, स्क्रू के सिरे से चिपकी हुई दिखाई देंगी । प्लग कुँजी खुली करते ही आलपिनें, चिपकी हुई स्थिति में ही रहेंगी क्या ?

तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्क्रू के चारो ओर लपेटे गए तार के कुंडल (Coil) में चुंबकत्व का निर्माण होता है और इसी के कारण स्क्रू में भी चुंबकत्व का निर्माण होता है । विद्युत प्रवाह खंडित होते ही वह नष्ट हो जाता है । कुंडल एवं स्क्रू इस संहिता को विद्युत चुंबक कहते हैं । विद्युत चुंबक के विविध उपयोग तुमने पिछली कक्षा में देखे हैं । विज्ञान अनुसंधान में उपयोगी तीव्र चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं ।

**विद्युत घंटी :** घरों के प्रवेश द्वार पर लगी साधी विद्युत घंटी तुमने देखा हैं। ऐसी बंद पड़ी कोई एक घंटी खोल कर देखो आकृति 4.8 में विद्युत घंटी का बाह्य आवरण निकाला गया है। हमें दिखाई देता है कि उसमें भी विद्युत चुंबक का ही उपयोग किया गया है। इस घंटी का कार्य कैसे चलता है, यह हम देखेंगे। तांबे की तार एक लोहे के टुकड़े पर अनेक बार लपेटी गई है। यह कुंडल विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करता है। एक लोहे की पट्टी मुंगरी के साथ विद्युत चुंबक के पास जुड़ी होती है। इस पट्टी के संपर्क में स्क्रू होता है। विद्युत परिपथ आकृति 4.8 में दिखाए अनुसार संयोजित किया गया है। स्क्रू पट्टी से जुड़ते समय परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके कारण कुंडल का विद्युत चुंबक बनता है और वह लोहे की पट्टी को आकर्षित करता है जिसके कारण घंटी पर मुंगरी का प्रहार होकर ध्वनि का निर्माण होता है। परंतु उसी समय संपर्क स्क्रू का लोहे की पट्टी से संपर्क टूटता है और परिपथ का विद्युत प्रवाह खंडित होता है। इस स्थिति में विद्युत चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है और लोहे की पट्टी पुनः पीछे की ओर आकर संपर्क स्क्रू को चिपकती है जिसके कारण तुरंत फिर से विद्युत प्रवाह शुरू होता है और ऊपर्युक्त क्रिया पुनः घटित होकर मुंगरी घंटे पर प्रहार करती है। यह क्रिया बार-बार होती है और घंटे से ध्वनि उत्पन्न होती है।



4.8 विद्युत घंटी

## स्वाध्याय

- नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति योग्य शब्द लिखकर करो।  
(चुंबकत्व, 4.5V, 3.0V, गुरुत्वाकर्षण, विभवांतर, विभव, अधिक, कम, 0V)  
अ. जलप्रपात का पानी ऊँचे स्तर से नीचे गिरता है, इसका कारण.....  
आ. किसी एक परिपथ में इलेक्ट्रॉंस ..... विभववाले बिन्दु से ..... विभववाले बिन्दु की ओर प्रवाहित होते हैं।  
इ. विद्युत सेल का धनाग्र और ऋणाग्र विद्युतस्थिर विभव का अंतर अर्थात उस सेल का ..... है।  
ई. 1.5 V विभवांतरवाले 3 विद्युत सेलों को बैटरी के स्वरूप में जोड़ा गया है, तो इस बैटरी का विभवांतर ..... V होगा।  
उ. किसी विद्युत वाहक तार से प्रवाहित होनेवाली विद्युत धारा तार के चारों ओर ..... का निर्माण करती है।
- 3 शुष्क विद्युत सेलों को विद्युत सुचालक तार से जोड़कर उनकी बैटरी बनानी है। तार किस प्रकार से जोड़ेंगे आकृति सहित स्पष्ट करो।
- एक विद्युत परिपथ में एक बैटरी और एक बल्ब जोड़कर बैटरी में दो समान विभवांतर वाले विद्युत सेल संयोजित किए गए हैं। यदि बल्ब प्रकाशित न होता हो, तो वह किस कारण नहीं होता है इसकी खोज करने के लिए कौन-कौन से परीक्षण करोगे।
- प्रत्येक 2 V विभवांतर वाले विद्युत सेल नीचे दिए अनुसार बैटरी के स्वरूप में जोड़े गए तो उस बैटरी का कुल विभवांतर ज्ञात करो।
- शुष्क विद्युत सेल की रचना, कार्य और उसका उपयोग इसका संक्षिप्त में वर्णन आकृति की सहायता से करो।
- विद्युत घंटी की रचना व कार्य का आकृति की सहायता से वर्णन करो।

(i)

(ii)

### उपक्रम :

पाठ में की गई सभी कृतियों को विज्ञान प्रदर्शन में प्रस्तुत करो।



## 5. परमाणु का अंतर्भाग



**थोड़ा याद करो।**

1. द्रव्य अर्थात क्या हैं? 2. परमाणु अर्थात क्या हैं?
3. द्रव्य का सबसे छोटा घटक कौन-सा हैं?

हमने देखा कि द्रव्य अणुओं से बना होता है। अणु परमाणुओं से बने होते हैं। अर्थात परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में स्वयं की रासायनिक पहचान बनाए रखने वाला तत्त्व का छोटे से छोटा कण परमाणु है।

तालिका 5.1 में कुछ पदार्थों के नाम और सूत्र दिए हैं। उसके आधार पर पदार्थ के छोटे से छोटे कण की जानकारी और पदार्थ का प्रकार दर्शाने वाले चिह्न भरकर तालिका पूर्ण करो।

पदार्थ का नाम	सूत्र	पदार्थ का छोटे से छोटा कण				पदार्थ का प्रकार	
		परमाणु है ( एक परमाणु वाला अणु है )	अणु है	अणु के परमाणु एक ही प्रकार के हैं	अणु के परमाणु अनेक प्रकार के हैं।	तत्त्व	यौगिक
पानी	H <sub>2</sub> O		√		√		√
ऑक्सीजन	O <sub>2</sub>		√	√		√	
हिलियम	He	√		√		√	
हाइड्रोजन	H <sub>2</sub>						
अमोनिया	NH <sub>3</sub>						
नाइट्रोजन	N <sub>2</sub>						
मीथेन	CH <sub>4</sub>						
ऑरगन	Ar						
नियॉन	Ne						
क्लोरीन	Cl <sub>2</sub>						

### 5.1 पदार्थ के प्रकार

हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि बहुत से पदार्थों के छोटे से छोटे कण अणु होते हैं। कुछ थोड़े पदार्थों के अणु में एक ही परमाणु होता है। अणु परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनते हैं। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक संयोग में भाग लेने वाला तत्त्व का छोटे से छोटा कण परमाणु है। परमाणु संबंधी संकल्पना 2500 वर्षों से भी पुरानी है। परंतु कालांतर में वह विस्मृत हो गई। आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर परमाणु का स्वरूप ही नहीं बल्कि अंतर्भाग भी स्पष्ट किया। इसकी शुरुआत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हुई।




**क्या तुम जानते हो**

- द्रव्य के सूक्ष्म कणों में विभाजन की एक सीमा होती है। ऐसा भारतीय दार्शनिक कणाद (ई.पू. 6 वीं शताब्दी) ने प्रतिपादित किया। द्रव्य जिन अविभाज्य कणों से बने होते हैं उन्हें कणाद मुनी ने परमाणु (अर्थात अतिसूक्ष्म कण) नाम दिया। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि परमाणु अविनाशी हैं।
- ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रीटस (ई.पू. 5वीं शताब्दी) ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य कणों से बने होते हैं और उन कणों को विभाजित नहीं कर सकते। द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को डेमोक्रीटस ने अँटम नाम दिया। (ग्रीक भाषा में अँटमॉस का अर्थ है विभाजित न होने वाला)



**डाल्टन का परमाणु सिद्धांत :** इ.स. 1803 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सुप्रसिद्ध परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं तथा भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं और उनके द्रव्यमान भिन्न होते हैं।



### 5.2 डाल्टन का परमाणुप्रतिकृति




**करो और देखो।**

1. एक ठोस गेंद और एक बूँदी का लड्डू लो। उन दोनों गोलों को हाथों से दबाओ। क्या दिखाई दिया ?
2. ठोस गेंद को धारवाले चाकू से सावधानीपूर्वक काटो। क्या दिखाई दिया ?

बूँदी के लड्डू की अंतर्गत संरचना है और वह उसकी अपेक्षा छोटे कणों से अर्थात् बूँदी एक-दूसरे से चिपककर बना प्रतीत होता है। परंतु ठोस गेंद को मोटे तौर पर अंतर्गत संरचना कुछ भी नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। डाल्टन ने वर्णित किया परमाणु यह किसी कठोर, ठोस गोले के समान, कुछ भी संरचना न होनेवाला प्रतीत होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु में द्रव्यमान का वितरण सभी ओर एक समान होता है। इ.स. 1897 में जे.जे. थॉमसन इस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर स्थित ऋण आवेशित कणों की खोज की और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को खंडित किया। थॉमसन ने प्रयोग करके यह दिखा दिया कि परमाणु के अंतर्भाग में स्थित ऋण आवेशित कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में 1800 गुना कम होता है। इन कणों को आगे चलकर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। सामान्यतः पदार्थ ये प्राकृतिक रूप से ही विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते होते हैं, अर्थात् पदार्थों के अणु और वे जिनके रासायनिक संयोग से बने हैं वे परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं।

अंतर्भाग में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन कैसे? थॉमसन ने परमाणु संरचना के प्लम-पुडिंग प्रतिकृति (model) द्वारा इस समस्या का हल निकाला।

**थॉमसन का प्लम पुडिंग परमाणु प्रतिकृति** परमाणु संरचना का पहला प्रतिकृति अर्थात् थॉमसन ने सन 1904 में दर्शाया हुआ प्लम पुडिंग प्रतिकृति। इस प्रतिकृति के अनुसार परमाणु में सर्वत्र धन आवेश फैला होता है और उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। फैले हुए धन आवेश का संतुलन इलेक्ट्रॉन पर स्थित ऋण आवेश द्वारा होता है। इसलिए परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होता है।



### 5.3 थॉमसन का प्लम पुडिंग परमाणुप्रतिकृति



**बताओ तो**

थॉमसन के प्रतिकृति के अनुसार परमाणु के द्रव्यमान का वितरण कैसा होगा ऐसा तुम्हें लगता है?

डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सर्वत्र समान या असमान?



**क्या तुम जानते हो**

प्लम पुडिंग या प्लम केक यह मीठा खाद्यपदार्थ क्रिसमस त्यौहार में बनाते हैं। पहले पाश्चात्य देशों में इस पदार्थ में प्लम इस फल के सूखे हुए टुकड़े डालते थे। आजकल प्लम के स्थान पर किशमिश या खजूर का उपयोग करते हैं।




**बताओ तो**

1. तुमने गोटी पर स्ट्रायकर से लगाया हुआ निशाना गलत हो जाए तो स्ट्रायकर किस दिशा में जाएगा ?
2. निशाना सही लगा तो स्ट्रायकर किस दिशा में जाएगा ? सीधा, तिरछा या उल्टी दिशा में ?

## रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति (1911)


अर्नेस्ट रुदरफोर्ड इन्होंने उनके सुप्रसिद्ध विकीरण प्रयोग से परमाणु के अंतर्भाग को समझने का प्रयास किया और सन 1911 में परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति प्रस्तुत किया।

रुदरफोर्ड ने सोने की अत्यधिक पतली चद्दर (मोटाई  $10^{-4}$  mm) लेकर उस पर रेडियोधर्मी तत्व से उत्सर्जित होनेवाले धनआवेशित  $\alpha$  - कणों (अल्फा कणों) की बौछार की (आकृति 5.4)। सोने की चद्दर के चारों ओर फ्लुरोसेंट (स्फुरदीप्ती) का परदा लगाकर यदि परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एकसमान होगा तो धन आवेशित कणों का चद्दर से परावर्तन होगा ऐसी उन्हें अपेक्षा थी। अनपेक्षित रूप से अधिकांश  $\alpha$  - कण पन्नी के आर-पार सीधे चले गए, कुछ  $\alpha$  - कण मूलमार्ग से न्यून कोण पर विचलित हुए, उससे भी कम  $\alpha$  कणों की अधिक कोण पर विचलन हुआ और आश्चर्य अर्थात् 20000 में से एक  $\alpha$  - कण मूल मार्ग के विपरीत दिशा में परावर्तित हुआ।



5.4 : रुदरफोर्ड का विकीरण प्रयोग

बड़ी संख्या में आर-पार गए कण यह दर्शाते हैं कि उनके मार्ग में कोई भी रूकावट नहीं थी। इसका अर्थ सोने की ठोस अवस्थावाली पन्नी के परमाणुओं के बीच बहुत सी जगह होनी चाहिए। जिन कणों का न्यूनकोण या अधिक कोण में विचलन हुआ उनके मार्ग में रूकावट आई। इसका अर्थ है कि रूकावट उत्पन्न करनेवाला परमाणु का धन आवेशित और ठोस भाग परमाणु के मध्यभाग में था। इस आधार पर रुदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति इस प्रकार प्रस्तुत किया।



5.5 रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणुप्रतिकृति

1. परमाणु के केन्द्रस्थान पर धन आवेशित नाभिक होता है।
2. परमाणु का करीब-करीब संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है।
3. नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक ऋणआवेशित कण परिभ्रमण करता है।
4. सभी इलेक्ट्रॉनों का एकत्रित ऋण आवेश यह नाभिक पर स्थिर धन आवेश के बराबर होने के कारण यह नाभिक पर स्थित धन आवेश के बराबर होने के कारण विजातीय आवेशों का संतुलन होकर परमाणु यह विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है।
5. परिभ्रमण करनेवाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच रिक्त जगह होती है।



### थोड़ा सोचो।

1. परमाणु की आंतरिक संरचना है यह किस खोज के कारण ध्यान में आया है ?
2. डाल्टन के परमाणुसिद्धांत का ठोस परमाणु और थॉमसन के प्रतिकृति वाला ठोस परमाणु इनमें क्या अंतर है ?
3. थॉमसन के परमाणु प्रतिकृति में धन आवेशों का वितरण और रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में धन आवेशों का वितरण इसमें अंतर स्पष्ट करो।
4. थॉमसन और रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृतियों में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में क्या भिन्नता है ?
5. डाल्टन और थॉमसन के परमाणु प्रतिकृतियों में न होनेवाली कौनसी बात रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में है।

वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करनेवाले विद्युत आवेशित वस्तु की ऊर्जा कम होती जाती है ऐसा भौतिकशास्त्र का प्रस्थापित नियम है। इस नियम के अनुसार रुदरफोर्ड ने प्रस्तुत किए प्रतिकृति का परमाणु अस्थायी होता है। परंतु वास्तव में रेडियोधर्मी परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं में स्थाईभाव होता है। रुदरफोर्ड के परमाणुप्रतिकृति की यह त्रुटि नील्स बोर इन्होंने सन 1913 में प्रस्तुत किए परमाणु प्रतिकृति से दूर हो गई।

## बोर का स्थाई कक्षा परमाणु प्रतिकृति (1913)

सन 1913 में डैनिश वैज्ञानिक नील्स बोर ने स्थाई कक्षा परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत कर परमाणु का स्थाईभाव स्पष्ट किया। बोर के परमाणु प्रतिकृति के महत्त्वपूर्ण आधार तत्त्व इस प्रकार हैं।

- (i) परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करनेवाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होनेवाले समकेन्द्रीय वृत्ताकार कक्षाओं में हाते हैं।

- (ii) विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है ।  
 (iii) इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलाँग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करता है, और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलाँग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है ।



### क्या तुम जानते हो

घरेलू गैस की सिगड़ी की नीली ज्वाला पर नमक (सोडियम क्लोराइड) के कण डालने पर उसी समय उस स्थान पर पीली चिंगारी दिखाई देती है । पानी में सोडियम धातु का टुकड़ा डालने पर वह जल उठता है और पीली ज्योति दिखाई देती है । रास्ते के सोडियम व्हेपर दीपकों में से भी वही पीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है । इन सभी उदाहरणों में सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर बाहरी कक्षा में जाता है और पुनः भीतरी कक्षा में छलाँग लगाकर आते समय वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है । सोडियम परमाणु की इन दो कक्षाओं के ऊर्जा स्तर का अंतर निश्चित होता है । यह अंतर पीले प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होता है । इसलिए ऊपर्युक्त तीनों उदाहरणों में वही पीला प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है ।



### 5.6 : बोर का स्थायी कक्षा परमाणुप्रतिकृति

बोर के परमाणु प्रतिकृति के पश्चात और कुछ परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत किए गए । उसके पश्चात उदित हुई पुंजयांत्रिकी (quantum mechanics) इस नई विज्ञान शाखा में परमाणु संरचना का गहन अध्ययन किया गया । इन सबसे परमाणु संरचना के विषय में सर्वमान्य हुए कुछ मूलभूत तत्त्व नीचे दिए गए हैं ।

### परमाणु की संरचना

नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग इनसे मिलकर परमाणु बनता है । इनमें तीन प्रकार के उपपरमाण्विक कणों का समावेश होता है ।

#### केंद्रक

परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है । परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है । केन्द्रक में दो प्रकार के उपपरमाण्विक कण होते हैं । एकत्रित रूप से उन्हें न्यूक्लिऑन कहते हैं । प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लिऑन के दो प्रकार हैं ।

#### प्रोटॉन (p)

प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित उपपरमाण्विक कण हैं । नाभिक पर धन आवेश यह उस में स्थित प्रोटॉनों के कारण होता है । प्रोटॉन को 'P' इस अक्षर से दर्शाते हैं । प्रत्येक प्रोटॉन पर स्थित धन आवेश  $+1e$  होता है । ( $1e = 1.6 \times 10^{-19}$  कूलॉम) अतः नाभिक पर स्थित कुल धन आवेश 'e' इस इकाई में व्यक्त करने पर उसका परिणाम नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है । परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्त्व का परमाणु क्रमांक होती है और उसे 'Z' इस अक्षर से दर्शाते हैं । एक प्रोटॉन का वस्तुमान सुमारे 1u (unified mass) इतना होता है । (1 डाल्टन अर्थात्  $1u = 1.66 \times 10^{-27}$ kg) (हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान भी लगभग 1u होता है ।)

#### न्यूट्रॉन (n)

न्यूट्रॉन यह विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन उपपरमाण्विक कण हैं । उसे 'n' इस संकेत से दर्शाते हैं । नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनसंख्या के लिए 'n' यह अक्षर उपयोग में लाते हैं । 1u इतने परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन का अपवाद छोड़कर बाकी सभी तत्त्वों के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं । एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1u है । अर्थात् करीब-करीब प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हैं ।

#### नाभिक का बाहरी भाग

परमाणु की संरचना में नाभिक के बाहरी भाग में परिभ्रमण करनेवाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन इनके बीच स्थित रिक्त स्थान का समावेश होता है ।

## इलेक्ट्रॉन ( $e^-$ )

इलेक्ट्रॉन यह ऋण आवेशित उपपरमाण्विक कण हैं। इसे ' $e^-$ ' इस अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश ( $-1e$ ) होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1800 गुना कम है।

अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। परमाणु नाभिक के बाहरी भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। भ्रमण कक्षा का स्वरूप त्रिमितीय होने के कारण 'कक्षा' इस पद के स्थान पर 'कवच' (Shell) इस पद का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह जिस कवच में होता है उस पर निर्भर होती है।

परमाणु नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केन्द्रक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या ( $Z$ ) के बराबर होती है। अतः विद्युत आवेशों का संतुलन होकर परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है।



### थोड़ा सोचो।

1. परमाणु में कितने प्रकार के उपपरमाण्विक कण होते हैं?
2. कौन-से उपपरमाण्विक कण आवेश युक्त हैं?
3. नाभिक में कौन-से उपपरमाण्विक कण होते हैं?
4. नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करनेवाले इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं?

इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी एकत्रित संख्या को उस तत्त्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमानांक ' $A$ ' इस अक्षर से दर्शाते हैं। परमाणु संकेत क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक ये एकत्रित रूप से चिह्न में दर्शाने की पद्धति नीचे दी गई है।

${}^A_Z$  संकेत, उदाहरण  ${}^{12}_6\text{C}$  इस चिह्न का अर्थ यह है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक अर्थात् प्रोटॉन संख्या 6 और कार्बन का परमाणु वस्तुमानांक 12 है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि, कार्बन के नाभिक में (12-6) अर्थात् 6 न्यूट्रॉन हैं।



### थोड़ा सोचो।

1. ऑक्सीजन का संकेत ' $O$ ' है। उसके नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इस आधार पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ( $Z$ ) और परमाणु वस्तुमानांक ( $A$ ) निश्चित करो और उसको चिह्न द्वारा दर्शाओ।
2. कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
3. सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा?
4. मैग्नेशियम का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमानांक क्रमशः 12 और 24 हैं? चिह्न द्वारा तुम उसे कैसे दर्शाओगे?
5. कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमानांक क्रमशः 20 और 24 हैं। इस आधार पर कैल्शियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे ज्ञात करो।

**इलेक्ट्रॉनों का वितरण :** बोर के परमाणु प्रतिकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थाई कवचों में परिभ्रमण करते हैं। इन कवचों की विशिष्ट ऊर्जा होती है। परमाणु नाभिक के सबसे समीप वाले कवच को पहला कवच, उसके बाद वाले कवच को दूसरा कवच कहते हैं। कवचों के क्रमांक के लिए ' $n$ ' इस संकेत का उपयोग करते हैं।  $n = 1, 2, 3, 4, \dots$  इन क्रमांकों के अनुसार कवचों को K, L, M, N, ... इन संकेतों द्वारा संबोधित करते हैं। प्रत्येक कवच में ' $2n^2$ ' इस सूत्र से प्राप्त संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ' $n$ ' का मान बढ़ने पर उस कवच के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है।



### तालिका पूर्ण करो।

कवच		कवचों की इलेक्ट्रॉन धारणक्षमता	
संकेत	$n$	सूत्र : $2n^2$	इलेक्ट्रॉनों की संख्या
K	1	$2 \times (1)^2$	
L			
M			
N			

उपर्युक्त तालिका के आधार पर कवचों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या लिखो। K कवच : ..., L कवच : ..., M कवच : ..., N कवच : ...





### बताओ तो

1. परमाणु की संरचना और सौर मंडल में समानता हैं। सौर मंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वीय बल के कारण परिभ्रमण करते हैं। परमाणु संरचना में कौन-सा बल कार्यरत होगा?
2. नाभिक में अनेक धन आवेशित प्रोटॉन एकत्र होते हैं। नाभिक के न्यूट्रॉन का एक कार्य क्या होगा ऐसा तुम्हें लगता है?

**तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण :** हमने देखा कि K, L, M, N .... इन कवचों में क्रमशः अधिक से अधिक 2, 8, 18, 32.... इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। यही कवचों की महत्तम धारकता हैं। कवचों की महत्तम धारकता के अनुसार ही परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का कवचों में वितरण होता है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कवच के अनुसार विन्यास ही उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहलाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में वह जिस कवच में होता है उसके अनुसार निश्चित ऊर्जा होती है। पहले कवच (K कवच) में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे कम होती


है। उसके आगे के कवचों के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कवच क्रमांक के अनुसार बढ़ती जाती है। तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इस प्रकार होता है कि उसके सभी इलेक्ट्रॉनों की एकत्रित ऊर्जा कम से कम होती है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन कवचों की महत्तम धारकता के अनुसार और ऊर्जा के आरोही क्रमानुसार कवचों में स्थान प्राप्त करते हैं। अब हम कुछ तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखेंगे। (तालिका 5.7) उस तालिका की 1 से 3 पंक्तियाँ भरी हुई हैं। उस आधार पर बची हुई तालिका तुमने भरनी है।

तत्व	संकेत	परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या	कवच में इलेक्ट्रॉन वितरण				संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन संरूपण
			कवचसंकेत (महत्तम धारकता)				
			K (2)	L (8)	M (18)	N (32)	
हाइड्रोजन	H	1	1				1
हिलियम	He	2	2				2
लीथियम	Li	3	2	1			2, 1
कार्बन	C	6					
नाइट्रोजन	N	7					
ऑक्सीजन	O	8					
फ्लुओरिन	F	9					
नियॉन	Ne	10					
सोडियम	Na	11					
क्लोरिन	Cl	17					
आर्गन	Ar	18					
ब्रोमीन	Br	35					

### 5.7 कुछ तत्वों के संरूपण

संख्या स्वरूप में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अल्पविराम से अलग किए हुए अंको द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अंक ऊर्जा के आरोही क्रमवाले कवचों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या दर्शाते हैं। उदाहरणार्थ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,8,1 हैं। इसका अर्थ सोडियम परमाणु में 'K' कवच में 2 'L' कवच में 8 'और M' कवच में 1 इस प्रकार से कुल 11 इलेक्ट्रॉन वितरित किए होते हैं। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आकृति 5.8 के अनुसार कवचों के रेखांकन द्वारा भी दर्शाते हैं।

**संयोजकता (Valency) और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण (Electronic configuration):** संयोजकता अर्थात् एक परमाणु द्वारा बनाए गए रासायनिक बंधों की संख्या यह हमने पिछले पाठ में देखा। हमने यह भी देखा कि सामान्यतः तत्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिकों में स्थिर होती है।



5.8 : इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन



थोड़ा सोचो ।

1. विविध परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिनमें समाविष्ट होते हैं उन कवचों के संकेत क्या हैं?
2. सबसे अंदरवाले कवच का संकेत और क्रमांक क्या हैं?
3. फ्लूओरीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिन कवचों में वितरित किए होते हैं उनके संकेत लिखो ।
4. फ्लूओरीन परमाणु में सबसे बाहरी अर्थात् बाह्यतम कवच कौन-सा है?
5. सोडियम परमाणु में बाह्यतम कवच कौन-सा है?
6. हाइड्रोजन परमाणु में बाह्यतम कवच कौन-सा है?

तत्त्वों की संयोजकता, यौगिकों में उपस्थित रासायनिक बंध इनसे संबंधित संकल्पना इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के कारण स्पष्ट होती है । परमाणु स्वयं के बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके रासायनिक बंध बनाता है । परमाणुओं की संयोजकता उसके बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर निर्धारित होती है । इसलिए बाह्यतम कवच को संयोजकता कवच कहते हैं । बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉन **संयोजकता इलेक्ट्रॉन** कहलाते हैं ।

परमाणु की संयोजकता का संबंध परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से होता है यह स्पष्ट होता है । सर्वप्रथम हिलीयम और नियॉन इन तत्त्वों को देखें । ये दोनों गैसीय अवस्थावाले तत्त्व अन्य किसी भी परमाणु से संयोग नहीं करते । ये तत्त्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय हैं । अर्थात् उनकी संयोजकता शून्य है । हिलीयम के परमाणु में



थोड़ा याद करो ।

नीचे दिए गए अणुसूत्रों का उपयोग कर H, Cl, O, S, N, C, Br, I, Na इनकी संयोजकता निश्चित करो ।

अणुसूत्र -  $H_2$ , HCl,  $H_2O$ ,  $H_2S$ ,  $NH_3$ ,  $CH_4$ , HBr, HI, NaH.

दो इलेक्ट्रॉन होते हैं । और वे K इस पहले कवच में समाविष्ट होते हैं । (देखो तालिका 5.7) हिलीयम में इलेक्ट्रॉनों का केवल एक K कवच है और वही बाह्यतम कवच भी है । K कवच की इलेक्ट्रॉन धारकता ( $2n^2$ ) दो हैं अर्थात् हिलीयम का बाह्यतम कवच पूर्ण भरा है । इसे ही हिलीयम का इलेक्ट्रॉन द्विक कहते हैं । नियॉन इस निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में K व L ये दो कवच होते हैं जिसमें L यह संयोजकता कवच है । L कवच की इलेक्ट्रॉन धारकता 'आठ' है और तालिका 5.7 से यह स्पष्ट होता है कि नियॉन का संयोजकता कवच पूर्ण भरा है । इसे ही नियॉन में इलेक्ट्रॉन अष्टक है ऐसा कहते हैं । K, L और M इन कवचों में इलेक्ट्रॉन रहने वाली निष्क्रिय गैस अर्थात् ऑर्गन है । M इस कवच की इलेक्ट्रॉन धारकता  $2 \times 3^2 = 18$  है, परंतु ऑर्गन में M इस संयोजकता कवच में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हैं (देखो तालिका 5.7) इसका अर्थ है कि निष्क्रिय गैसों के संयोजकता कवच में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात् संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन अष्टक होता है । इलेक्ट्रॉन अष्टक (या द्विक) पूर्ण होता है तब संयोजकता शून्य होती है ।

निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त अन्य तत्त्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखें (तालिका 5.7) तो ऐसा दिखाई देता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति नहीं है या उनकी इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति अपूर्ण है । हाइड्रोजन के बारे में यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का द्विक अपूर्ण है ।

निष्क्रिय गैसों के अलावा अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं में अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात् उनकी संयोजकता शून्य नहीं होती। हाइड्रोजन के संयोग से बननेवाले अणुओं के सूत्रों से (उदा.  $H_2$ ,  $HCl$ ) हाइड्रोजन की संयोजकता 'एक' होती है यह तुमने देखा ही है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से यह दिखाई देता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन 'K' इस कवच में है अर्थात् हाइड्रोजन में 'पूर्ण दिवक' स्थिति की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन कम है।

यह 'एक' संख्या हाइड्रोजन की संयोजकता से मिलती है। सोडियम के 2,8,1 इस संरूपण से यह पता चलता है कि सोडियम के संयोजकता कवच में 'एक'

इलेक्ट्रॉन हैं और  $NaCl$ ,  $NaH$  ऐसे अणुसूत्रों से पता चलता है कि सोडियम की संयोजकता एक है। इसका अर्थ यह है कि तत्वों की संयोजकता और उनके संयोजकता कवचों की इलेक्ट्रॉन संख्या में कुछ संबंध है।



**थोड़ा सोचो।**

नीचे दी गई तालिका (5.9) में कुछ तत्वों से बने यौगिकों के अणुसूत्र दिए हैं। उसके आधार पर निर्धारित उन तत्वों की संयोजकता, उस उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या रिक्त स्थानों में लिखो।

अ. क्र	तत्व का संकेत	यौगिक का अणुसूत्र	तत्व की संयोजकता	तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण	तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या x	$8 - x$ ( $x \geq 4$ के लिए)
1	H	$HCl$	1	1	1	-
2	Cl	$HCl$	1	2, 8, 7	7	$8 - 7 = 1$
3	Ne	यौगिक नहीं	0			
4	F	$HF$				
5	Na	$NaH$				
6	Mg	$MgCl_2$				
7	C	$CH_4$				
8	Al	$AlCl_3$				

### 5.9 : संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में संबंध



**थोड़ा सोचो।**

तालिका क्र. 5.9 के चौथे स्तंभ में तुमने यौगिक के अणुसूत्र के आधार पर तत्व की प्राप्त की संयोजकता लिखी है।

- जब तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या,  $x$  का मान 4 या 4 से कम है तब  $x$  का मान तत्व की संयोजकता से मेल खाता है क्या?
- जब ' $x$ ' का मान 4 या 4 से अधिक है तब ' $(8-x)$ ' का मूल्य तत्व की संयोजकता से मेल खाता है क्या? या तत्व का इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम है?

इससे तुम्हारे यह ध्यान में आएगा कि तत्व की संयोजकता और तत्व के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में सामान्यतः नीचे दिया संबंध होता है।



**इसे सदैव ध्यान में रखो।**

“जिस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या चार या उससे कम होती है उस तत्व की संयोजकता उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है। इसके विपरीत जिस तत्व में चार या उससे अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं तब अष्टक पूर्ण होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वह संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है।”



### थोड़ा सोचो ।

1. तत्व के परमाणु क्रमांक (Z) का क्या अर्थ है ?
2. नीचे कुछ तत्वों के परमाणुक्रमांक (Z) दिए हैं । उन प्रत्येक तत्वों के बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं लिखो ।

तत्व	H	C	Li	O	N
Z	1	6	3	8	7
बाह्यतम कवच की इलेक्ट्रॉन संख्या					

3. नीचे कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉन संख्या दी है । उस आधार पर उस-उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता लिखो ।

तत्व	Na	C	Mg	Cl
इलेक्ट्रॉन संख्या	11	6	12	17
इलेक्ट्रॉनिक संरूपण				
संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या				
संयोजकता				

4. परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक हमेशा पूर्णांक ही क्यों होते हैं ?
5. सल्फर में 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन होते हैं तो उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक कितना होगा ?

**समस्थानिक (Isotopes) :** तत्व का परमाणु क्रमांक यह तत्व का मूलभूत गुणधर्म और उसकी रासायनिक पहचान है । प्रकृति में कुछ तत्वों में परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न ऐसे परमाणु होते हैं । एक ही तत्व के ऐसे भिन्न परमाणु द्रव्यमानांक वाले परमाणुओं को समस्थानिक हैं । उदा. C-12, C-13, C-14 समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानांक  $^{12}\text{C}$ ,  $^{13}\text{C}$  और  $^{14}\text{C}$  इस पद्धति से भी दर्शाते हैं । समस्थानिकों की प्रोटॉन संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है ।

समस्थानिक	परमाणु द्रव्यमानांक A	प्रोटॉन संख्या Z (परमाणु क्रमांक)	न्यूट्रॉन संख्या $n = A - Z$
$^{12}\text{C}$	12	6	6
$^{13}\text{C}$	13	6	7
$^{14}\text{C}$	14	6	8



### तालिका पूर्ण करो ।



### जानकारी प्राप्त करो ।

हाइड्रोजन के कुल तीन समस्थानिक हैं, उन्हें हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम नाम दिए गए हैं । उनके परमाणु द्रव्यमानांक ढूँढो । भारी जल (Heavy water) का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो ।

समस्थानिक	प्रोटॉन संख्या	न्यूट्रॉन संख्या
$^1_1\text{H}$	.....	.....
.....	1	1
.....	1	2
$^{35}_{17}\text{Cl}$	.....	.....
$^{37}_{17}\text{Cl}$	.....	.....



**समस्थानिकों के उपयोग :** कुछ तत्वों के समस्थानिक रेडियोधर्मी होते हैं। उनका उपयोग विविध क्षेत्रों में किया जाता है। उदा. औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, चिकित्सकीय क्षेत्र, अनुसंधान क्षेत्र।


1. यूरेनियम - 235 का उपयोग नाभिकीय विखंडन और विद्युत निर्मिती के लिए करते हैं।
2. कैन्सर जैसे प्राणघातक विकार के चिकित्सकीय उपचार में कुछ तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग करते हैं। उदा. कोबाल्ट - 60
3. गॉयटर या थायरॉईड इस विकार के चिकित्सकीय उपचार में आयोडीन-131 का उपयोग करते हैं।
4. रेडियोधर्मी तत्वों के समस्थानिकों का उपयोग जमीन के नीचे से जानेवाली नलिकाओं में दरार खोजने के लिए करते हैं। उदा. सोडियम-24
5. अन्न पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणुओं से परिरक्षण करने के लिए रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग करते हैं।
6. C-14 इस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग पुरातन वस्तुओं की आयु निश्चित करने के लिए करते हैं।

**परमाणुभट्टी (Nuclear Reactor) :** परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बड़े पैमाने पर विद्युत निर्मिती करनेवाले संयंत्र को परमाणुभट्टी (आकृति 5.10 देखो) कहते हैं। परमाणु भट्टी में परमाणु ईंधन पर नाभिकीय अभिक्रिया करके परमाणु की नाभिकीय ऊर्जा मुक्त करते हैं। संबंधित नाभिकीय अभिक्रिया समझने के लिए यूरेनियम -235 इस परमाणु ईंधन का उदाहरण लेंगे। धीमी गति से न्यूट्रॉन का आघात करके यूरेनियम -235 इस समस्थानिक के नाभिक का विखंडन होकर क्रिप्टान -92 तथा बेरियम -141 इन भिन्न तत्वों के नाभिक और 2 से 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। इन न्यूट्रॉनों की गति कम करने पर वे और U-235 के नाभिकों का विखंडन करते हैं। इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन की शृंखला अभिक्रिया होती है। (आकृति 5.11 देखो) इसमें नाभिक से बड़े पैमाने पर नाभिकीय ऊर्जा अर्थात् परमाणु ऊर्जा मुक्त होती है। संभावित विस्फोट टालने के लिए शृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रखते हैं।

परमाणु भट्टी में शृंखला अभिक्रिया नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का वेग और संख्या कम करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आगे दी गई बातों का उपयोग होता है।



5.10 परमाणुभट्टी : भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई



5.11 यूरेनियम - 235 का विखंडन

**1. संचलक / मंदक (Moderator) :** न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल का संचलक या मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है।

**2. नियंत्रक (Controller) :** न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके उनकी संख्या कम करने के लिए बोरॉन, कॅडमियम, बेरिलियम आदि की छड़ों का नियंत्रक के रूप में उपयोग करते हैं।

विखंडन प्रक्रिया में निर्माण होनेवाली ऊष्मा, पानी का शीतक (Coolant) के रूप में उपयोग कर, अलग की जाती है। उस ऊष्मा से पानी की वाष्प बनाकर उस वाष्प की सहायता से टर्बाइन्स घूमते हैं और विद्युत निर्माण होती है।

भारत में आठ स्थानों के परमाणु विद्युत निर्माण केंद्रों में कुल बाईस परमाणु भट्टियाँ कार्यान्वित हैं। अप्सरा यह मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 4 अगस्त 1956 को कार्यान्वित हुई भारत की पहली परमाणु भट्टी है। भारत में थोरियम-232 इस तत्व के भंडार बड़े पैमाने में होने के कारण भारतीय वैज्ञानिकों ने आनेवाले समय के लिए Th-232 से U-233 इस समस्थानिक के निर्माण पर आधारित परमाणु भट्टियों की योजना विकसित की है।

### सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ :

www.youtube.com से परमाणु भट्टी के कार्यों की विस्तृत जानकारी विडियो द्वारा प्राप्त करो और उसे कक्षा में सभी को बताओ।

## स्वाध्याय

### 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो।

- थॉमसन और रूदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में क्या अंतर है?
- तत्वों की संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता में क्या संबंध है लिखो।
- परमाणु द्रव्यमानांक किसे कहते हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमानांक 12 हैं ये कैसे स्पष्ट करोगे?
- उपपरमाण्विक कण किसे कहते हैं? विद्युत आवेश, द्रव्यमान और स्थान संदर्भ में तीन उपपरमाण्विक कणों की जानकारी संक्षेप में लिखो।

### 2. वैज्ञानिक कारण लिखो।

- परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है।
- परमाणु विद्युतीय दृष्टिसे उदासीन होता है।
- परमाणु द्रव्यमानांक पूर्णांक में होता है।
- परिभ्रमण करनेवाले आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी सामान्यतः परमाणु स्थाई होते हैं।

### 3. परिभाषा लिखो।

- परमाणु
- समस्थानिक
- परमाणु क्रमांक
- परमाणु द्रव्यमानांक
- परमाणु भट्टी के मंदक

### 4. स्वच्छ एवं नामांकित आकृतियाँ बनाओ।

- रूदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग
- थामसन की परमाणु प्रतिकृति
- मैग्नीशियम के (परमाणु क्रमांक 12) इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन
- ऑर्गन के (परमाणु क्रमांक 18) इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन

### 5. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।

- इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु में पाए जानेवाले ..... हैं।
- इलेक्ट्रॉन पर ..... आवेश होता है।
- परमाणु के नाभिक सबसे समीपवाली कवच..... हैं।
- मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,8,2 हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि मैग्नीशियम का संयोजकता कवच ..... हैं।
- H<sub>2</sub>O इस अणुसूत्र के अनुसार हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। इसलिए Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> इस सूत्र के अनुसार Fe की संयोजकता ..... निश्चित होती है।

### 6. जोड़ियाँ मिलाओ।

- |               |             |
|---------------|-------------|
| 'अ' समूह      | 'ब' समूह    |
| अ. प्रोटॉन    | a. ऋणआवेशित |
| आ. इलेक्ट्रॉन | b. उदासीन   |
| इ. न्यूट्रॉन  | c. धनआवेशित |

### 7. दी गई जानकारी के आधार पर ज्ञात करो

जानकारी	ज्ञात करो
$^{23}_{11}\text{Na}$	न्यूट्रॉन संख्या
$^{14}_6\text{C}$	परमाणु द्रव्यमानांक
$^{37}_{17}\text{Cl}$	प्रोटॉन संख्या

### उपक्रम :

पुरानी सी.डी., गुब्बारे, गोटियाँ इन चीजों का उपयोग करके परमाणु की प्रतिकृति को स्पष्ट करो।



JGKI68

## 6. द्रव्य की संरचना



**थोड़ा याद करो ।**

1. द्रव्य की विविध अवस्थाएँ कौनसी हैं ?
2. बर्फ, पानी और वाष्प में अंतर बताओ ।
3. द्रव्य के छोटे-से छोटे कण को क्या कहते हैं ?
4. द्रव्य के प्रकार कौन-से हैं ?

पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि अपने आस-पास दिखाई देने वाली तथा दृष्टि को दिखाई न देने वाली सभी वस्तुएँ किसी ना किसी द्रव्य से बनी होती हैं ।



**बताओ तो**

1. द्रव्यों का तीन समूहों में वर्गीकरण करो । शीतपेय, हवा, शरबत, मिट्टी, पानी, लकड़ी, सीमेंट ।
2. ऊपर्युक्त वर्गीकरण के लिए मापदंड के रूप में उपयोग में लाई गई द्रव्य की अवस्थाएँ कौन-सी हैं ?



**करो और देखो ।**

एक चौड़े मुँह वाली पारदर्शक प्लास्टिक की बोतल में राई के दाने लो । बड़े गुब्बारे के मध्य भाग में सुई की सहायता से लंबा धागा डालकर पक्की गाँठ मारो । यह रबड़ का परदा बोतल के मुँह पर रबड़बँड की सहायता से खींचकर लगाओ । धागा बोतल के बाहर रहे यह देखो । धागे की सहायता से परदा क्रमशः धीरे, थोड़ा जोर से, बहुत जोर से ऊपर-नीचे करो और आगे दी गई तालिका में निरीक्षण लिखो ।


परदा ऊपर-नीचे करने की विधि	राई के दानों की हलचल
धीरे	अपने ही स्थान पर
थोड़ा जोर से	.....
बहुत जोर से	.....

ऊपर्युक्त प्रयोग में परदा नीचे-ऊपर करके हम हवा द्वारा राई के दानों को कम-अधिक ऊर्जा देते हैं । जिससे राई के दानों में जैसी हलचल होती दिखाई वैसी ही हलचल ठोस, द्रव और गैस इन अवस्थाओं में द्रव्य के कणों में होती हैं ।

द्रव्य के कणों में (परमाणु या अणु में) अंतर आण्विक आकर्षण बल कार्यरत होता है । इस बल की क्षमता के अनुसार कणों की हलचल का अनुपात निर्भर होता है । ठोस में अंतरआण्विक बल बहुत अधिक प्रभावी होता है । जिसके कारण ठोस के कण एक दूसरे के अत्याधिक समीप होते हैं और वे अपनी अपनी जगह पर कंपित होते रहते हैं । अतः ठोस को निश्चित आकार और आयतन प्राप्त होता है तथा उच्च घनत्व और असंपीड्यता (non-compressibility) ये गुणधर्म प्राप्त होते हैं । द्रव अवस्था में अंतरआण्विक बल की क्षमता मध्यम होती है । वह कणों को निश्चित स्थान पर रोककर रखने के लिए उतनी प्रभावी न हो तो भी उन्हें एकत्रित गठन करने के लिए पर्याप्त प्रभावी होती है । इसलिए द्रवों का आयतन निश्चित होता है, परंतु उन्हें प्रवाहिता प्राप्त होती है और द्रवों का आकार निश्चित न होकर धारकपात्र के अनुसार बदलता है ।



6.1 : राई के दानों की हलचल



6.2 द्रव्य की भौतिक अवस्थाएँ : अतिसूक्ष्म स्तर पर चित्र

परंतु गैसों में अंतरआण्विक बल बहुत कम होता है। इसलिए गैसों के घटक कण मुक्त रूप से हलचल कर सकते हैं और उपलब्ध पूरी जगह पर फैल जाते हैं। इसलिए गैसों को निश्चित आकार या निश्चित आयतन या निश्चित आयतन ये दोनों नहीं होते। आकृति 6.2 में द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं का यह अतिसूक्ष्म स्तर का चित्र प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है और तालिका 6.3 में द्रव्य की अवस्थाओं की विशेषताएँ दर्शाई गई हैं।

द्रव्य की भौतिक अवस्था	प्रवाहिता/दृढ़ता/ढलनशीलता/प्रत्यास्थता	आयतन	आकार	संपीड्यता	अंतर परमाण्विक बल	कणों के बीच की दूरी
ठोस	दृढ़/ ढलनशील/ प्रत्यास्थ	निश्चित	निश्चित	नगण्य	शक्तिशाली	कम से कम
द्रव	प्रवाही	निश्चित	अनिश्चित	बहुत कम	मध्यम	मध्यम
गैस	प्रवाही	अनिश्चित	अनिश्चित	उच्च	बहुत कम	अधिक

### 6.3 : द्रव्य की अवस्थाओं की विशेषताएँ



**बताओ तो**

नीचे दिए गए द्रव्यों की संरचना सूत्रों की सहायता से लिखो और उसके आधार पर वर्गीकरण करो।

द्रव्य का नाम	रासायनिक सूत्र/संरचना	द्रव्य का प्रकार
पानी		
कार्बन		
ऑक्सीजन		
हवा		
एल्युमिनियम		
पीतल		
कार्बन डायऑक्साइड		







द्रव्य का वर्गीकरण करने की यह दूसरी पद्धति है। इस पद्धति में “द्रव्य की रासायनिक संरचना” यह मापदंड उपयोग में लाया गया है। द्रव्य के सूक्ष्मतम कण एक समान हैं या अलग-अलग और वे किससे बने हैं, इस आधार पर द्रव्य के **‘तत्व’ (element), यौगिक (Compound) और मिश्रण (Mixture)** ऐसे तीन प्रकार बनते हैं यह हमने पिछली कक्षा में देखा है। किसी तत्व या किसी यौगिक के सभी अतिसूक्ष्म कण (परमाणु/अणु) ये एक जैसे होते हैं लेकिन मिश्रण के सूक्ष्मतम कण ये दो या दो से अधिक प्रकार के होते हैं।

तत्व के सूक्ष्मतम कण में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़ी हुई स्थिति में होते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम

कण (अणु) ये दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक-दूसरे से जुड़कर बने होते हैं जैसे पानी के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु से जुड़ी हुई स्थिति में होते हैं। मिश्रण के सूक्ष्मतम कण अर्थात् दो या दो से अधिक तत्व यौगिकों के परमाणु/अणु होते हैं। उदाहरणार्थ, हवा इस मिश्रण में  $N_2$ ,  $O_2$ , Ar,  $H_2O$ ,  $CO_2$ , ये प्रमुख घटक अणु हैं। उसी प्रकार से पीतल इस मिश्रण धातु/सम्मिश्र में ताँबा (Cu) और जस्त (Zn) तथा ब्राँज में ताँबा (Cu) और टिन (Sn) इन तत्वों के परमाणु होते हैं।

आकृति 6.4 में तत्व, यौगिक और मिश्रण द्रव्य के इन प्रकारों के अतिसूक्ष्म स्तर के चित्र प्रतीक के रूप में दर्शाते हुए उनकी विशेषताएँ भी बताई गई हैं।



तत्त्व	यौगिक	मिश्रण
नायट्रोजन ( $N_2$ ) अणु 	नायट्रोजन डायऑक्साइड ( $NO_2$ ) अणु 	$N_2$ और $NO_2$ का मिश्रण 
ऑक्सीजन ( $O_2$ ) अणु 	नायट्रिक ऑक्साइड ( $NO$ ) अणु 	$N_2$ और $O_2$ का मिश्रण 
तत्त्व का घटक पदार्थ एक ही होता है और वह अर्थात् स्वयं वह तत्त्व	यौगिक का घटक पदार्थ एक ही और वह अर्थात् स्वयं वह यौगिक	मिश्रण के घटक पदार्थ दो या दो से अधिक तत्त्व या यौगिक
तत्त्व के सभी परमाणु/अणु एक समान	यौगिक के सभी अणु एक समान	मिश्रण के अणु/परमाणु दो या दो से अधिक प्रकार के
तत्त्व के अणु में स्थित सभी परमाणु एक समान और एक दूसरे से रासायनिक बंधो से जुड़े हुए	यौगिक के अणु के घटक परमाणु दो या दो से अधिक प्रकार के और एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े हुए	मिश्रण के घटक अणु एक-दूसरे से भिन्न, रासायनिक बंध से न जुड़े हुए
अलग-अलग तत्त्वों के अणु/परमाणु अलग-अलग	यौगिक के घटक तत्त्वों का अनुपात निश्चित	मिश्रण के घटक पदार्थों का अनुपात बदल सकता है।
-	यौगिक के गुणधर्म घटक तत्त्वों के गुणधर्मों से भिन्न	मिश्रण में उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म बने रहते हैं।

#### 6.4 : तत्त्व, यौगिक, मिश्रण-अतिसूक्ष्म स्तर के चित्र व विशेषताएँ



#### क्या तुम जानते हो

**पानी : एक यौगिक** – शुद्ध पानी यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तत्त्वों के रासायनिक संयोग से बना हुआ एक यौगिक है। पानी का स्रोत कोई भी हो, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन घटक तत्त्वों का भारात्मक अनुपात 8: 1 होता है। हाइड्रोजन यह ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है। लेकिन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन गैसीय तत्त्वों के रासायनिक संयोग बना पानी यह यौगिक द्रवरूप में होता है। वह ज्वलनशील भी नहीं है और ज्वलन में सहायक भी नहीं है। इसके विपरीत पानी से आग बुझाने में सहायता मिलती है।

**दूध : एक मिश्रण** – दूध यह पानी दुग्धशर्करा, स्निग्धपदार्थ, प्रथिन और अन्य कुछ प्राकृतिक पदार्थों का मिश्रण है। दूध के स्रोत के अनुसार दूध में स्थित विविध घटक पदार्थों के अनुपात अलग-अलग होते हैं। गाय के दूध में स्निग्ध पदार्थों का अनुपात 3-5% होता है, तो भैंस के दूध में यही अनुपात 6-9% है। दूध में प्राकृतिक रूप से ही पानी का अनुपात अधिक होता है। इसलिए दूध द्रव अवस्था में होता है। दूध की मिठास यह मुख्य रूप से उसमें स्थित दुग्धशर्करा इस घटक के कारण होती है। अर्थात् घटक पदार्थों के गुणधर्म दूध में बने रहते हैं।

#### तत्त्वों के प्रकार (Types of elements)



#### करो और देखो।

लोहे की कील/पतरा, तांबे की तार, एल्युमिनियम की तार, कोयले का टुकड़ा ये वस्तुएँ लो। प्रत्येक वस्तु सँडपेपर से घिसकर प्राप्त हुआ-पृष्ठभाग देखो। प्रत्येक वस्तु पर हथौड़े से जोर से आघात करो। (स्वयं को चोट न पहुँचे इसका ध्यान रखो) तुम्हारे प्रेक्षण अगली तालिका में लिखो।

वस्तु	पृष्ठभाग पर चमक हैं/नहीं	आघात करने पर आकार फैलता है / छोटे टुकड़े होते हैं
लोहे की कील		
ताँबे का तार		
एल्युमिनियम का तार		
कोयले का टुकड़ा		

ऊपर दी गई कृति की वस्तुएँ क्रमशः लोहा (Fe), ताँबा (Cu), एल्युमिनियम (Al) और कार्बन (C) इन तत्वों से बनी हैं। ऊपर्युक्त दो परीक्षण प्रत्येक वस्तु पर करने पर प्राप्त निरीक्षणों के आधार पर संलग्न तालिका भरो।

पृष्ठभाग पर चमक वाले तत्व	
आघात करने पर फैलने वाले तत्व	
चमकहीन पृष्ठभाग वाले तत्व	
आघात करने पर टुकड़े होनेवाले तत्व	

तुमने देखा की तत्वों में चमक/चमकहीनता, आघातवर्धता/ भंगुरता ऐसे अलग-अलग भौतिक गुणधर्म हैं और उनके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। प्रारंभ में तत्वों का वर्गीकरण 'धातु' व 'अधातु' इन दो प्रकारों में किया जाता था। कुछ अन्य तत्वों की खोज होने के बाद 'धातुसदृश्य' / उपधातु तत्वों का यह एक और प्रकार ध्यान में आया। तत्वों के इस प्रकार के बारे में अधिक जानकारी हम 'धातु-अधातु' इस पाठ में प्राप्त करने वाले हैं।

### यौगिकों के प्रकार



**करो और देखो।**

**उपकरण :** वाष्पनपात्र, तिपाई स्टैंड, बर्नर इत्यादि।

**रासायनिक पदार्थ :** कपूर, चूने का पत्थर, धोने का सोड़ा, कॉपर सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया।

**कृति :** आकृति में दर्शाए अनुसार वाष्पन तिपाई स्टैंड पर रखो। वाष्पनपात्र में थोड़ा कपूर लो, बर्नर की सहायता से वाष्पनपात्र का कपूर 5 मिनट तीव्रता से गर्म करो। वाष्पनपात्र में क्या बचता है देखो। कपूर के स्थान पर चूने का पत्थर, धोने का सोड़ा, कॉपर सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया ये पदार्थ लेकर ऊपर्युक्त कृति पुनः करो। तुम्हारे प्रेक्षण आगे दी गई तालिका में लिखो।

(कोई चूर्ण जल सकता है। अतः यह कृति शिक्षकों की निगरानी में सावधानीपूर्वक करो।)



**6.5 प्रयोगाकृति**

वाष्पनपात्र का चूर्ण	वाष्पनपात्र में अवशेष बचता है / नहीं बचता	अवशेष का रंग
कपूर		
चूने का पत्थर		
.....		

ऊपर्युक्त कृति में तुमने देखा कि तीव्र ऊष्मा देने पर कुछ यौगिकों से अवशेष प्राप्त होता है और कुछ यौगिकों से अवशेष प्राप्त नहीं होता या काला अवशेष प्राप्त होता है। यह काला अवशेष मुख्यतः कार्बन से बना होता है। उसीप्रकार से इन यौगिकों को हवा में तीव्रता से गर्म करने पर उनका ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर कुछ गैसीय पदार्थ बनते हैं और ज्वलन पूर्ण न होने पर नीचे अवशेष के

रूप में काले रंग का कार्बन रहता है। इन यौगिकों को **सेन्द्रिय यौगिक** या **कार्बनिक यौगिक** कहते हैं। उदाहरणार्थ, कार्बोज, प्रथिन, हाइड्रोकार्बन (उदा. पेट्रोल, रसोई-गैस) ये द्रव्य सेन्द्रिय यौगिकों से बने होते हैं। ऊपर्युक्त कृति में कपूर, शक्कर, ग्लूकोज और यूरिया ये सेन्द्रिय यौगिक हैं। इसके विपरीत तीव्र ऊष्मा देने पर जिन यौगिकों का अपघटन होकर पीछे अवशेष बचता है, वह

असेन्द्रिय या अकार्बनिक यौगिक होते हैं। नमक, सोड़ा, जंग, कॉपर सल्फेट, चूने का पत्थर ये अकार्बनिक यौगिक हैं। इसके अलावा यौगिकों का और एक प्रकार है और वह है **जटिल यौगिक**। जटिल यौगिकों के अणुओं में अनेक परमाणुओं से बनी जटिल संरचना होती है और इस संरचना के मध्य भाग में धातु के परमाणुओं का भी समावेश होता है। मैग्नीशियम का समावेश वाला क्लोरोफिल, लोहे का समावेश वाला हिमोग्लोबिन और कोबाल्ट का समावेश वाला सायनोकोबालमीन (जीवनसत्त्व B-12) ये जटिल यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं।

यौगिकों के अणुओं में अलग-अलग **परमाणु रासायनिक बंधो से जुड़े** होते हैं, उस विषय में हम आगे देखने वाले हैं।

### मिश्रण के प्रकार



**करो और देखो।**

तीन बीकर लो। पहले बीकर में थोड़ी रेत और पानी लो। दूसरे बीकर में कॉपर-सल्फेट के केलास और पानी लो। तीसरे बीकर में कॉपर सल्फेट और रेत लो। सभी बीकरों में लिए गए द्रव्य हिलाओ और होनेवाले परिवर्तनों का निरीक्षण करो। निरीक्षणों के आधार पर नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो।

बीकर क्र.	लिए गए द्रव्य	हिलाने के पश्चात क्या दिखाई दिया ?	मिश्रण में प्रावस्थाओं की संख्या	मिश्रण का प्रकार
1				
2				
3				

एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को **प्रावस्था (phase)** हैं। हिलाने के पश्चात ऊपर्युक्त कृति में प्रत्येक बीकर में कितनी प्रावस्थाएँ दिखाई देती हैं। जब मिश्रण के सभी घटक मिलकर एक ही प्रावस्था होती हैं तब उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जब मिश्रण के घटक दो या अधिक प्रावस्थाओं में विभाजित होते हैं तब उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं।



**बताओ तो**

ऊपर्युक्त कृति में हिलाने के पश्चात केवल एक ही बीकर में समांगी मिश्रण बनता है। वह कौन-सा है ?



**इसे सदैव ध्यान में रखो।**

किसी ठोस के एकत्रित (या एक पात्र में रखे) सभी कण मिलकर एक ही प्रावस्था होती हैं। (उदा. पत्थरों का ढेर)। द्रवरूप पदार्थ तथा उसमें घुलनशील सभी पदार्थ मिलकर एक ही प्रावस्था होती हैं। (उदा. समुद्र का पानी)। एक द्रव की या एकत्रित (या एक पात्र की) सभी बूँदे मिलकर एक ही प्रावस्था होती हैं। (उदा. बारिश की बूँदे)। एक ही पात्र में या एकत्र परंतु एक दूसरे में न मिलने वाले द्रवों की प्रावस्था स्वतंत्र होती हैं। (उदा. तेल और पानी) एकत्रित सभी गैसीय पदार्थों की मिलकर एक ही प्रावस्था होती हैं। (उदा. हवा)



**करो और देखो।**

तीन बीकर लो। पहले बीकर में 10 ग्राम नमक लो। दूसरे बीकर में 10 ग्राम लकड़ी का बुरादा लो। तीसरे बीकर में 10 मिली दूध लो। तीनों बीकरों में 100 मिली पानी डालकर हिलाओ 1 पानी की स्वतंत्र प्रावस्था किस मिश्रण में दिखाई देती है। उर्ध्वाधर रखे कागज के सामने तीनों बीकर रखकर विपरीत दिशा से लेजर किरणें डालो। (लेजर किरणों का उपयोग शिक्षक के मार्गदर्शन में करना चाहिए।) उसी समय बीकर के सामने रखे कागज पर क्या दिखाई देता है। वह देखो। उसी प्रकार बीकर को बाजू से भी देखो। छानने के लिए शंकुपात्र, कीप और छन्ना, कागज का उपयोग कर तीन विन्यास बनाओ। तीनों बीकरों के मिश्रण हिलाकर उन्हें छानो। सभी निरीक्षणों की नीचे दिए अनुसार तालिका बनाओ।

बीकर	मिश्रण के घटक	पानी की स्वतंत्र प्रावस्था दिखाई देती हैं / दिखाई नहीं देती	पारदर्शक/अर्धपारदर्शक/अपारदर्शक	छानने पर घटकों का पृथक्करण होता है / नहीं होता

**द्रव्य (Solution) :** दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को **द्रव्य** कहते हैं। ऊपर दी गई कृति में पहले बीकर में पानी और नमक इन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बनता है। उसे नमक का पानी में **द्रव्य** कहते हैं। द्रव्य में जो घटक पदार्थ सबसे अधिक अनुपात में होता है उसे **विलायक** कहते हैं और विलायक की तुलना में कम अनुपात में होनेवाले अन्य घटक पदार्थों को **विलेय** कहते हैं विलेय विलायक में मिलाकर द्रव्य बनने की क्रिया अर्थात् घुलना। द्रव्य के घटकों की अवस्थाओं के आधार पर द्रव्य के अनेक प्रकार होते हैं। समुद्र का पानी, पानी में घुला कॉपर सल्फेट, पानी में घुला नमक, शक्कर की चाशनी ये द्रव्य 'द्रव में ठोस' इस प्रकार के हैं। इसके अलावा '**द्रव में द्रव**' (उदा. विनेगर, विरल सल्फ्यूरिक अम्ल) '**गैस में गैस**' (उदा. हवा) '**ठोस में ठोस**' (उदा. पीतल, इस्पात, स्टेनलेस स्टील, ऐसी मिश्रधातु) '**द्रव में वायु**' (उदा. क्लोरीनयुक्त जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) द्रव्य के ऐसे भी प्रकार हैं। समांगी मिश्रण अर्थात् द्रव्य का संघटन संपूर्ण मिश्रण में एक समान होता है। विलायक पारदर्शक द्रव हो, तो द्रव्य भी पारदर्शक होता है और वह छन्ना कागज से आर-पार जाता है।

**निलंबन (Suspension) :** ऊपर दी गई कृति में दूसरे बीकर में पानी और लकड़ी का बुरादा इन दो पदार्थों का विषमांगी बनता है। यह द्रव और ठोस का मिश्रण है। द्रव और ठोस इनके विषमांगी मिश्रण को निलंबन कहते हैं। निलंबन में ठोस कणों का व्यास  $10^{-4}$  मी से अधिक होता है। इसलिए उसमें से प्रकाश का गमन नहीं होता। सामान्य छन्नाकागज पर ये ठोस कण अवशेष के रूप में बच जाते हैं

और छानने की क्रिया से निलंबन के द्रव व ठोस घटक अलग हो जाते हैं।

**कलिल (Colloid) :** ऊपर दी गई कृति में तीसरे बीकर में पानी और दूध इनका मिश्रण अर्धपारदर्शक है। इस मिश्रण के पृष्ठभाग पर प्रकाश का आपतन करने पर उसका कुछ अनुपात में गमन होता है और कुछ अनुपात में बिखर जाता है। इसका कारण यह है कि इस विषमांगी मिश्रण में पानी की प्रावस्था में दूध की प्रावस्था के सूक्ष्म कण सर्वत्र बिखरी हुई स्थिति में होते हैं और इन कणों का व्यास  $10^{-5}$  मी के आसपास होता है। ऐसे विषमांगी मिश्रण को कलिल कहते हैं। कलिल के कणों के व्यास की अपेक्षा छन्ना कागज के छिद्र बड़े होते हैं अतः छानने की क्रिया में कलिल इस विषमांगी द्रव्य का पृथक्करण नहीं होता। दूध स्वयं एक कलिल है। इसमें पानी इस माध्यम में प्रथिन, स्निग्ध पदार्थ आदि के ठोस कण और द्रव बूँदे जिनका व्यास  $10^{-5}$  मी के आसपास होता है, बिखरे होते हैं। इसके अलावा गैस में ठोस (उदा. धुँआ) गैस में द्रव (उदा. कोहरा, बादल) जैसे और भी कलिल के अनेक प्रकार हैं।

**समझेंगे यौगिकों को (Let us understand compounds) :** द्रव्य के प्रकारों का अध्ययन करते समय हमने देखा कि तत्त्व अर्थात् सबसे सरल संरचना वाला द्रव्य का प्रकार है। यौगिक और मिश्रण की संरचना जाँचने पर यह ध्यान में आता है कि वे दो या दो से अधिक घटकों से बने होते हैं। ये घटक एक दूसरे से जुड़ी हुई स्थिति में हैं या स्वतंत्र इस आधार पर वे द्रव्य यौगिक हैं या मिश्रण यह निश्चित होता है।



### करो और देखो।

**कृति :** दो वाष्पन पात्र लो। पहले वाष्पन पात्र में 7 gm लोहे का बुरादा लो। दूसरे में 4 gm गंधक का चूर्ण लो। दोनों वाष्पन पात्रों के द्रव्यों के नजदीक नाल चुंबक ले जाकर निरीक्षण करो। पहले वाष्पन पात्र का संपूर्ण लोहे का बुरादा दुसरे पात्र में डालकर काँच की छड से हिलाओ और नालचुंबक द्रव्य के नजदीक ले जाकर निरीक्षण करो। साथ ही द्रव्य के रंग का भी निरीक्षण करो। अब दूसरे पात्र का यह द्रव्य थोड़ा गर्म करके ठंडा होने दो। इस द्रव्य के रंग में कुछ परिवर्तन हुआ क्या इसका निरीक्षण करो और उस पर नाल चुंबक क्या परिणाम होता है उसका निरीक्षण करो। सभी निरीक्षणों को आगे दी गई तालिका में लिखो।

कृति	द्रव्य का रंग	नाल चुंबक का परिणाम
वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक मिलाया		
वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक एकत्र गर्म किया		



पिछली कृति में लोहे का बुरादा और गंधक चूर्ण मिलाने पर मिलने वाले द्रव्य का नालचुंबक से परीक्षण करने पर ऐसा दिखाई देता है कि बननेवाला द्रव्य लोहे और गंधक का मिश्रण है और उसमें दोनों घटकों के गुणधर्म हैं। कुछ कण पीले दिखाई दिए। वे गंधक थे। कुछ कण काले दिखाई दिए। वे लोहे के थे। चुंबक की ओर लोहे के कणों का आकर्षित होना यह गुणधर्म भी कायम था। अर्थात् इस द्रव्य में लोहा और गंधक ये दोनों घटक स्वतंत्र स्थिति में थे। इसके विपरीत लोहे का बुरादा और गंधक एकत्रित रूप से गर्म करके ठंडा करने पर उसपर चुंबक का परिणाम नहीं हुआ और गंधक का विशिष्ट पीला रंग भी गायब हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऊपर्युक्त कृति में बनने वाला द्रव्य मूल घटकों से भिन्न है। इस कृति में गर्म करने की

क्रिया के कारण लोहा और गंधक इन तत्त्वों में रासायनिक संयोग हुआ। लोहे और गंधक के परमाणु रासायनिक बंध से जुड़ने के कारण नए यौगिक के अणु बने।

**अणुसूत्र और संयोजकता (Molecular formula and valency) :** यौगिक में घटक तत्त्व का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक के अणुओं में घटक तत्त्वों के परमाणु विशिष्ट संख्या में एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। यौगिक के एक अणु में किस-किस तत्त्व के प्रत्येक के कितने परमाणु हैं यह अणुसूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है। अणुसूत्र में सभी घटक तत्त्वों का संकेत और प्रत्येक संकेत के निचले हिस्से में उस-उस परमाणु की संख्या, यह जानकारी समाविष्ट होती है।



**बताओ तो**

नीचे दी गई तालिका में कुछ यौगिकों के अणुसूत्र दिए हैं। उनके उपयोग से तालिका के रिक्त स्थान भरो।

अ. क्र	यौगिक का नाम	अणुसूत्र	घटक के तत्त्व	घटक तत्त्वों के परमाणुओं की संख्या
1.	पानी	H <sub>2</sub> O	H O	2 1
2.	हाइड्रोजन क्लोराइड	HCl	... ...	... ...
3.	मिथेन	CH <sub>4</sub>	... ...	... ...
4.	मैग्नीशियम क्लोराइड	MgCl <sub>2</sub>	... ...	... ...

अणुसूत्र और अणु के विविध तत्त्वों के परमाणुओं की संख्या इसका संबंध हमने देखा। परमाणु एक-दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। दूसरे परमाणु से रासायनिक बंध से जुड़ने की क्षमता प्रत्येक परमाणु का रासायनिक गुणधर्म है। यह क्षमता एक संख्या से दर्शाई जाती है और वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता होती है। कोई परमाणु उसकी संयोजकता के बराबर रासायनिक बंध अन्य परमाणुओं के साथ बनाता है। सामान्यतः तत्त्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिकों स्थिर होती है।



**क्या तुम जानते हो**

वैज्ञानिकों ने 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में यौगिकों की संरचना के बारे में अनेक प्रयोग किए और उस आधार पर तत्त्वों की संयोजकता की खोज की। हाइड्रोजन इस सबसे हलके तत्त्व की संयोजकता 1 है ऐसा मानकर वैज्ञानिकों ने अन्य तत्त्वों की संयोजकता निश्चित की।



**तालिका पूर्ण करो।**

आगे दी गई तालिका में हाइड्रोजन इस तत्त्व के अन्य तत्त्वों के साथ बने विविध यौगिकों के अणुसूत्र दिए हैं। उसके आधार पर संबंधित तत्त्वों की संयोजकता ज्ञात करो।

अ. क्र.	यौगिक के अणुसूत्र	घटक तत्व		'H' की संयोजकता	'X' ने 'H' के साथ बनाए कुल बंधो की संख्या	'X' की संयोजकता
		H	X			
1	HCl	H	Cl	1	1	1
2	H <sub>2</sub> O	H	O	1	2	2
3	H <sub>2</sub> S			1		
4	NH <sub>3</sub>			1		
5	HBr			1		
6	HI			1		
7	NaH			1		
8	CH <sub>4</sub>			1		

यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात हो तो उसके आधार पर घटक तत्वों की संयोजकता पहचान सकते हैं। इसके लिए हाइड्रोजन की संयोजकता '1' है यह आधार है। इसके विपरीत तत्वों की संयोजकता ज्ञात हो तो उसके आधार पर तिर्यक गुणन पद्धति से यौगिक का अणुसूत्र लिख सकते हैं। वह निम्न प्रकार से

**तिर्यक गुणन पद्धति से सरल यौगिकों के अणुसूत्र लिखना**


**चरण 1 :** घटक तत्वों को लिखना।



**चरण 2 :** उस तत्व के नीचे उसकी संयोजकता लिखना।



**चरण 3 :** तीर से दर्शाए अनुसार तिर्यक गुणन करना।



**चरण 4 :** तिर्यक गुणन से प्राप्त हुआ सूत्र लिखना।



**चरण 5 :** यौगिक का अंतिम अणुसूत्र लिखना। अंतिम अणुसूत्र में घटक परमाणुओं की संख्या छोटी-से छोटी और पूर्णांक में हो इसके लिए आवश्यक होने पर चरण 4 के सूत्र को योग्य अंक से भाग करना।

तिर्यक गुणन से प्राप्त सूत्र  $\text{C}_2\text{O}_4$  और 2 से भाग देने पर प्राप्त अंतिम अणुसूत्र  $\text{CO}_2$

संलग्न तालिका में तत्वों की जोड़ियाँ और उनकी संयोजकता दी गई हैं। उनका तर्कसंगत उपयोग करके उन तत्वों की जोड़ियों से बनने वाले यौगिकों के अणुसूत्र अंतिम चौखटों में लिखो।

तत्व	संयोजकता	संबंधित यौगिक का अणुसूत्र
C	4	
H	1	
N	3	
H	1	
Fe	2	
S	2	
C	4	
O	2	



**थोड़ा सोचो।**

1. नीचे दिए गए तत्वों की जोड़ियों से बनने वाले यौगिकों के अणुसूत्र तिर्यक गुणन पद्धति से खोज निकालो।

(i) H (संयोजकता 1) और O (संयोजकता 2), (ii) N (संयोजकता 3) व H (संयोजकता 1), (iii) Fe (संयोजकता 2) व S (संयोजकता 2)

2. H, O और N इन परमाणुओं की संयोजकता क्रमशः 1, 2 और 3 हैं तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन गैसीय तत्वों के अणुसूत्र क्रमशः  $\text{H}_2$ ,  $\text{O}_2$  और  $\text{N}_2$  हैं। इन अणुओं में प्रत्येक में कितने रासायनिक बंध हैं ?

1. उचित पर्याय चुनकर नीचे दिए गए वाक्य पुनः लिखो ।

अ. ठोस के कणों में अंतरआण्विक बल ..... होता है ।

- (i) कम से कम (ii) मध्यम  
(iii) अधिक से अधिक (iv) अनिश्चित

आ. ठोस पर बाह्य दाब देने पर उसका आयतन स्थिर रहता है । इस गुणधर्म को ..... कहते हैं ।

- (i) ढलनशीलता (ii) असंपीड्यता  
(iii) प्रवाहिता (iv) प्रत्यास्थता

इ. द्रव्यों का वर्गीकरण मिश्रण, यौगिक और तत्त्व इन प्रकारों में करते समय ..... इस मापदंड का उपयोग किया जाता है ।

- (i) द्रव्य की अवस्था (ii) द्रव्य की प्रावस्था  
(iii) द्रव्य की रासायनिक संरचना  
(iv) इनमें से सभी

ई. दो या दो से अधिक घटक पदार्थ वाले द्रव्य को ..... कहते हैं ।

- (i) मिश्रण (ii) यौगिक  
(iii) तत्त्व (iv) उपधातु

उ. दूध यह द्रव्य के ..... प्रकार का उदाहरण है ।

- (i) द्रव्य (ii) समांगी मिश्रण  
(iii) विषमांगी मिश्रण (iv) निलंबन

ऊ. पानी, पारा और ब्रोमीन इनमें समानता है क्योंकि तीनों ही .... हैं ।

- (i) द्रवपदार्थ (ii) यौगिक  
(iii) अधातु (iv) तत्त्व

ए. कार्बन की संयोजकता 4 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्बनड़ाय ऑक्साइड इस यौगिक में कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु इनके बीच ..... रासायनिक बंध होते हैं ।

- (i) 1 (ii) 2 (iii) 3 (iv) 4

2. असंगत शब्द पहचान कर स्पष्टीकरण दो ।

अ. सोना, चांदी, ताँबा, पीतल

आ. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाय ऑक्साइड, पानी की वाष्प

इ. दूध, नींबू का रस, कार्बन, इस्पात

ई. पानी, पारा, ब्रोमीन, पेट्रोल

उ. शक्कर, नमक, खाने का सोडा, कॉपर सल्फेट

ऊ. हाइड्रोजन, सोडियम, पोटैशियम, कार्बन

3. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो ।

अ. वनस्पतियाँ सूर्यप्रकाश में क्लोरोफिल (हरितलवक) की सहायता से कार्बनड़ाय ऑक्साइड और पानी इनके द्वारा ग्लूकोज बनाती हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती हैं । इस प्रक्रिया में बनने वाले चार यौगिक कौन-से हैं ? वे पहचानकर उनके प्रकार लिखो ।

आ. पीतल इस मिश्रधातु के एक नमूने में आगे दिए गए घटक हैं : ताँबा (70%) और जस्ता (30%). इसमें विलायक, विलेय और द्रव्य कौन हैं लिखो ।

इ. घुलनशील लवणों के कारण समुद्र के पानी का स्वाद खारा होता है । कुछ जलसंग्रहों की लवणता(पानी में लवणों का अनुपात) इसप्रकार हैं : लोणार सरोवर : 7.9%, प्रशांत महासागर : 3.5%, भूमध्य सागर : 3.8%, मृत सागर : 33.7%. इस जानकारी के आधार पर मिश्रण की दो विशेषताएँ स्पष्ट करो ।

4. प्रत्येक के दो उदाहरण लिखो ।

अ. द्रव अवस्थावाले तत्त्व

आ. गैसीय अवस्थावाले तत्त्व

इ. ठोस अवस्थावाले तत्त्व

ई. समांगी मिश्रण

उ. कलिल

ऊ. सेन्द्रिय यौगिक

ए. जटिल यौगिक

ऐ. असेन्द्रिय यौगिक

ओ. उपधातु

औ. 1 संयोजकतावाले तत्त्व

अं. 2 संयोजकतावाले तत्त्व

5. आगे दिए गए अणुसूत्रों के आधार पर उस-उस यौगिक के घटक तत्त्वों के नाम और संकेत लिखो तथा उनकी संयोजकता पहचानो ।

KCl, HBr, MgBr<sub>2</sub>, K<sub>2</sub>O, NaH, CaCl<sub>2</sub>, CCl<sub>4</sub>, HI, H<sub>2</sub>S, Na<sub>2</sub>S, FeS, BaCl<sub>2</sub>

6. कुछ द्रव्यों की रासायनिक संरचना निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं उसे आधार पर द्रव्यो का मुख्य प्रकार निश्चित करो।

द्रव्य का नाम	रासायनिक संरचना	द्रव्य का मुख्य प्रकार
समुद्र का पानी	$H_2O + NaCl + MgCl_2 + \dots$	
उर्ध्वपातित पानी	$H_2O$	
गुब्बारे में भरी हाइड्रोजन गैस	$H_2$	
LPG सिलेंडर में भरी हुई गैस	$C_4H_{10} + C_3H_8$	
खाने का सोड़ा	$NaHCO_3$	
शुद्ध सोना	Au	
ऑक्सीजन की नलियों में भरी गैस	$O_2$	
काँसा	$Cu + Sn$	
हीरा	C	
कॉपर सल्फेट (नीलाथोथा)	$CuSO_4$	
चूने का पत्थर	$CaCO_3$	
तनु हायड्रोक्लोरिक अम्ल	$HCl + H_2O$	

7. वैज्ञानिक कारण लिखो ।

- हाइड्रोजन ज्वलनशील हैं, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायता करती हैं परंतु पानी आग बुझाने में सहायतक करता है ।
- कलिल के घटक पदार्थ छानने की क्रियाद्वारा अलग नहीं कर सकते ।
- नींबू के सरबत में मीठा, खट्टा, नमकीन ऐसे सभी स्वाद होते हैं और वह गिलास में डाल सकते हैं ।
- ठोस अवस्थावाले द्रव्य में निश्चित आकार और आयतन ये गुणधर्म होते हैं ।

8. नीचे दिए गए तत्वों की जोड़ियों से प्राप्त होनेवाले यौगिकों के अणुसूत्र तिर्यक गुणन पद्धति से प्राप्त करो।

- C (संयोजकता 4) व Cl (संयोजकता 1)
- N (संयोजकता 3) व H (संयोजकता 1)
- C (संयोजकता 4) व O (संयोजकता 2)
- Ca (संयोजकता 2) व O (संयोजकता 2)

उपक्रम :

अलग-अलग तैयार खाद्य पदार्थों के वेष्टन जमा करो । उस पर दी गई जानकारी का उपयोग कर खाद्य पदार्थ व उसके घटक इनकी तालिका बनाओ । जो घटक प्राप्त हो सकते हैं प्राप्त करो । मित्र और शिक्षक इनसे चर्चा करके शिक्षकों की निगरानी में प्राप्त घटकों के ज्वलन का परिक्षण करो और ये घटक सेंद्रिय हैं या असेंद्रिय निश्चित करो ।





## 7. धातु – अधातु



थोड़ा याद करो ।

1. सामान्य रूप से तत्त्वों का वर्गीकरण कौन-से तीन प्रकारों में करते हैं?
2. दैनिक जीवन में हम कौन-कौनसे धातुओं और अधातुओं का उपयोग करते हैं?

विश्व की सभी वस्तुएँ या पदार्थ तत्त्वों, यौगिकों या उनके मिश्रणों से बने होते हैं। वैज्ञानिकों ने तत्त्वों का सामान्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु (धातु सदृश) इस प्रकार से वर्गीकरण किया है।

**धातु (Metals) :** सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम ये कुछ धातुएँ हैं। धातुओं में चमक होती है। वे कठोर होती हैं। उनसे तार या पतली चादरें (पतरे) बना सकते हैं। धातुएँ ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएँ उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का त्यागकर धनावेशित आयन, धनायन अर्थात् केटायन निर्मित करती हैं।

**धातुओं के भौतिक गुणधर्म (Physical Properties of Metals)**

**1. अवस्था (Physical State) :** सामान्य तापमान पर धातुएँ ठोस अवस्था में रहती हैं किंतु पारे तथा गैलियम जैसी कुछ धातुएँ अपवाद हैं, वे कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती हैं।



थोड़ा याद करो ।

तुम्हारे रिश्तेदार के साथ किसी दवाखाने में जाने पर डॉक्टर के पास तुमने रक्तदाबमापक देखा होगा। उसकी काँच की नली में एक धूसर रंग (राख जैसा रंग) का द्रव देखा होगा। वह कौनसी धातु होगी?

**2. चमक (Lustre)(चकाकी) :** तुम्हारे घर के ताँबे के बर्तन लो और उसे नींबू से घिसो और पानी से धोओ, धोने के पहले तथा और धोने के बाद चमक का अवलोकन करो। धातु के घिसे हुए या धातु के ताजे काटे हुए पृष्ठभाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और वह धातु चमकदार दिखाई देती है।

**3. कठोरता (Hardness) :** सामान्यतः धातुएँ कठोर होती हैं। वे नरम नहीं होती। अपवाद सोडियम और पोटैशियम नरम होते हैं उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है।

**4 तन्यता (Ductility) :** क्या तुम स्वर्णकार की दुकान में गए हो? स्वर्णकार को सोने या चाँदी के तार बनाते हुए देखा है क्या? छिद्र में से धातु खींचने पर उसकी तार बनती है। इस गुणधर्म को धातु की तन्यता कहते हैं।

**5. आघातवर्धता (Malleability) :** एक कील लो और उसे चबूतरे पर रखकर हथौड़ी से ठोकते रहो, कुछ समय के पश्चात तुम्हें पतली चादर तैयार होते हुए दिखेगी। इस गुणधर्म को धातु की आघातवर्धता कहते हैं।

**6. ऊष्मा का संचलन (Conduction of Heat) :** ताँबे की एक पट्टी लो उसके सिरे पर मोम लगाओ और दूसरे सिरे को गर्म करो उसका अवलोकन करके शिक्षकों के साथ चर्चा करो। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। चाँदी, ताँबा, एल्युमिनियम ऊष्मा के उत्तम चालक हैं।

**7. विद्युत का संचलन (Conduction of electricity) :** विद्युत के तार बनाने के लिए कौन-कौन-से धातुओं का उपयोग किया जाता है? धातुएँ विद्युत की सुचालक होती हैं। सीसा एक अपवाद है यह ऐसी एकमात्र धातु है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती है।

**8 घनत्व (Density) :** धातुओं का घनत्व अधिक होता है। अपवाद सोडियम, पोटैशियम और लीथियम का घनत्व पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। लीथियम का घनत्व 0.53 g/cc है।

**9. द्रवणांक और क्वथनांक (melting and Boiling points) :** सामान्यतः धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अपवाद Hg, Ga, Na, K।

**10. ध्वन्यात्मकता (Sonority) :** तुम्हारे विद्यालय की घंटी किस धातु की है और वह कैसे कार्य करती है? धातुएँ ध्वन्यात्मक होती हैं।

**अधातु (Non-metals) :** कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस कुछ अधातु हैं। सामान्यतः ठोस अधातु भंगूर होते हैं और उनमें चमक नहीं होती है।

**अधातुओं के भौतिक गुणधर्म (Physical Properties of non-metals) :**

- भौतिक अवस्था (Physical state) :** सामान्य तापमान पर अधातु ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था : C, S, P द्रव अवस्था : Br<sub>2</sub> गैस अवस्था : H<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>
- चमक (Lustre) :** अधातु में चमक नहीं होती है। अपवाद हीरा, आयोडिन के केलास। कुछ अधातु रंगहीन तो कुछ अधातुओं के विविध रंग होते हैं। कार्बन अर्थात् कोयला किस रंग का होता है ?
- भंगूरता (Brittleness) :** कोयला (कार्बन) लो और उसे हथौड़ी से ठोको। क्या होता है, देखो। ठोस अवस्थावाले अधातु भंगूर होते हैं। कुछ अधातु नरम होते हैं। अपवाद हीरा (कार्बन का अपरूप) सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है।
- तन्यता और आघातवर्धता (Ductility and Malleability) :** अधातु तन्य व आघातवर्धनीय नहीं होते हैं।
- ऊष्मा तथा विद्युत का संचलन (Conduction of Heat and Electricity) :** अधातु ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद ग्रेफाइट (कार्बन का अपरूप) विद्युत का उत्तम सुचालक है।
- घनत्व (Density) :** अधातु का घनत्व कम होता है।
- द्रवणांक तथा क्वथनांक (Melting and Boiling point) :** अधातुओं के द्रवणांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। अपवाद कार्बन, बोरॉन ये ठोस अधातु हैं जो उच्च तापमान पर पिघलते हैं।



**इसे सदैव ध्यान में रखो।**

- सोना, चाँदी, एल्युमिनियम ये उत्तम आघातवर्धनीय धातुएँ हैं।
- सोने के 1/10,000 मिलीमीटर मोटाई के पतले पतरे तथा 1/5000 मिमी व्यास के तार बनाए जा सकते हैं।

**उपधातु (Metalloids) :** आर्सेनिक (As), सिलिकॉन (Si), जर्मेनियम (Ge), एन्टीमनी (Sb) जैसे कुछ तत्वों के गुणधर्म धातु और अधातु के बीच के होते हैं, ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं।





**धातुओं के रासायनिक गुणधर्म (Chemical properties of Metals)**

**अ. इलेक्ट्रॉनिक संरूपण :**


इलेक्ट्रॉनिक संरूपण सभी तत्वों के रासायनिक क्रियाओं का आधार होता है। अधिकांश धातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम अर्थात् तीन तक होती है।

तत्व	परमाणु क्रमांक	इलेक्ट्रॉनिक संरूपण
<sub>11</sub> Na	11	2, 8, 1
<sub>12</sub> Mg	12	2, 8, 2
<sub>13</sub> Al	13	2, 8, 3


**आ. आयनों की निर्मिती :** धातुओं में उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्यागकर धनावेशित आयन, धनायन अर्थात् केटायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है।



**इ. ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया :** धातुओं का ऑक्सीजन के साथ संयोग होने से उनके ऑक्साइड निर्मित होते हैं।



धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइडों की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर लवण और पानी निर्मित होते हैं।



ई. अम्ल के साथ अभिक्रिया : अधिकतर धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर धातुओं के लवण निर्मित होते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है।



परखनली लो और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो। बाद में जस्ते का चूर्ण डालो। परखनली के मुँह के पास जलती हुई दियासलाई की तीली ले जाओ। जलती हुई तीली का अवलोकन करो। उससे आवाज आते हुए तुम्हें महसूस होगा।

उ. पानी के साथ अभिक्रिया : कुछ धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस की निर्मिति होती है। कुछ धातुओं की पानी के साथ, तो कुछ की पानी के भाप के साथ अभिक्रिया होती है, उनकी अभिक्रिया का दर भिन्न-भिन्न होती है।

### अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म (Chemical properties of non-metals)

अ. इलेक्ट्रॉनिक संरूपण : अधिकतर अधातुओं के संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक अर्थात् 4 से 7 तक होती है।

तत्व	परमाणु क्रमांक	इलेक्ट्रॉनिक संरूपण
${}_7\text{N}$	7	2, 5
${}_8\text{O}$	8	2, 6
${}_{17}\text{Cl}$	17	2, 8, 7

आ. आयनों की निर्मिति : अधातुओं में उनकी संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन, ऋण-आयन अर्थात् एनायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है।



(2, 8, 7) (2, 8, 8)

क्लोरीन क्लोराइड आयन



(2, 6) (2, 8)

ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन




(2, 5) (2, 8)

नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन

इ. ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया : अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करते हैं।

अधातु + ऑक्सीजन  $\longrightarrow$  अधातु के ऑक्साइड  
अधातु के आक्साइड अम्लीय होते हैं। वे क्षारकों के साथ संयोग करके घुलनशील लवण और पानी निर्मित करते हैं।



अधातुओं के आक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल निर्मित करते हैं।



ई. अधातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होती है।

### धातुओं और अधातुओं के उपयोग



सूची बनाओ और चर्चा करो

हमारे दैनिक जीवन में धातुओं और अधातुओं का कहाँ-कहाँ उपयोग किया जाता है, उनकी सूची तैयार करो।

धातु का नाम	उपयोग	अधातु का नाम	उपयोग



थोड़ा याद करो।

धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करते समय सोने की अथवा चाँदी की सरलतापूर्वक अभिक्रिया नहीं होती, ऐसा क्यों होता है?

**राजधातु (Noble Metal) :** सोना, चाँदी, प्लेटिनम, पेलेडियम और रोडियम जैसी कुछ धातुएँ राजधातुएँ हैं। वे प्रकृति में तत्त्व के स्वरूप में पाई जाती हैं। उनपर हवा, पानी, ऊष्मा का सरलतापूर्वक परिणाम नहीं होता है। उनकी क्षरण तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कमरे के तापमान पर नहीं होती।

### राजधातुओं के उपयोग :

1. सोने, चाँदी और प्लेटिनम का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए किया जाता है।
2. चाँदी का उपयोग औषधियों में किया जाता है। (Anti-bacterial property)
3. सोने, चाँदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं।
4. कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चाँदी, सोने का उपयोग किया जाता है।
5. प्लेटिनम, पेलेडियम इन धातुओं का उपयोग संप्रेरक (Catalyst) के रूप में भी किया जाता है।

**सोने की शुद्धता (Purity of Gold) :** स्वर्णकार की दुकान पर सोने का भाव पूछने पर वे अलग-अलग भाव बताते हैं, ऐसा क्यों?

सोना एक राजधातु है तथा प्रकृति में तत्त्व के स्वरूप में पाया जाता है। 100 प्रतिशत शुद्ध सोने का अर्थ 24 कैरेट सोना। शुद्ध सोना नरम होता है, इस कारण शुद्ध सोने से तैयार किए गए आभूषण दाब के कारण मुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। इस कारण उसमें स्वर्णकार ताँबा या चाँदी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट या उससे कम कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है।

### सोने की शुद्धता : कैरेट तथा प्रतिशत

कैरेट	प्रतिशत
24	100
22	91.66
18	75.00
14	58.33
12	50.00
10	41.66

**क्षरण (Corrosion) :** धातुओं पर नमी के कारण हवा की गैसों की अभिक्रिया होने से धातुओं के यौगिक निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया के कारण धातुओं पर प्रभाव होने के कारण उनका क्षय होता है, इसे ही क्षरण कहते हैं।



### क्या तुम जानते हो ?



अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास समुद्र में स्वतंत्रतादेवी की मूर्ति है। वास्तविक मूर्ति का पृष्ठभाग ताँबे से बनाया गया है, परंतु अब वह हरे रंग की दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि हवा की कार्बन डायऑक्साइड और आर्द्रता की ताँबे के साथ अभिक्रिया होने से हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट निर्मित हुआ है। यह क्षरण का एक उदाहरण है।



### सूची बनाओ तथा चर्चा करो।

तुम्हारे दैनिक जीवन में क्षरण के उदाहरणों की सूची तैयार करो।

लोहे पर ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया होने पर लाल भूरे रंग की परत निर्मित होती है। ताँबे पर कार्बन डायऑक्साइड गैस की अभिक्रिया होने से हरे रंग की परत निर्मित होती है। चाँदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अभिक्रिया होने काले रंग की परत तैयार होती है। धातुओं का क्षरण न हो इसलिए उस पर तेल, ग्रीस, वार्निश व रंगों की परत चढ़ाई जाती है तथा अन्य जंग न लगनेवाली धातुओं का मुलम्मा दिया जाता है। लोहे पर जस्ते का मुलम्मा देकर लोहे का क्षरण रोका जा सकता है। इस क्रिया के कारण धातु के पृष्ठभाग का हवा से संपर्क टूट जाता है फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया घटित न होने के कारण क्षरण नहीं होता है।

**मिश्रधातु (Alloy) :** दो या अधिक धातुओं के अथवा धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रधातु कहते हैं। आवश्यकतानुसार घटक तत्त्वों को विविध अनुपात में मिश्रित करके विविध मिश्रधातुएँ तैयार की जा सकती हैं। उदा. घर में उपयोग में आनेवाले स्टेनलेस स्टील के बरतन, लोहे और कार्बन, क्रोमियम, निकेल से बनी मिश्र धातु है। पीतल नामक मिश्र धातु को ताँबे और जस्ते द्वारा बनाया जाता है। कांसा नामक मिश्रधातु को ताँबे और टिन से बनाते हैं।





### क्या तुम जानते हो?

दिल्ली में कुतुबमीनार परिसर में लगभग 1500 वर्ष पूर्व तैयार किया गया लोहस्तंभ है। इतने वर्ष हो जाने के बाद भी वह स्तंभ आज भी चमकदार है, क्योंकि उसे हमारे पूर्वजों ने मिश्रधातु से निर्मित किया है। उसमें लोहे में अत्यल्प मात्रा में कार्बन सिलिकॉन फास्फोरस मिश्रित किए गए हैं।



### क्या तुम जानते हो?

सस्ती कीमत के स्टेनलेस स्टील को बनाते समय कभी-कभी महँगे निकेल के स्थान पर ताँबे का उपयोग किया जाता है। तुमने कुछ स्टेनलेस स्टील के बरतनों पर खड़ी चीरें देखी होंगी, उसका कारण यह होता है।



### चर्चा करो

तुम्हारे घर कबाड़ (रद्दी वस्तुएँ) ले जाने वाले आते होंगे। वे कबाड़ लेकर क्या करते हैं? और उसकी क्या आवश्यकता है?

## स्वाध्याय

### 1. तालिका पूर्ण करो।

धातु के गुणधर्म	दैनिक जीवन में उपयोग
(i) तन्यता	
(ii) आघातवर्धता	
(iii) ऊष्मा का संचलन	
(iv) विद्युत का संचलन	
(v) ध्वन्यात्मकता	

### 2. समूह में न आने वाला शब्द लिखो।

- अ. सोना, चाँदी, लोहा, हीरा,  
आ. तन्यता, भंगूरता, ध्वन्यात्मकता, आघातवर्धता  
इ. C, Br, S, P  
ई. पीतल, कांसा, लोहा, इस्पात


### 3. वैज्ञानिक कारण लिखो।

- अ. रसोईघर के स्टेनलेस स्टील के बरतनों के नीचे के भाग पर ताँबे का मुलम्मा चढ़ाया जाता है।  
आ. ताँबे और पीतल के बरतनों को नींबू से क्यों घिसा जाता है?  
इ. सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है।

### 4. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो।

- अ. धातुओं का क्षरण न होने देने के लिए तुम क्या करोगे?  
आ. पीतल तथा कांसा ये मिश्रधातुएँ किन-किन धातुओं से बनी होती हैं?  
इ. क्षरण के दुष्परिणाम कौन-से हैं?  
ई. राजधातु के उपयोग कौन-से हैं?

### 5. नीचे जंग लगने की क्रिया दी गई है। इस क्रिया में तीनों परखनलियों का अवलोकन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो।



- अ. परखनली 2 के कील पर जंग क्यों नहीं लगा?  
आ. परखनली 1 के कील पर बहुत जंग क्यों लगा है?  
इ. परखनली 3 के कील पर जंग चढ़ेगा क्या?

### उपक्रम :

मिठाई पर लगाया जानेवाला वर्क कैसे तैयार करते हैं? वर्क किन-किन धातुओं से बनाया गया होता है उसकी जानकारी प्राप्त करो।



JH4A9I

## 8. प्रदूषण



निरीक्षण करो



### 8.1 पर्यावरण की विविध समस्याएँ

1. पर्यावरण में ये समस्याएँ क्यों निर्माण हुई होगी ?
2. इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना होगा ?

मानव का प्रकृति में मुक्त हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी पर अनेक समस्याएँ निर्मित हुई हैं। औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ती जनसंख्या खनन कार्य, परिवहन, कीटकनाशक का और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग इनके कारण पृथ्वीपर प्रदूषण बढ़ गया है। इस प्रदूषण का परिणाम मानव पर भी हो रहा है।

**प्रदूषण (Pollution) :** परिसंस्था को हानिकारक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण का दूषितीकरण अर्थात् प्रदूषण है।



बताओ तो

1. आपके आसपास कहाँ कहाँ प्रदूषण दिखाई देता है ?
2. प्रदूषण किस कारण होता है ?

### प्रदूषक (Pollutants)

परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रूकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक घटकों पर (वनस्पति, प्राणी और मनुष्य) हानिकारक परिणाम करनेवाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण ने अधिक मात्रा में छोड़े जाने पर हानिकारक पर्यावरण विषैला और अस्वस्थ कारक होते हैं।

प्रदूषक प्राकृतिक उसी प्रकार मानवनिर्मित होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक प्रकृति नियमानुसार कालांतर में नष्ट होते हैं, इसके विपरीत मानवनिर्मित प्रदूषक नष्ट नहीं होते।



### 8.2 मेरे बच्चों ! मुझे बचाओ !



विचार करो।

यदि प्राकृतिक पदार्थ यह प्रदूषक होंगे तो उनका उपयोग करने पर उनका दुष्परिणाम हमें क्यों नहीं महसूस होता ? ऐसे पदार्थ प्रदूषक कब बनते हैं ?



करो और देखो।

**कृति :** तुम्हारे परिसर का तुम स्वयं निरीक्षण कर तुम्हारे परिसर में प्रदूषित स्थान कौन-से हैं वे निश्चित करो। उसी प्रकार जहाँ प्रदूषण पाया जाता है। प्रदूषण दिखाई देनेवाले प्रत्येक स्थान से संबंधित प्रदूषणकारी घटक (प्रदूषक) कौन-सा है उसे पहचानने का प्रयत्न करो।



थोड़ा सोचो।

1. कौन-कौन से प्रकार के प्रदूषक पाए जाते हैं ?
2. प्रदूषक विघटनशील होते हैं या अविघटनशील ?

## अ. वायु प्रदूषण

(Air Pollution)



थोड़ा याद करो ।

1. पृथ्वी के ऊपर पाए जानेवाले वातावरण में स्थित विविध प्रकार के गैसों की मात्रा कितनी हैं ? उसका आलेख बनाओ ।
2. हवा यह भिन्न-भिन्न गैसों का/घटकों का समांगी मिश्रण है, ऐसा क्यों कहा जाता है ?
3. ईंधन के ज्वलन से हवा में कौन-कौन सी हानिकारक गैसों बाहर छोड़ी जाती हैं ?

विषैली गैसे, धुआँ, धूल के कण, सूक्ष्मजीव इन जैसे हानिकारक पदार्थों के कारण हवा दूषित होती है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं ।



बताओ तो

निम्न आकृतियों में वायु प्रदूषण किन घटकों के कारण होता है बताओ ।



### 8.3 विविध घटकों के कारण वायु प्रदूषण

#### वायु प्रदूषण के कारण

##### प्राकृतिक कारण

1. **ज्वालामुखी का विस्फोट** : ज्वालामुखी के विस्फोट से ठोसरूपी, गैस रूपी तथा द्रवरूपी पदार्थ बाहर निकलते हैं । उदा. हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फरडाय ऑक्साइड, कार्बनडाय ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, वाष्प, धूलकण आदि ।
2. **भूकंप** : भूकंप के कारण पृथ्वी के भूगर्भ से विषैली गैसों और पानी की वाष्प बड़ी मात्रा में हवा में मिश्रित होती हैं ।
3. **रेगिस्तान और धूलमिश्रित आँधी** : जमीन की धूल, सूखी पत्तियाँ, मिट्टी, परागकण और सूक्ष्मजीव हवा में मिश्रित होने के कारण
4. **दानावल** : दानावल के कारण कार्बन डाय ऑक्साइड, सल्फरडाय ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धूआँ वातावरण में मिलने के कारण ।
5. **सूक्ष्मजीव हवा में मिश्रित होने के कारण** : उदा. घास, कुछ जीवाणु, कवकों के बीजाणु हवा में मिश्रित होने के कारण ।

##### मानवनिर्मित कारण

1. **ईंधनों का उपयोग** : i) पत्थर का कोयला, लकड़ी, एलपीजी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल इनके उपयोग से कार्बन डाय ऑक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाय ऑक्साइड, सीसे के यौगिक हवा में मिश्रित होने से ii) ठोस कचरा, कृषि अवशिष्ट, बगीचे का कचरा खुले में जलाने से हवा का प्रदूषण होता है ।
2. **औद्योगिकीकरण** : 1. अलग-अलग कारखानों से प्रचंड मात्रा में धूआँ बाहर निकलता है 2. गंधक की राख, नायट्रोजन ऑक्साइड, सरकी का चूर्ण वातावरण में मिश्रित होने के कारण ।
3. **परमाणु ऊर्जा निर्माण और परमाणु विस्फोट** : परमाणु ऊर्जा निर्माण में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लुटोनियम इन तत्वों के उपयोग के कारण किरणोत्सर्जन होकर हवा का प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में होता है ।



विचार करो ।

1. ऊपर्युक्त प्रमुख कारणों के अतिरिक्त हवा प्रदूषण होने के कौन-कौन से हैं ?
2. चार स्ट्रोक (Four Stroke) इंजन के वाहनों की अपेक्षा दो स्ट्रोक इंजन के वाहनों से हवा अधिक प्रदूषित होती है। क्या ?

### इंटरनेट मेरा मित्र

1. संसार के बड़े से बड़े ज्वालामुखी विस्फोटकों की जानकारी प्राप्त करो।
2. महाराष्ट्र के बड़े शहरों में और गाँवों में वायु प्रदूषण का मानवी स्वास्थ्य पर कौन-सा परिणाम होता है इसकी जानकारी प्राप्त करो।

### ऐसा हुआ था।

1. लंदन (इंग्लैंड) 5 से 9 डिसेंबर 1952 इस कालावधी में घना कुहरा पड़ा था। उसमें पत्थर के कोयले के ज्वलन से बाहर निकलने वाला धूआँ मिश्रित हुआ था। इस कुहरे की छाया (कहर) 5 दिन तक बनी रही। (इंग्लैंड) लंदन शहर में 3 से 7 डिसेंबर 1962 इस कालावधी तक इसी प्रकार की छाया बनी रही।
2. इ. स. 1948 में पीट्सबर्ग शहर पर धूआँ और धुएँ की कालिमा के कारण दिन में भी रात हुई, उस समय इस शहर को “ काले शहर के नाम से जाना गया।”

क्र.	हवा के प्रदूषक	स्रोत	परिणाम
1	सल्फर डाय ऑक्साईड (SO <sub>2</sub> )	कारखाने (जिस स्थान पर कोयला और खनिज तेल ईंधन का उपयोग होता है।)	आँखों में जलन, श्वसनमार्ग में दाह, अतिरिक्त कफ की निर्मिति, खाँसी, थकान महसूस होना।
2	कार्बन मोनाक्साइड (CO)	वाहन और कारखानों का धूआँ	रक्त में ऑक्सीजन की धारण करने की क्षमता में कमी
3	नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स	वाहनों का धूआँ	फेंफड़े और श्वसन मार्ग में जलन
4	हवा में मिश्रित सूक्ष्म कणरूप पदार्थ	उद्योग और वाहनों का धूआँ	श्वसनरोग
5	धूल के कण	उद्योग और वाहनों का धूआँ	सिलिकॉसिस रोग
6	किटाणुनाशक	किटाणुनाशकों की निर्मिती और उपयोग	मानसिक, दीर्घश्वसन के कारण आकस्मिक मृत्यू
7	मिथेन	कारखानों से होने वाले गैसों का रिसाव	विषबाधा, त्वचा रोग, त्वचा का कैंसर, दमा, श्वसन संस्थान का विकार

### 8.4 हवा प्रदूषक : स्रोत और परिणाम



#### क्या तुम जानते हो ?

2 दिसंबर 1984 की रात में भोपाल में अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना घटित हुई थी। वहाँ घटित दुर्घटना में गैस के रिसाव के कारण करीब-करीब आठ हजार लोगों ने अपने प्राण गवाएँ थे।

भोपाल गैस दुर्घटना की अधिक जानकारी प्राप्त करो और उस आधार पर निम्न मुद्दों पर चर्चा करो। दुर्घटना का स्वरूप, उसका कारण, बाद के परिणाम, प्रतिबंधात्मक उपाय।

#### हवा प्रदूषण का वनस्पति और प्राणी पर होनेवाला परिणाम

##### वनस्पति

1. पर्णरंध्र बंद होते हैं।
2. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी होती है।
3. वनस्पति वृद्धि में रुकावट, पत्तियों का गिरना, पत्तियों का पीला पड़ना।

##### प्राणी

1. श्वसन पर विपरीत परिणाम होता है
2. आँखों में जलन।



#### थोड़ा याद करो।

1. ओजोन की पर्त का क्या महत्त्व है ?
2. ओजोन की पर्त में कमी आने का क्या कारण है ?



## हवा प्रदूषण का वातावरण पर होने वाला परिणाम


**ओजोन पर्त का क्षय/नाश :** समताप मंडल/(stratosphere) इस मंडल के नीचे वाले भाग में पृथ्वी के पृष्ठभाग से 48km ऊँचाई पर ओजोन की सतह पाई जाती है। सूर्य से उत्सर्जित होनेवाली अल्ट्राव्हायलेट किरणों (UV-B) (पराबैंगनी किरणे) से ओजोन गैस की सतह पृथ्वी पर स्थित सजीव सृष्टी का संरक्षण करती है। लेकिन अब इस ओजोन की पर्त को निम्न कारणों से खतरा उत्पन्न हुआ है।

**हरितगृह प्रभाव (पौधा घर प्रभाव) और वैश्विक तापमान में वृद्धि :** CO<sub>2</sub> वातावरण में बिलकुल कम मात्रा में होने के बावजूद भी वह सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को अवशोषित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। पिछले सौ साल में औद्योगिकीकरण के कारण वातावरण की CO<sub>2</sub> की मात्रा में वृद्धि हुई। इस CO<sub>2</sub> का पृथ्वी के तापमान पर होने वाला परिणाम अर्थात 'हरितगृह प्रभाव' है। CO<sub>2</sub> के जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मिथेन गैस और CFC यह पृथ्वी के वातावरण की ऊष्मा रोखकर रखती हैं। एकत्रित रूप से उन्हें "हरितगृह गैसों" कहते हैं।



### 8.5 हरितगृह प्रभाव

बढ़ते हुए हरितगृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके कारण वातावरण में परिवर्तन होकर, जिसके कारण फसलों का उत्पादन, वन्यसजीवों के वितरण में बिगाड़ और हिमनग और हिमनदियाँ पिघलकर समुद्री जलस्तर में वृद्धि दिखाई दे रही हैं।



### 8.6 अम्लीय वर्षा

1. अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की और संग्रहित पानी की अम्लीयता में वृद्धि होती है। जिसके कारण जलचर प्राणी, वनस्पति और पर्यायीरूप से जंगलों के सजीवों को हानि होती है और संपूर्ण परिसंस्था पर इसका विपरीत परिणाम होता है।
2. इमारतें, पुतलों, ऐतिहासिक धरोहर, पूल, धातुओं की मूर्तियाँ और तार के बाढ़ आदि का क्षरण होता है।
3. अम्लीय पर्जन्य (वर्षा) अप्रत्यक्ष रूप से कैंडिमियम और मर्क्युरी (पारा) जैसे भारी धातुओं को बहाकर लेके जाती है, जो वनस्पति द्वारा शोषित होकर भोजन शृंखला में प्रवेश करते हैं।
4. जलाशयों का तथा जलवाहिनियों का पानी अम्ल युक्त होने के कारण तो जलवाहिनियों के धातुओं का और प्लास्टिक का पेयजल में निक्षालन होकर स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

## हवा प्रदूषण पर प्रतिबंधात्मक उपाय

1. कारखानों से बाहर निकलने वाले धुएँ में अनेक प्रकार के दूषित कण पाए जाते हैं। इसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्र का उपयोग अनिवार्य करना। उदा. निरोधक यंत्रणा (Arresters), छन्नक यंत्र (Filters) इनका उपयोग करना।
2. शहरों में दूर्गंधी फैलाने वाले अवशिष्ट पदार्थ का उचित निपटारा करना।
3. परमाणु परीक्षण, रासायनिक हथियार (Chemical missile) इनके उपयोग पर नियंत्रण करना।
4. CFC निर्मिती पर प्रतिबंध लगाना।



### क्या तुम जानते हो?

**हवा की गुणवत्ता (गुणता) का निर्देशांक (Air Quality Index) :** हमारे शहर की हवा कितनी प्रदूषित हुई है, यह बात नागरिकों को मालूम होना आवश्यक है। हवा की गुणवत्ता का निर्देशांक निश्चित करने के लिए हवा में पाए जाने वाले  $SO_2$ ,  $CO$ ,  $NO_2$ , भूपृष्ठ के पास की हवा में पाए जाने वाली ओजोन कणीय पदार्थ आदि गैसे की मात्रा को प्रतिदिन मापा जाता है।

बड़े शहरों में अधिक यातायात वाले मुख्य चौक (भाग) में इसप्रकार के हवा की गुणवत्ता के निर्देशांक दर्शानेवाले फलक लगाए गए हैं।



### क्या तुम जानते हो?

सल्फरयुक्त हवा प्रदूषकों का रंगकाम, तैलचित्र, नायलॉन कपड़ा, सूती कपड़ा, रेयॉन कपड़ा, चमड़े की वस्तुएँ तथा कागज इन पर परिणाम होकर उनके रंगों में परिवर्तन होता है।

## आ. जल प्रदूषण (Water Pollution)



### बताओ तो

1. उपयोग में लाये जानेवाला योग्य पानी हमें कौन-कौन से जल स्रोतों से प्राप्त होता है?
2. पानी का उपयोग हम कहाँ-कहाँ करते हैं?
3. पृथ्वी पर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पानी है ?
4. किन-किन कारणों से जल का प्रदूषण होता है?
5. “जल ही जीवन है” ऐसा क्यों कहा गया है ?

प्राकृतिक और बाह्य घटकों के मिश्रण से पानी जब अस्वच्छ विषैला होता है, जब उसमें की ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जिसके कारण सजीवों को हानि पहुँचती है, संसर्गजन्य रोगों का अन्य संक्रामक रोगों का फैलाव होता है, तब जलप्रदूषण हुआ है ऐसा कहते हैं।

मीठे अथवा समुद्री जल के प्रदूषण में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों का समावेश होता है।



### क्या तुम जानते हो?

तामिलनाडु राज्य में चमड़ा उद्योग के अनेक केंद्र हैं, उसमें से बाहर निकलने वाला दूषित पानी पलार इस नदी में छोड़ा जाता है, जिसके कारण इस नदी को ‘पड़झर’ (गटर नदी) कहते हैं।



### 8.7 जल प्रदूषण

#### जलप्रदूषक (Water pollutant)

अ. जैविक जलप्रदूषक : शैवाल, जिवाणु, विषाणु और परपोषी सजीव इनके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता इन जैविक अशुद्धियों के कारण रोग फैलते हैं।

ब. असेंद्रिय जलप्रदूषक : सूक्ष्म रेत, धूलकण, मिट्टी के कण ऐसे तैरने वाले पदार्थ क्षारों के अवक्षेप असेनिक, कॅडमियम, सीसा, पारा, इनके यौगिकों और रेडियोधर्मी पदार्थों के अवशेष।

क. सेंद्रीय जलप्रदूषक : तणनाशक, कीटकनाशक, खाद (उर्वरक), मैला युक्त जल उसी प्रकार कारखानों के उत्सर्जक आदि।

## जल प्रदूषण के कारण

### अ. प्राकृतिक कारण और परिणाम

- 1. जलपर्णी (Hydrofoil) में वृद्धि**
  - ऑक्सीजन (प्राणवायु) की मात्रा कम होती है।
  - पानी का प्राकृतिक गुणधर्म बदलता है।
- 2. पदार्थों का सड़ना (संदूषित होना)**
  - प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने एवं संदूषण के कारण
- 3. तलछट/अवसाद (Sediment) के कारण**
  - नदी के पानी के प्रवाह के कारण और नदी का पात्र बदलने के कारण।
- 4. मिट्टी का क्षरण (अपरदन)**
  - मिट्टी का क्षरण होने के कारण, अनेक जैविक और अजैविक घटक मिश्रित होते हैं।
- 5. कवक**
  - पानी में सड़ने वाले सेंद्रिय पदार्थों पर फुँदी और जीवाणु की वृद्धि होती है।
- 6. शैवाल**
  - शैवाल की अतिरिक्त वृद्धि होने कारण पानी अस्वच्छ होता है।
- 7. कृमि**
  - मिट्टी में पाए जानेवाले कृमि वर्षा के जल में प्रवाहित होते हैं।

### ब. मानव निर्मित कारण और परिणाम

- 1. निवासी क्षेत्रों का संदूषित पानी**
  - गाँवों का शहरों का संदूषित पानी-मैला नदी के बहते पानी में जलाशय में छोड़ा जाता है।
- 2. औद्योगिक संदूषित पानी**
  - कपड़ा, शक्कर, कागज, लोहा, चर्मोद्योग और दुग्धप्रक्रिया जैसे उद्योगों से रंग, विरंजक रसायन, चमडों के टुकड़े, तंतु, पारा, सीसा इत्यादि पानी में छोड़ दिए जाते हैं।
- 3. खनिज तेल रिसाव -**
  - यातायात के समय तेल का गिरना, रिसाव होना, टँकर की सफाई करते समय पानी पर तेल की पर्त तैयार होती है।
- 4. खाद और किटाणुनाशकों का उपयोग**
  - रासायनिक, फॉस्फेटयुक्त और नायट्रोजयुक्त खाद
  - एड्रिन, क्लोरिन, कार्बोनेटयुक्त कीटनाशक आदि पानी के साथ बहकर प्रवाह को मिलते हैं।
- 8. अन्य कारण**
  - नदी के पानी में मल-मूत्र विसर्जित करना, कपड़े धोना, अंबाड़ी-रामबांस(Agave) पानी में सड़ना आदि के कारण पानी प्रदूषित होता है। अस्थिविसर्जन और निर्माल्य पानी में डालना, औष्णिक विद्युत केंद्र से संदूषित पानी उत्सर्जित करना।

### जल प्रदूषण के परिणाम

#### 1. मानव पर होने वाला परिणाम

- प्रदूषित पानी के कारण अतिसार (पेचिश), पीलिया, विषमज्वर, त्वचारोग, नारू, पाचन संस्थान के विकार होते हैं।
- यकृत, मुत्राशय मस्तिष्क का विकार, अस्थिव्यंग, उच्च रक्तदाब ये विकार होते हैं।

#### 2. परिसंस्था पर होने वाला परिणाम

- वनस्पति के वृद्धि में रूकावट आती है
- वनस्पति प्रजातियों का नाश होता है।
- पानी में लवण (क्षार) की मात्रा बढ़ जाती है।
- पानी में घुलनेवाले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है।
- जल परिसंस्था का संतुलन बिगड़ जाता है।
- जलचरों की मृत्यु होती है।
- समुद्री पक्षियों पर भी इसका परिणाम होता है।

#### 3. अन्य परिणाम

- पानी के प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन।
- पानी का रंग और स्वाद बदलता है।
- पानी के उपयुक्त जीवजंतु नष्ट होते हैं।
- मिट्टी की उर्वरकता पर परिणाम होता है।
- फसलों में विषैले तत्त्व समाविष्ट होते हैं।



## इ. मृदा प्रदूषण (Soil Pollution)



थोड़ा याद करो।

1. मिट्टी का क्षरण (अपरदन) क्या है ?
2. मृदा की ऊपजाऊता कम होने के क्या कारण हैं ?

पृथ्वी पर जमीन के कुल विस्तृत भाग में से कुछ भाग बर्फाच्छादित हैं, कुछ भाग मरूस्थली हैं, तो कुछ भाग पर्वत और पहाड़ों द्वारा घिरा है। मनुष्य के उपयोग के लिए उपयोगी जमीन बहुत ही कम है।

मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आती है, तब मिट्टी का प्रदूषण हुआ है ऐसा कहते हैं। (मृदा प्रदूषण कहते हैं।)



तुलना करो

दिए गए दो चित्रों की तुलना कीजिए।



घरेलु अनुपयोगी पदार्थ, जैविक अनुपयोगी पदार्थ, खेती के अपशिष्ट इनके प्रत्येक के 5 उदाहरण दो और उनका मिट्टी में संचयन के कारण मृदा का कैसे प्रदूषण होता है यह तुम अपने शब्द में लिखो।

“गिला कचरा सुका कचरा,” उसी प्रकार “प्रत्येक घर में शौचालय” इसपर अपने सहपाठीयों के साथ चर्चा कर तुम्हारे शब्दों में जानकारी लिखो।

### मृदा प्रदूषण के परिणाम

1. कारखानों का क्षारयुक्त, अम्लयुक्त पानी, मिट्टी में मिलने से मिट्टी अनुपजाऊ होती है।
2. रेडियोधर्मी पदार्थ और अन्य प्रदूषक मिट्टी में से फसलो, पानी और मानव भोजन शृंखला में से प्रवास करते हैं।
3. मृदा प्रदूषण के कारण जलप्रदूषण का खतरा बढ़ा है कारण विषैले पदार्थ मृदा में से नजदीक के जलस्रोत अथवा रिसकर (Percolate) भूगर्भ जल में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार जीवाणु के कारण विविध रोगों का प्रसार होता है।

### मृदा प्रदूषण का वायु प्रदूषण और जलप्रदूषण के साथ संबंध

गीले कचरे का खाद में रूपांतरण न करके वो उसी स्थान में रहने पर मिट्टी का प्रदूषण होता है और बाद वह सड़ता है, विलगन होता जिससे उसमें हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि होती है, उसमें कृमि तैयार होते हैं और वे बहते पानी में मिलकर पानी का प्रदूषण होता है।

कृषि के लिए कीटकनाशकों का रासायनिक उर्वरकों का तृणनाशकों का उपयोग किया जाता है। जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। कीटकनाशक और तृणनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर उस फव्वारे के कारण वे रसायन हवा में मिलते हैं और वायु प्रदूषण होता है। उसी प्रकार से रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर वे रसायन पानी में मिलते हैं जिससे जल का प्रदूषण होता है।

मानवी मल-मूत्र, जानवर, पक्षी इनकी विष्ठा (मैला) मिट्टी में मिलने के कारण मृदा प्रदूषण होता है। यह गंदगी उस स्थान पर जैसे के वैसे रहने पर उसमें विभिन्न प्रकार की गैसों बाहर निकलती है और दुर्गंध फैलती है। ये गैसे हवा में मिलती हैं और वायु प्रदूषण होता है। यही गंदगी यदि पानी में मिलती है तो जल प्रदूषण होता है।

### प्रदूषण : प्रतिबंध व नियंत्रण

प्रदूषण नियंत्रण और नियमन और उसे रोखने लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कानून (नियम) निम्न प्रकार से हैं।

1. जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1974
2. हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1981
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

जैव वैद्यकीय कूड़ा, धोकादायक (विकीरण) उत्सर्ग, ठोस कचरा (कूड़ा), ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण इन सभी के विषय में विविध नियम और कानून अस्तित्व में हैं। कारखानों, औद्योगिक वसाहतों महानगरपालिकाओं, जिला परिषदों पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों इत्यादि संस्थानों द्वारा ऊपर्युक्त प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नियमों का पालन होता है या नहीं इसपर निगरानी रखने का काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडल और केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडल अथवा शासकीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है।



1. नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं वे किस प्रकार के प्रदूषण में आते हैं, बताओ।

- अ. दिल्ली में दिन में ही कुहरे होने का आभास होता है।  
 आ. गोल गप्पे (पानी पुरी) खाने पर अधिक तर उल्टी और जुलाब की परेशानी होती है।  
 इ. अधिकतर बगीचे में घूमने के लिए जाने पर छींक की परेशानी होती है।  
 ई. कुछ भागों की मिट्टी में फसलों की वृद्धि नहीं होती।  
 उ. अधिक यातायात वाले चौक में काम करने वाले अधिक तर लोगो को श्वसन संबंधी रोग, थकान महसूस होना जैसी परेशानियाँ होती हैं।

2. परिच्छेद पढ़कर उसमें कौन-कौन से प्रदूषण के विविध प्रकार आए हैं और कौन-कौन से वाक्य में आए हैं, उनकी सूची बनाओ।

निलेश शहरी भाग में रहनेवाला और कक्षा 8 वीं में पढ़ने वाला लड़का है। प्रतिदिन वह विद्यालय में बस से जाता है। विद्यालय जाने के लिए उसे एक घंटा लगता है। विद्यालय जाते समय उसे रास्ते में अनेक चार पहिए वाले वाहन, दो पहिए वाले वाहन, रिक्शा, बस इन वाहनों का आवा-गमन लगता है। कुछ दिनों के बाद उसे दमें की परेशानी होने लगी। डॉक्टर ने उसे शहर से दूर रहने के लिए कहा। तब उसकी माँ ने उसे उसके मामा के गाँव में भेजा। निलेश जब गाँव में घूमा तब उसे अनेक स्थानों पर कचरे के ढेर दिखाई दिए। अनेक स्थानों पर प्राणी, मानवीय मल-मूत्र की दुर्गंध आ रही थी। कुछ स्थानों पर छोटी नालियों से दुर्गंध युक्त काला पानी बहते हुए दिखा। कुछ दिनों के बाद उसे पेट के विकार की परेशानी होने लगी।

3. 'अ' व 'ब' स्तंभों की उचित जोड़ी लगाकर प्रदूषित घटकों का मानवी स्वास्थ्य पर कौन-सा परिणाम होता है, स्पष्ट करो।

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>'अ' स्तंभ</b>        | <b>'ब' स्तंभ</b>    |
| 1. कोबाल्टमिश्रित पानी  | अ. मतिमंदत्व        |
| 2. मिथेन गैस            | ब. अर्धांग वायू     |
| 3. सीसा मिश्रित पाणी    | क. फेफडोपर सूजन आना |
| 4. सल्फर डाय ऑक्साइड    | ड. त्वचा का कैंसर   |
| 5. नायट्रोजन डायऑक्साइड | इ. आँखों में जलन    |

4. सत्य की असत्य बताओ।

- अ. नदी के बहते पानी में कपड़े धोने पर पानी प्रदूषित नहीं होता।  
 आ. बिजली (विद्युत) पर चलने वाले यंत्रों का जितना अधिक उपयोग किया जाए उतना अधिक प्रदूषण होता है।

5. निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो।

- अ. प्रदूषण और प्रदूषक किसे कहते हैं ?  
 आ. अम्लपर्जन्य किसे कहते हैं ?  
 इ. हरितगृह परिणाम किसे कहते हैं ?  
 ई. दृश्य प्रदूषक और अदृश्य प्रदूषक कौन से हैं बताओ।

6. निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो।

- अ. तुम्हारे आसपास के परिसर में दिखाई देने वाले वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण प्रत्येक के दो-दो उदाहरण लिखो।  
 आ. वाहनों द्वारा प्रदूषण किसप्रकार होता है। कम से कम प्रदूषण जिसके कारण होता है। ऐसे कुछ वाहनों के नाम बताओ (लिखो)।  
 इ. जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण कौन-से हैं? वे लिखो।  
 ई. वायु प्रदूषण के कोई भी चार प्रतिबंधात्मक उपाय बताओ।  
 उ. हरितगृह प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि इनके संबंध को स्पष्ट करो परिणाम बताओ।  
 ऊ. वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण इन पर दो-दो घोष वाक्य बनाकर लिखो।

7. निम्न प्रदूषकों का मानव निर्मित तथा प्राकृतिक निर्मित इन समूहों में वर्गीकरण करो।

संदूषित पानी, धूल, परागकण, रासायनिक उर्वरक, वाहनों का धुआँ, शैवाल, कीटकनाशक, पशु-पक्षियों की विष्ठा।

उपक्रम :

1. तुम्हारे परिसर में पाए जानेवाले पानी के शुद्धता की जाँच करनेवाले प्रयोगविद्यालय को भेंट दो और पीने के पानी के प्रदूषण की पहचान करने वाली कसौटियों की जानकारी लो।  
 2. तुम्हारे परिसर में सबसे ज्यादा यातायात वाले चौक को भेंट दो और वहाँ भिन्न-भिन्न समय पर महसूस होने वाले वायु प्रदूषण का अनुभव लो और किस समय सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, उसकी जानकारी लिखो।



## 9. आपदा प्रबंधन



**थोड़ा याद करो ।**

1. आपदा से क्या समझते हो ?
2. आपदा के प्रकार कौन से हैं ?

पिछली कक्षा में हमने विविध प्राकृतिक आपदाओं की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है । इस कक्षा में हम भूकंप और दूसरी कुछ प्राकृतिक आपदाओं संबंधी अध्ययन करनेवाले हैं ।



**बताओ तो**

**भूकंप से क्या समझते हो ? भूकंप के कौन-से परिणाम होते हैं ?**

### भूकंप (Earthquake)

भू-कवच में अचानक कंपन होना अथवा भूकवच के अचानक थोड़े क्षण के लिए हिलने को भूकंप कहते हैं । भूकंप के कारण भूपृष्ठ का कुछ भाग आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है इसलिए भूपृष्ठ सरलता से हिलता है ।


भूगर्भ में निर्माण होनेवाले धक्के व लहरें, जमीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठभाग पर सर्व दिशा में फैलते हैं । भूकंप नाभि के ठीक ऊपर, भूपृष्ठ पर स्थित बिन्दु को भूकंप का केन्द्रबिन्दु कहते हैं । तीव्र स्वरूप की लहरें/ धक्के सर्वप्रथम केन्द्र के पास पहुँचते हैं इसलिए वहाँ हानि का अनुपात सबसे ज्यादा होता है ।

भूकंप के धक्के सौम्य अथवा तीव्र दोनों स्वरूप के हो सकते हैं । पृथ्वी पर होनेवाले विध्वंसक भूकंप की अपेक्षा सौम्य भूकंप की संख्या अधिक होती है ।

पृथ्वी पर प्रतिदिन कहीं ना कहीं भूकंप होता है । National Earthquakes information centre के निरीक्षण के अनुसार अपने पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष लगभग 12,400-14000 भूकंप होते हैं । संदर्भ : [www.iris.edu](http://www.iris.edu).) इस आधार पर पता चलता है की, पृथ्वी हमेशा कम या अधिक अनुपात से कंपित होती है ।




9.1 : इमारतों पर पड़ी दरारें



9.2 : भूकंपनाभि और भूकंपकेंद्र

भूकंप की जानकारी संकलित करनेवाले यंत्र को 'सिस्मोग्राफ' अथवा 'सिस्मामीटर' कहते हैं । भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 'रिक्टर पैमाना' इस इकाई का उपयोग करते हैं । यह एक गणितीय इकाई है ।

भूकंप के परिणामों का वर्णन दिया है इस तालिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन करो ।



ऊर्ध्वाधर भूकंपमापक यंत्र

क्षैतिज भूकंपमापक यंत्र

9.3 : भूकंपमापक यंत्र

**इंटरनेट मेरा मित्र:** इंटरनेट की सहायता से 'रिक्टर पैमाना' तथा भूकंप के परिणाम की जानकारी प्राप्त करो ।

भूकंप के कारण	भूकंप के परिणाम
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ज्वालामुखी का विस्फोट</li> <li>2. बड़े बड़े बाँधों का जमीन पर पड़नेवाला तनाव</li> <li>3. खदानों को खोदना ।</li> <li>4. जमीन के अंदर किए जानेवाले परमाणु परीक्षण</li> <li>5. भूपृष्ठ के अंतर्गत भाग से पानी रिसता है तथा जमीन के अंदर प्रचंड ऊष्मा से पानी की भाप बनती है व यह भाप कमजोर पृष्ठभाग से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है तब भूकंप होते हैं ।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मनुष्य के साथ-साथ वन्यजीव व पालतू प्राणियों की भी जीवित हानि होती है ।</li> <li>2. बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है । (बिजली के खंबे, पाइप लाइन, घर, इमारत, रस्ते, लोहमार्ग उद्ध्वस्त होते हैं।)</li> <li>3. जैविक विविधता की हानि होकर परिसंस्था को खतरा होता है ।</li> <li>4. नदियाँ, नाले इनका प्रवाह बदलता है ।</li> <li>5. शहरी भागों में आग लगने की संभावना होती है ।</li> <li>6. समुद्र तल में भूकंप होने पर सुनामी लहरों का निर्माण होकर समुद्र किनारपट्टी पर बड़े पैमाने पर हानि होने की संभावना होती है ।</li> <li>7. भूमिगत जलस्तर ऊपर-नीचे होता है ।</li> </ol>

### भूकंप के बारे में सतर्कता :

#### 1. भूकंप के समय यदि तुम घर में हो, तो

भूकंप का पता चलते ही इधर-उधर न दौड़कर बिना घबराहट उसी जगह पर शांत खड़े रहना चाहिए । जमीन पर बैठ जाओ, टेबल, पलंग किसी भी एक फर्निचर के नीचे स्वयं को छुपा लो और जमीन की हलचल रूकने तक वहीं रूको । तुम्हारे आसपास कोई भी टेबल अथवा डेस्क न हो तो घर के किसी कोणे में नीचे बैठकर दोनों हाथ घुटनों पर रखो, उसमें तुम्हारा चेहरा ढाँक लो।

#### 2. चलते हुए वाहन अथवा घर के बाहर हो तो

सुरक्षित जगह देखकर तुरंत वाहन रोको और तुम भी वाहन के अंदर रूको, बाहर न निकलो, इमारत, वृक्ष, बिजली के तार के पास न रूको ।

#### भूकंप के समय यह मत करो

1. बहुमंजिल इमारत की लिफ्ट का उपयोग न करें । सीढ़ी का उपयोग करें।
2. एक ही जगह पर असुविधाजनक स्थिति में ज्यादा समय तक न बैठे, शरीर की थोड़ी हलचल करें ।
3. भूकंप के बाद बिजली के शार्टसर्किट के कारण आग लग सकती है इससे बचने के लिए घर का मेन स्वीच सावधानीपूर्वक बंद करें । ऐसे समय मोमबत्ती, लालटेन, माचिस का उपयोग न करें, बैटरी/टार्च का उपयोग करें ।

**भूकंपरोधक इमारतें :** जमीन की विशिष्ट सीमा तक हलचल होने से कोई खतरा नहीं होता ऐसी इमारतों के निर्माण कार्य को भूकंपरोधक निर्माण कार्य कहते हैं । इमारतों के निर्माण कार्य के लिए भारतीय, मानक संस्था ने कुछ कोड बनाए हैं । आय.एस.456 के अनुसार से इमारत का निर्माण कार्य किया जाता है । उसी प्रकार भूकंपरोधक निर्माण कार्य के लिए आय.एस.1392 (भूकंपरोधक आरेखन की संरचना के मापदंड) और आय.एस.1392 (भूकंप प्रभाव के संदर्भ में सशक्त क्राँक्रीट संरचना का तानीय विस्तार) का उपयोग किया जाता है । भूकंपरोधक निर्माण कार्य में आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग किया जाता है ।

भूकंप की पूर्वसूचना प्राप्त हो इसके लिए लेसर रेंजिंग, व्हेरी लाँग, बेसलाईन, गायगर कौंटर, क्रीप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाइड गॉज, टिल्ट मीटर, व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन गॉज इनके जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है ।



(अ)



(आ)



(इ)

9.4 : ली जानेवाली सावधानी

## आग (Fire)



थोड़ा याद करो ।

आग यह प्राकृतिक आपदा हैं या मानवनिर्मित ?

### आग के प्रकार (Types of Fire)

1. 'अ' वर्गीय (ठोसरूप पदार्थ) : सामान्यतः ज्वालाग्राही पदार्थ से लगनेवाली आग (जैसे - लकड़ी, कपास, कोयला, कागज इत्यादि), यह ठंडा करके आग बुझाई जाती हैं ।
2. 'ब' वर्गीय आग (द्रवरूप पदार्थ) : ज्वालाग्राही द्रव पदार्थ से लगनेवाली आग । उदाहरण पेट्रोल, तेल, वार्निश, विलायक, रसोई का तेल, रंग इत्यादि । ये पदार्थ पानी की अपेक्षा हलके होते हैं अतः झागवाले अग्निशामक द्वारा आग बुझाई जाती हैं ।
3. 'क' वर्गीय आग (गैस रूप पदार्थ) : एसिटिलीन, घरेलू गैस, (एल.पी.जी. गैस) इत्यादि ज्वलनशील गैसों द्वारा लगनेवाली आग ।
4. 'ड' वर्गीय आग (रासायनिक पदार्थ) : ज्वलनशील धातु से लगनेवाली आग इसमें सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम धातु हैं ये सामान्य तापमान पर पानी के साथ क्रिया करती हैं उसी प्रकार से मैग्नीशियम एल्युमिनियम और जिंक जो उच्च तापमान पर पानी के साथ क्रिया करती हैं । दोनों समूह की धातुएँ जब पानी के साथ संयोग करती हैं तब विस्फोट होता है ।
5. 'इ' वर्गीय आग (इलेक्ट्रीकल) : इलेक्ट्रीकल सामान, फिटिंग के साधनों के कारण लगनेवाली आग, कार्बनड़ाय आक्साइड जैसे आग प्रतिबंधक से बुझाई जाती हैं ।

**आग बुझाने की विधि :** आग फैलने पर उसके नियंत्रण की तीन प्रमुख विधियाँ हैं ।

1. **ठंडा करना :** आग बुझाने के लिए पानी एक प्रभावी साधन है और वह सर्वत्र उपलब्ध होता है । आग पर अथवा आग के आजूबाजू में पानी डालने पर ठंडक का निर्माण होता है और आग पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है ।

2. **आग कम करना :** आग कम करने के लिए तथा विशेषतः तेल के कारण और बिजली के कारण लगी आग को बुझाने के लिए रेत अथवा मिट्टी का उपयोग करना अच्छा होता है । झाग जैसा पदार्थ आग पर फेंकने से उसका उपयोग आग ढँकने के जैसा होता है । यह आग बुझाने की विधि तेल के कारण लगी आग के लिए बहुत उपयुक्त होती है ।

3. **ज्वलनशील पदार्थ अलग करना :** इस पद्धति में ज्वलनशील पदार्थ को ही अलग करना होता है । लकड़ी का सामान अथवा अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को आग के पास से दूर करना चाहिए । तुरंत लगी आग को बुझाने के लिए स्ट्रिप पंप एक सबसे उत्तम साधन है, इस पंप से आग पर सभी ओर से पानी मार कर आग बुझा सकते हैं ।

### सावधानी और सुरक्षात्मक उपाय

1. गैस का रेग्युलेटर जब उपयोग में न हो उस समय, रात को सोते समय और गाँव जाते समय ध्यान से बंद करना चाहिए ।
2. 'आग-आग' ऐसे जोर से चिल्लाकर दूसरों को सावधान करो और मदद के लिए बुलाओ ।
3. अग्निशामक दल को तुरंत फोन कर बुलाओ ।
4. अग्निशामक टंकियों का उपयोग किस प्रकार करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करो ।

**प्रथमोपचार :** घायल व्यक्ति को आरामदायी स्थिति में बैठाएं अथवा सुलाकर रखें व तुरंत डॉक्टर की सहायता ले ।

### पर्वतशिला का गिरना (भूस्खलन) (Land-slide)



थोड़ा याद करो ।

1. पूना जिले की मालीन दुर्घटना के बारे में जानकारी बताओ । उसका क्या परिणाम हुआ ।
2. पर्वत शिला के गिरने का क्या अर्थ है ?



कठोर चट्टानों में प्राकृतिक रूप से पाई जानेवाली दरारें अथवा जगह, यह बड़े चट्टानों के टूटने का कारण होता है। विशेषतः अतिवृष्टि के समय पत्थरों की दरारों, जगहों में पानी जाने से पत्थर का क्षरण होता है जिससे वजन बढ़ता है और इस प्रकार के पत्थर ढलान वाले प्रदेश में लुढ़कते हुए जाकर नीचे स्थिर हो जाते हैं इसे ही पर्वत शिला का गिरना कहते हैं।

### पर्वत शिला गिरने के कारण

1. भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, तूफान, बाढ़ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप भी पर्वत शिलाएँ गिरती हैं।
2. बेशुमार वृक्ष काटने के कारण ही जमीन का क्षरण होता है।
3. पर्वतों तथा घाटियों में रास्तें बनाते समय पर्वत खोदने के कारण पर्वत कमजोर हो जाते हैं व उनके किनारों के पत्थर गिरते हैं।

### पर्वतशिला गिरने के परिणाम :

1. नदियों में अचानक बाढ़ आती है व नदी के मार्ग बदल जाते हैं।
2. जलप्रपात का स्थानांतरण होता है, कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है।
3. पर्वत शिला के गिरने से नीचे लगे वृक्ष भी टूट जाते हैं, ढलान पर हुए निर्माण कार्य भी ढह जाते हैं। ये सब पत्थर, मिट्टी के ढेर, वृक्ष के नीचे सपाट क्षेत्र में गिरते हैं जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर जीवित व आर्थिक हानि होती है।
4. यातायात के मार्ग पर, लोहमार्ग पर पर्वत शिला गिरने से यातायात में बाधा आती है।
5. भूस्खलन होनेपर उसपर लगी वनस्पतियों का जीवन नष्ट होता है।

**आपदा निवारण तथा नियोजन प्रतिकृति :** विद्यालयीन आपदा निवारण के संदर्भ में, नियोजन प्रतिकृति द्वारा आपदा के समय मदद कार्य पहुँचने में सुलभता होती है, इसलिए उसमें नीचे दी गई जानकारी होना आवश्यक है। नीचे एक नमूना तालिका दी गई है उस आधार पर एक तालिका तैयार करो।

प्रमुख मुद्दे	संकलित करने की आवश्यक बातें
विद्यालय की प्राथमिक जानकारी	अ. विद्यालय का पूरा नाम व पता आ. मुख्याध्यापक का पूरा नाम, निवास का पता, संपर्क नंबर इ. विद्यालय संस्थापक और व्यवस्थापक का नाम और संपर्क नंबर ई. कुल कर्मचारी
विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति	अ. अग्निशामक आ. जागृति इ. सूचना ई. यातायात व्यवस्थापन उ. सुरक्षा ऊ. प्रसारमाध्यम समिति इस उपसमिति में प्रत्येक 2-3 सदस्य
इमारत की विस्तृत जानकारी	अ. कुल कमरों की संख्या आ. कक्षाओं की संख्या इ. कक्षा ई. छत के निर्माण का स्वरूप (लकड़ी/पत्रा/सिमेंट) उ. इमारत की उम्र, वर्ष
विद्यालय के मैदान के विषय में जानकारी	अ. विद्यालय परिसर में खुले मैदान का प्रकार, खो-खो, कबड्डी, प्रार्थना और अन्य मैदान की जानकारी आ. मैदान की मुख्य रास्ते से दूरी
विद्यालय की दिनचर्या	अ. विद्यालय शुरू होने का समय, दीर्घ छुट्टी और लघु छुट्टी, विद्यालय के छूटने का समय आ. विद्यालय में दिनभर में लिए जानेवाले विविध उपक्रम
विद्यालय की संभावित दुर्घटनाएँ	अ. संभावित दुर्घटनाओं के नाम और स्वरूप (सामान्य, मध्यम, तीव्र) आ. पहले हुआ नुकसान इ. फिलहाल की गई उपाययोजना
विद्यालय का आपदा प्रबंधन नक्शा	विद्यालय की सर्व इमारतें, उनकी रचना, मैदान प्रवेश द्वार, विद्यालय की संभाव्य दुर्घटनाओं की जगह, आपदा के समय सुरक्षित जगह, नज़दीक का रस्ता, ये सब बातें उसमें बताना आवश्यक हैं। इस नक्शे के बारे में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को जानकारी देकर उसे विद्यालय के प्रवेशद्वार के पास लगाया जाए।
विद्यालय की तैयारी (Mock drill)	विद्यालय की संभावित दुर्घटनाएँ और आपदा के अनुसार विशिष्ट कालावधि में (हर महिने) तैयारी की जाना चाहिए। इस समय उपस्थित विद्यार्थी संख्या, दिनांक, समय और कमियाँ इसकी भी जानकारी नोट करना चाहिए।



### सूची बनाओ और चर्चा करो।

भूस्खलन के कारण यातायात में रूकावटें आने की घटनाएँ महाराष्ट्र में कहाँ-कहाँ घटित होती हैं? ऐसे स्थानों की सूची बनाओ। इन्हीं स्थानों पर ही भूस्खलन क्यों होता होगा? कक्षा में चर्चा को और उपाय बताओ।

## कार्य संस्थाओं के

1. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Centre of Seismology - NCS) केंद्र शासन के भू-विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भूकंप और विविध आपदा में संदर्भ में अनुसंधान का कार्य करती हैं।
2. भूस्खलन के संभावित परिणामों का सुनियोजित अंदाज लेने के लिए भारत सरकार ने इंडियन माउंटनिंग इन्स्टिट्यूट व इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंट इन संस्थाओं द्वारा अनुसंधान कर कार्यक्रम शुरू किया है। भूस्खलन इन्स्टिट्यूट ऑफ जिऑलॉजी व वर्ल्ड जिऑलॉजिकल कोरम इस संस्था की मदद ली जाती है।

## स्वाध्याय

### 1. नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो।

- अ. बहुत समय तक होनेवाली तेज वर्षा और पर्वत शिला का गिरना इनके बीच संबंध और कारण स्पष्ट करो।
- आ. भूकंप आपदा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन सूचनाओं की तालिका बनाओ।
- इ. भूकंपरोधक इमारतों की विशेषताएँ कौन-सी हैं?
- ई. पर्वत शिला गिरने से कौन-कौन से परिणाम होते हैं स्पष्ट करो।
- उ. बाँध और भूकंप इनका कुछ संबंध है क्या इसे स्पष्ट करो।

### 2. वैज्ञानिक कारण लिखो।

- अ. भूकंप के समय पलंग, टेबल जैसी वस्तुओं के नीचे आश्रय लेना अधिक सुरक्षित होता है।
- आ. बारिश के दिनों में पर्वत की तली में आश्रय नहीं लेना चाहिए।
- इ. भूकंप के समय लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- ई. भूकंपरोधक इमारत की नींव बाकी की जमीन के भाग से अलग की जाती है।

### 3. भूकंप आने के बाद मददकार्य करते समय आसपास के लोगों की भीड़ होने से कौन-कौनसी कठिनाइयाँ आएँगी।

### 4. आपदाकाल में मदद करनेवाली संघटनों और संस्थानों की सूची बनाओ। उनके मदद के स्वरूप के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करो ?

### 5. आपदा निवारण प्रतिकृति की सहायता से तुम्हारे विद्यालय का सर्वेक्षण कर मुद्दों के अनुसार जानकारी लिखो।

### 6. तुम्हारे परिसर में पर्वत शिला गिरने की संभावित जगहें हैं क्या? जानकार लोगों से इसकी जानकारी प्राप्त करो।

### 7. नीचे दी गई आकृति की सहायता से आपदा काल में तुम्हारी भूमिका क्या होगी लिखो ?



### उपक्रम :

1. पर्वत शिला का गिरना/भूस्खलन की घटना व उसके कारण हुई हानि इस संदर्भ में समाचार, समाचार पत्रों की कटिंग, छायाचित्रों का संग्रह करो।
2. भूकंप की पूर्वसूचना प्राप्त हो इसके लिए उपयोग में आनेवाले आधुनिक साधन व तंत्रज्ञान इस विषय की इंटरनेट की सहायता से जानकारी प्राप्त करो।
3. NDRF, RPF, CRPF, NCC, , के बारे में इंटरनेटद्वारा जानकारी प्राप्त करो।
4. CCTV की आवश्यकता इस विषय पर चर्चा करो।



## 10. कोशिका तथा कोशिका के अंगक



थोड़ा याद करो ।

1. सजीवों में कितने प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं ?
2. कोशिका का निरीक्षण करने के लिए आपने किस उपकरण का उपयोग किया था ? क्यों और कैसे ?


इससे पूर्व की कक्षाओं में आपने देखा कि कोशिका यह सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है । विभिन्न अंगों में कार्य के अनुसार विभिन्न आकार एवं प्रकारों की कोशिकाएँ पाई जाती हैं ।

### कोशिका रचना (Cell Structure)



निरीक्षण करो

नीचे दी गई आकृतियों का निरीक्षण करके नाम लिखो तथा तालिका पूर्ण करो ।



### 10.1 वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका

घटक	प्राणी कोशिका	वनस्पति कोशिका
कोशिकापटल	है ।	है ।
कोशिका भित्ति	.....	.....
.....	है ।	नहीं है ।
लवक	.....	.....
.....	है ।	है ।
रिक्तिका	.....	.....
गाली पिंड	.....	.....
तंतुकणिका	.....	.....

कोशिका में कार्य किस प्रकार होता है । इसे समझने के लिए हमें कोशिका के प्रत्येक घटक का अध्ययन करना होगा ।


### कोशिका के भाग (Parts of Cell)

1. **कोशिका भित्ति (Cell wall)** : शैवाल, कवक तथा वनस्पति कोशिका के चारों ओर पाई जाती है; प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती । कोशिका भित्ति अर्थात् कोशिका पटल के चारों ओर पाया जाने वाला मजबूत तथा लचीला आवरण । कोशिकाभित्ति मूलतः सेल्यूलोज और पेक्टिन इन कार्बोज पदार्थों से बनी होती है । कुछ कालावधि के बाद आवश्यकतानुसार लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन जैसे बहुलक कोशिका भित्ति में तैयार होते हैं । कोशिका को आधार प्रदान करना, कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को रोककर कोशिका का संरक्षण करना कोशिका भित्ति के कार्य हैं ।
2. **प्रस कला/कोशिका कला (Plasma membrane/Cell membrane)** : यह कोशिका के चारों ओर पाया जानेवाला पतला, कोमल एवं लचीला आवरण है जो कोशिका के घटकों को बाहरी परिवेश से अलग रखता है ।

वसायुक्त द्विवस्त्रों (Phospholipid) के बीच घुले हुए प्रथिन के अणु ऐसी प्रसकला की रचना होती हैं।

प्रसकला कुछ निश्चित पदार्थों को अंदर-बाहर जाने देती हैं; तो कुछ पदार्थों को रोकती हैं; इसलिए इसे 'अर्ध पारगम्य झिल्ली' (selective permeable membrane) कहते हैं। इस गुणधर्म के कारण पानी, नमक, ऑक्सीजन जैसे उपयोगी अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं। तो कार्बनडाइऑक्साइड जैसे वर्ज्य पदार्थ कोशिका के बाहर परागमन करते हैं।

कोशिका के बाहर कुछ परिवर्तन हो तो भी कोशिका के भीतर पर्यावरण एक जैसा रखने का कार्य प्रसकला करती हैं इसे ही 'समस्थिति' कहते हैं।



10.2 कोशिकाभित्ति रचना



### बताओ तो

कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान कैसे होता है?

कोशिका की ऊर्जा का उपयोग कर चलनेवाली प्रक्रियाएँ

#### 1. कोशिकीय भक्षण (Endocytosis)

बाहरी परिवेश से अन्न तथा अन्य पदार्थों का भक्षण करना।


#### 2. कोशिकीय उत्सर्जन (Exocytosis)

वर्ज्य पदार्थ कोशिका के बाहर निष्कासित करना।


कोशिका की ऊर्जा का उपयोग किए बिना चलनेवाली प्रक्रियाएँ

1. विसरण (Diffusion) :  $O_2$ ,  $CO_2$  जैसे छोटे अणुओं का कोशिका में प्रवेश होना/बाहर जाना।


2. परासरण (Osmosis) : पानी के अधिक अनुपातवाले भाग से पानी के कम वाले भाग की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाने वाले पानी के प्रवाह को परासरण कहते हैं। यह भौतिक क्रिया होकर तथा इसके होने की तीन भिन्न भिन्न संभवानाएँ हो सकती हैं।



वनस्पति कोशिका में परासरण



10.3 प्रसकला की रचना



प्राणी कोशिका में परासरण

#### 10.4 परासरण



### खोजो

अ. 4-5 किशमिश पानी में भिगोकर रखो, एक घंटे बाद क्या होता है उसका निरीक्षण को। वही किशमिश शक्कर के द्रव्य में रखो, एक घंटे बाद उसका निरीक्षण करो।

आ. वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे पक्के बैठने के कारण आसानी से नहीं खुलते। ऐसा क्यों होता है?



**अ. समपरासरी (Isotonic) द्रव्य :** कोशिका के परितः रहने वाले पानी का अनुपात कोशिका के भीतर के पानी के बराबर होता है । इसलिए पानी अंदर या बाहर नहीं जाता ।

**ब. अधो परासरी (Hypotonic) द्रव्य :** कोशिका के परितः रहने वाले पानी का अनुपात यह कोशिका के भीतर के पानी की अपेक्षा अधिक होने से बाहरी पानी कोशिका में प्रवेश करता है । इसे अंतःपरासरण (Endosmosis) कहते हैं । उदा. सूखी हुई किशमिश पानी में रखने पर कुछ समय बाद वह फूल जाती है ।

**क. ऊर्ध्व परासरी (Hypertonic) द्रव्य :** कोशिका के भीतर के पानी का अनुपात अधिक तथा कोशिका के परितः माध्यम के पानी का अनुपात कम हो तो पानी कोशिका से बाहर निष्कासित होता है । उदा. फलों के टुकड़ों को शक्कर के पानी में डालने पर उन टुकड़ों का पानी शक्कर के द्रव्य से घुलकर थोड़ी देर बाद वे टुकड़े सिकुड़ जाते हैं । ऊर्ध्वपरासरी द्रव्य में रखने से प्राणी कोशिका या वनस्पति कोशिका के भीतर का पानी बहिःपरासरण (Exosmosis) प्रक्रिया के कारण बाहर निकलता है और कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है । इस प्रक्रिया को जीवद्रव्य कुंचन (Plasmolysis) कहते हैं ।

### 3. कोशिका द्रव्य (Cytoplasm)



**थोड़ा याद करो ।** प्याज के छिलकों में अत्यधिक द्रव से भरी हुई आयताकार कोशिकाएँ क्या आपने देखी हैं ?

प्रसकला और केंद्रक के बीच फैले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं । कोशिका द्रव्य यह चिपचिपा पदार्थ होता है, निरंतर हलचल करता रहता है । इसमें कई कोशिका अंगक बिखरे होते हैं । कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया घटित होने हेतु कोशिका द्रव्य यह एक माध्यम है । कोशिका अंगकों के अलावा कोशिका में 'कोशिका द्रव्य' (Cytosol) भी होता है । कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, जीवनसत्त्व संग्रहित होते हैं । बड़ी केन्द्रीय रिक्तिकाओं के कारण वनस्पति कोशिका में कोशिका द्रव्य यह किनारे की ओर ढकेला हुआ होता है । वनस्पति कोशिका का कोशिका द्रव्य प्राणी कोशिका के कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक कणाकार एवं सघन होता है ।

**कोशिका अंगक (Cell organelles) :** विशेष कार्य करने वाले कोशिका की छोटी इकाइयों को 'कोशिका अंगक' कहते हैं । ये अंगक अर्थात् कोशिका के घटक हैं । प्रत्येक अंगक के चारों ओर प्रथिनयुक्त वसा का आवरण होता है । केंद्रक तथा हरितलवक के अलावा अन्य सभी अंगकों को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है ।

### केंद्रक (Nucleus)




**करो और देखो ।**

**कृति –** स्वच्छ काँचपट्टी पर पानी की एक बूँद लो । आइस्क्रीम के चम्मच से अपने गाल की आंतरिक सतह को खरोंचो । चम्मच पर लगा थोड़ा पदार्थ सुई की नोक पर लेकर काचपट्टी पर रखी पानी की बूँद में फैलाओ । इसपर मेथिलीन ब्लू रंजक की एक बूँद डालो । कवर स्लिप लगाकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे निरीक्षण करो ।

क्या तुम्हें केंद्रक दिखाई दिया ?


प्याज के छिलके की आयोडिन रंजित काँचपट्टी सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखते समय प्रत्येक कोशिका में दिखाई देनेवाला गोलाकार गहरा धब्बा अर्थात् उस कोशिका का केंद्रक है ।



10.5 प्याज की झिल्ली



10.6 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी



### 10.7 केंद्रक

इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर केंद्रक के चारों ओर दोहरा आवरण तथा उस पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों द्वारा केंद्रक के अंदर बाहर पदार्थों का वहन होता है। केंद्रक में एक गोलाकार केंद्रकी (Nucleolus) होती है तथा रंगसूत्रों का जाल होता है। रंगसूत्र यह पतले धागों जैसी संरचनाएँ होती हैं जिसका रूपांतरण कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में होता है। गुणसूत्रों के कार्यात्मक घटकों को जनुक (Genes) कहते हैं।

#### कार्य

1. कोशिका के सभी चयापचय क्रियाओं तथा कोशिका विभाजन पर नियंत्रण रखना।
2. जनुकों द्वारा आनुवांशिक गुणधर्म अगली पिढी में संक्रमित करना।



#### क्या तुम जानते हो?

- रक्त के लाल रक्तकणिकाओं (RBC) के केंद्रक नष्ट होने से हिमोग्लोबिन के वहन हेतु अधिक जगह उपलब्ध होती है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का वहन किया जाता है।
- वनस्पतियों के रसवाहिनी में स्थित चालनी नलिकाओं के केंद्रक नष्ट होने से वे खोखली हो जाती हैं तथा उनसे अन्नपदार्थों का परिवहन आसानी से होता है।

### आंतर्द्रव्यजालिका (Endoplasmic Reticulum)




#### विचार करो।

तुम्हारे ईमारत में कितने प्रकार की पाईपलाईनें हैं? वे कौन-कौन से कार्य करती हैं? वे ना हो तो क्या होगा?

कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थों का वहन करने वाले अंगक को आंतरद्रव्यजालिका कहते हैं। आंतरद्रव्यजालिका अर्थात् तरल पदार्थों से भरी हुई सुक्ष्मनलिका तथा पटल एक दूसरे से जुड़कर बनी हुई जाल जैसी संरचना होती है। आंतरद्रव्यजालिका अंदर से केंद्रक को तथा बाहर से प्रस कला से जुड़ी होती है।

इसके पृष्ठतल पर रायबोझोम्स के कण हो तो उसे रूक्ष आंतर्द्रव्यजालिका कहते हैं।



### 10.8 आंतर्द्रव्यजालिका

#### कार्य

1. कोशिका को आधार प्रदान करनेवाली चौखट।
2. प्रथिनों का परिवहन करना।
3. अन्न, हवा, पानी द्वारा शरीर में प्रवेश करनेवाले विषैले पदार्थों को पानी में घुलनशील करके शरीर से बाहर निष्कासित करना।



#### विचार करो।

- तुम्हारे पसंद की बिस्किट, चॉकलेट्स इनके चारों ओर कौन-से आवरण होते हैं?
- कारखानों का 'पैकिंग विभाग' कौन-सा कार्य करता है?

**गाल्गी काय (गॉल्गी पिंड) – Golgi Complex :** एक दूसरे से समांतर रची हुई 5-8 चपटी, खोखली थैलियों से गाल्गी पिंड बनता है। इन थैलियों को 'पुटिकाएँ' कहते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के प्रकिण्व भरें होते हैं। आंतरद्रव्यजालिका द्वारा संश्लेषित किए हुए प्रथिन गोलीय पीठिकाओं में कैद होते हैं। कोशिका द्रव्य से होती हुई ये पीठिकाएँ गाल्गी काय तक पहुँचती हैं, उसके निर्मितक्षम भाग से संयोग कर द्रव्य गाल्गी काय की पुटिकाओं में भेज दिए जाते हैं।

गाल्गी काय की विभिन्न परतों से गुजरते समय प्रकिण्वों के कारण इन प्रथिनयुक्त द्रव्यों में परिवर्तन होते जाते हैं। ये परिवर्तित प्रथिन पुनः गोलीय पीठिका में बंद होकर गाल्गी काय के दूसरी परिपक्व परत से बाहर चली जाती हैं। अर्थात् कारखानों की वस्तुएँ बाँधकर आगे भेजनेवाले पैकिंग विभाग के जैसा काम पुटिकाओं द्वारा होता है।

#### कार्य

1. गाल्गी पिंड, कोशिका का 'स्राव अंगक' हैं।
2. कोशिका में संश्लेषित हुए प्रकिण्व, प्रथिन, रंगद्रव्य आदि पदार्थों में परिवर्तन करके उनका वर्गीकरण करना, उन्हें कोशिका में या कोशिका के बाहर अपेक्षित स्थानों तक पहुँचाना।
3. रिक्तिकाओं और स्राव पीठिकाओं का निर्माण करना।
4. कोशिका भित्ति, प्रसकला और लयकायिका के निर्माण में मदद करना।

#### लयकायिका (Lysosomes)




#### बताओ तो

खेती काम में निर्माण होनेवाले खरपतवार एवं अन्य कचरे को कंपोस्ट के गड्ढे में डालने पर कुछ दिनों बाद उस कचरे का क्या होता है ?

कोशिका में घटित होनेवाली चयापचय की क्रियाओं में जो वर्ज्य पदार्थ निर्मित होते हैं, उन्हें ठिकाने लगाने वाला संस्थान अर्थात् लयकायिका। लयकायिका यह सामान्यतः इकहरे पटल द्वारा वेष्टित थैली होकर उसमें पाचक रस (प्रकिण्व) होते हैं।

#### कार्य

1. रोगप्रतिकारक प्रक्रिया – कोशिका पर आक्रमण करनेवाले जीवाणु तथा विषाणुओं को नष्ट करती हैं।
2. विध्वंसक दस्ता – जीर्ण तथा कमजोर कोशिका अंगकों, सेंद्रिय मलबा, ये वर्ज्य पदार्थ लयकायिका द्वारा बाहर फेंके जाते हैं।
3. आत्मघाती थैली – जब कोई कोशिका जीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लयकायिका फट जाती है और उनमें स्थित पाचक रस (प्रकिण्व) स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेते हैं।
4. भूखमरी के समय लयकायिका, कोशिका में संग्रहित प्रथिनों और वसा इनका पाचन करती है।




10.9 गॉल्गी पिंड

#### परिचय वैज्ञानिकों का

कॅमिलो गाल्गी इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गाल्गी काय का वर्णन किया है। उन्होंने 'काली अभिक्रिया' इस रंजक तकनीक को विकसित किया और इस तकनीक द्वारा उन्होंने तंत्रिका संस्थान का गहन अध्ययन किया।

'तंत्रिका संस्थान की संरचना' इस अध्ययन के लिए सैंटियागो काजल इस वैज्ञानिक के साथ उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला।



एकहरा-भित्ति आवरण



10.10 लयकायिका

## तंतुकणिका (Mitochondria)



### बताओ तो

आपकी कक्षा के दीप, पंखे उसीप्रकार विद्यालय के संगणक कौनसी ऊर्जा पर कार्य करते हैं ? यह ऊर्जा कहाँ निर्मित होती है ?

प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है । कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम तंतुकणिका करती है । इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर तंतुकणिका द्विवकला आवरण से युक्त संरचना बनी दिखाई देती है ।

तंतुकणिका का बाह्य आवरण छिद्रयुक्त होता है । आंतरिक आवरण की सतह कई मोड़ों (शिखा) में मुड़ी होती है । तंतुकणिका के आंतरिक गुहा में जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसमें रायबोझोम्स, फॉस्फेट के अणु तथा डीऑक्सीरायबो न्यूक्लिक अम्ल (DNA) अणु होने से तंतुकणिकाएँ स्वयं प्रथिनों को संश्लेषित कर सकती है । तंतुकणिका, कोशिका में उपस्थित कार्बोज और वसा का प्रकिण्वों की सहायता से ऑक्सीकरण करती है । इस प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा ATP (अडेनोसाईन ट्राय फॉस्फेट) के रूप में संग्रहित की जाती है । प्राणीकोशिका की अपेक्षा वनस्पति कोशिका में तंतुकणिकाओं की संख्या कम होती है ।

### कार्य

1. ऊर्जा से समृद्ध ATP यौगिकों का निर्माण करना ।
2. ATP में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग कर प्रथिनों, कार्बोज, वसायुक्त पदार्थों का संश्लेषण करना ।



### थोड़ा सोचो ।

तंतुकणिका का आंतरिक आवरण शिखायुक्त होने का क्या लाभ है ?


## रिक्तिका (Vacuoles)

कोशिका के घटक द्रव्यों का संग्रह करने वाला कोशिका अंगक अर्थात रिक्तिका हैं । रिक्तिका का कोई विशिष्ट आकार नहीं होता । कोशिका की आवश्यकतानुसार रिक्तिका का स्वरूप बदलता है । रिक्तिका इकहरे आवरणयुक्त होती है ।

### कार्य

1. कोशिका का जलभिसारक दाब नियंत्रित रखना ।
2. चयापचय की क्रियाओं में उत्पन्न उत्पादों (ग्लायकोजन, प्रथिन, पानी) का संग्रह करना ।
3. प्राणीकोशिका की रिक्तिका वर्ज्य पदार्थों का संग्रह करती है । तो अमीबा की रिक्तिका पाचन के पूर्व खाद्यपदार्थ संग्रहित करती है ।
4. वनस्पति कोशिका की रिक्तिका में कोशिका द्रव भरा होकर वे कोशिका को दृढ़ता तथा कठोरता प्रदान करती है ।

**लवक (Plastids) :** वनस्पतियों की पत्तियों को हरा, तो फूलों को लाल, पीला, केसरी, नीला ऐसे अनेक रंग किस कारण प्राप्त होते होंगे ? ऐसे रंग देने वाला एक अंगक केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है, जो अर्थात लवक हैं । लवक दोहरे आवरणयुक्त रचना होकर दो प्रकार की होती हैं ।



10.11 तंतुकणिका



### क्या तुम जानते हो ?

लाल रक्तकणिकाओं में तंतुकणिका नहीं होती । इसलिए वे कोशिकाएँ जिस ऑक्सीजन का वहन करती हैं, उसका वे स्वयं के लिए उपयोग नहीं करतीं ।



10.12 रिक्तिका



वनस्पति के अवयवों का रंग	रंगद्रव्य
हरा (उदा. पत्ते)	हरितद्रव्य (क्लोरोफिल)
लाल (उदा. गाजर)	कॅरोटिन
पीला	झॅन्थोफिल
जामुनी, नीला	अँन्थोसायनिन
मजींडा (उदा. बीट)	बिटालीन्स
.....	.....

1. अवर्णलवक (सफेद/रंगहीन लवक/Leucoplasts)
2. वर्णलवक (रंगीन लवक/Chromoplasts)

हरितलवक यह वर्ण लवक होकर अन्य प्रकार के वर्ण लवकों में रूपांतरित हो सकते हैं। उदा. कच्चे हरे टमाटरों के पकने के बाद हरितलवक का रूपांतरण लायकोपीन (Lycopene) में होने से टमाटर को लाल रंग प्राप्त होता है।

### हरितलवक (Chloroplast)

**कृति :** क्रोटन/रिओ वनस्पति की पत्ती की ऊपरी पर्त निकालो। उसे काँचपट्टीपर रखो और उसमें स्थित वर्णलवको का संयुक्त सुक्ष्मदर्शी के नीचे निरीक्षण करो।

तुम्हें पता है कि वनस्पतियों की पत्तियों में होने वाली प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रिया के लिए हरितलवक अत्यंत आवश्यक है। हरितलवक सौर उर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण करते हैं।

हरित लवक की पीठिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकिण्व, DNA, रायबोझोम्स और कार्बोज पदार्थ होते हैं।


### लवकों के कार्य

1. हरितलवक सौर ऊर्जा का अवशोषण करके उसका भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं।
  2. वर्णलवको के कारण फूलों तथा फलों को रंग प्राप्त होते हैं।
  3. वर्ण लवक, कार्बोज, स्निग्ध तथा प्रथिन पदार्थों का संश्लेषण तथा संग्रह करते हैं।
- तंतुकणिका और लवकों में DNA तथा रायबोझोम्स होने से ये अंगक स्वयं की प्रतिकृति बना सकते हैं।

कोशिका की संरचना तथा अंगकों का अध्ययन करने के बाद तुम्हें पता चला होगा कि वनस्पति कोशिका और प्राणीकोशिका में पाए जानेवाले अंगकों के कारण कोशिका का कार्य ठीक तरह से चलता है। ऐसी विकसित कोशिकाओं को दृश्यकेंद्रकी कोशिका कहते हैं। पिछली कक्षा में जीवाणुओं के आदिकेंद्रकी कोशिका का अध्ययन किया था। अब इन दोनों प्रकारों की कोशिका का तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले है।

### इंटरनेट मेरा मित्र

फूलों, फलों में पाए जानेवाले और कुछ रंग और उसके लिए जिम्मेदार रंगद्रव्यों की जानकारी इंटरनेट से प्राप्त करो और ऊपर्युक्त तालिका पूर्ण करो।



10.13 हरितलवक

**कार्य संस्थानों के :** राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (National Centre for Cell Science - NCCS) भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करनेवाला स्वतंत्र संस्थान है। इस संस्थान का कार्यालय सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे में है। इस संस्थान द्वारा कोशिका विज्ञान में संशोधन, राष्ट्रीय प्राणी कोशिका के संग्रह के लिए सेवा देने का प्रमुख कार्य तथा कैंसर जैसे रोगों के उपचार से संबंधी संशोधन कार्य किए जा रहे हैं।

दृश्यकेंद्रकी कोशिका	आदिकेंद्रकी कोशिका
<ul style="list-style-type: none"> <li>● आकार - 5-100 मायक्रोमीटर</li> <li>● गुणसूत्र संख्या - एक से अधिक</li> <li>● केंद्रक - केंद्रकपटल, केंद्रकी और केंद्रकद्रव्य युक्त सुस्पष्ट केंद्रक होता है।</li> <li>● तंतुकणिका, लवक - होते हैं।</li> <li>● उदाहरण - उच्चविकसित एककोशिकीय और बहुकोशिकीय वनस्पति एवं प्राणियों में पाई जाती हैं।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1-10 मायक्रोमीटर</li> <li>● एक ही</li> <li>● केंद्रकसदृश केंद्रकाभ होता है।</li> <li>● आवरणयुक्त अंगक नहीं होते।</li> <li>● जीवाणु</li> </ul>

## स्वाध्याय

### 1. मुझे पहचानो।

- अ. मैं ATP निर्माण करने वाला कारखाना हूँ।  
 आ. मैं इकहरे आवरण युक्त हूँ फिर भी कोशिका का जलभिसारण दाब नियंत्रित रखता हूँ।  
 इ. मैं कोशिका को आधार प्रदान करता हूँ। पर मैं कोशिकाभित्ति नहीं हूँ। मेरा शरीर तो जालीजैसा है।  
 ई. मैं कोशिका का जैसे रसायन कारखाना।  
 उ. मेरे कारण ही तो पत्तियाँ हरी हैं।

### 2. तो क्या हुआ होता ?

- अ. लाल रक्त कणिकाओं में तंतुकणिकाएँ होतीं।  
 आ. तंतुकणिका और लवकों में अंतर नहीं होता।  
 इ. गुणसूत्रों पर जनुक नहीं होते।  
 ई. झिल्ली अर्धपारगम्य ना होती।  
 उ. वनस्पति में अन्थोसायानिन न होता।

### 3. हम में अलग कौन? कारण बताओ।

- अ. केंद्रकी, तंतुकणिका, लवक, आंतरद्रव्यजालिका  
 आ. DNA, रायाबोझोम्स, हरितलवक

### 4. कार्य लिखो।

- अ. कोशिका कला  
 आ. कोशिका द्रव्य  
 इ. लयकायिका  
 ई. रिक्तिका  
 उ. केंद्रक

### 5. मेरा रंग किसके कारण? (अचूक पर्याय चूनो)

- अ. लाल टमाटर 1. क्लोरोफिल/हरितलवक  
 आ. हरी पत्ती 2. कैरोटिन  
 इ. गाजर 3. अन्थोसायानिन  
 ई. जामून 4. लायकोपीन

### उपक्रम :

1. विभिन्न पर्यावरण स्नेही वस्तुओं का उपयोग कर कोशिका की प्रतिकृति तैयार करो।
2. कक्षा में अपने मित्रों का एक समूह बनाओ। कोशिका के प्रत्येक अंगक की भूमिका प्रत्येक को दो और नाटिका तैयार करके कक्षा में प्रस्तुत करो।
3. पार्चमेंट कागज या उसके जैसे कागज का उपयोग करके परासरण का अध्ययन करो।



### कोशिका अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री



## 11. मानव शरीर और अंग संस्थान



### थोड़ा याद करो ।

1. अंग और अंग संस्थान किससे बने होते हैं ?
2. मानव शरीर में कौन-कौन से अंग संस्थान हैं ?

पिछली कक्षा में तुमने सजीवों की कुछ विशेषताएँ / लक्षणों का अध्ययन किया है। सजीवों के लक्षणों को प्रमुख रूप से करने वाले सभी जीवनावश्यक प्रक्रियाओं को जीवनप्रक्रिया (Life processes) कहते हैं।



### बताओ तो

1. हम जब गहरी नींद में होते हैं तब हमारे शरीर में कौन-से कार्य चल रहे होते हैं ?
2. हमारे शरीर में कौन-कौनसी जीवनप्रक्रियाएँ निरंतर चलती रहती हैं ?

हमारे शरीर में जीवनप्रक्रिया सुचारू रूप से चलने के लिए कई इंद्रिया सामुहिक रूप से कार्य करती हैं। इन जीवनप्रक्रियाओं के भिन्न भिन्न सोपान होते हैं। विशिष्ट सोपानों पर विशिष्ट अंगों द्वारा सुचारू रूप से कार्य होते रहता हैं। निश्चित कार्य सामूहिक रूप से करनेवाले अंग समूह को अंग संस्थान कहते हैं। हमारे शरीर में पाचनसंस्थान, श्वसन संस्थान, रक्तपरिवहन संस्थान, तंत्रिका संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, प्रजनन संस्थान, अस्थि संस्थान, पेशीय संस्थान ऐसे कई अंग संस्थान कार्यरत तंत्र हैं।



### थोड़ा याद करो ।

प्राणियों के शरीर में श्वासोच्छ्वास का कार्य कौन-कौनसे अंग करते हैं ?

मानव शरीर की सभी जीवनप्रक्रियाएँ सुचारू रूप से चलने के लिए ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ऊर्जानिर्मिती कोशिका में होती है। जिसके लिए कोशिका को घुलनशील अन्न घटक एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी पड़ती है। यह कार्य श्वसन संस्थान तथा रक्तपरिवहन संस्थान द्वारा किया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया आगे दिए तीन चरणों में होती है।

### 1. बहिःश्वसन / बाह्यश्वसन :


(अ) निःश्वास – नाक के द्वारा हवा अंदर ली जाती है जहाँ से वह श्वसननलिका द्वारा दोनों फेफड़ों में जाती है।

(ब) उच्छ्वास (श्वास छोड़ना) – फेफड़ों में ली हुई हवा की ऑक्सीजन रक्त में जाती है। रक्त शरीर का  $CO_2$  फेफड़ों में पहुँचाता है और वो हवा उच्छ्वास द्वारा बाहर फेंकी जाती है।

फेफड़ों के माध्यम से होने वाले इन दोनों क्रियाओं को एकत्रित रूप से बहिःश्वसन कहते हैं।

2. अंतःश्वसन : शरीर की सभी कोशिकाओं और रक्त में होनेवाले गैसों के आदान प्रदान को अंतःश्वसन कहते हैं। रक्त से  $O_2$  कोशिकाओं में जाता है तथा कोशिकाओं से  $CO_2$  रक्त में आता है।

3. कोशिका श्वसन : ऑक्सीजन के कारण कोशिका में ग्लूकोज जैसे घुलनशील घटक का मंद ज्वलन होकर ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। उसीप्रकार  $CO_2$  और जलवाष्प यह निरूपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। निम्न समीकरण की सहायता से कोशिकीय श्वसन को सारांश रूप में स्पष्ट किया जाता है।



### थोड़ा सोचो ।

अमीबा, केंचूआ, तिलचट्टा, वनस्पति, विविध जलचर प्राणी, पक्षी किस की सहायता से श्वसन करते हैं ? इसकी सारणी बनाओ।



### विचार करो ।

ईंधन के ज्वलन से ऊष्मा के साथ साथ ध्वनि और प्रकाश निर्मित होता है, इसी प्रकार कोशिका में अन्न घटकों का ज्वलन होते समय ध्वनि और प्रकाश की निर्मिति होती होगी क्या ?



### बताओ तो

1. श्वसन संस्थान में कौन कौन से अंगों का समावेश होता है ?
2. खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों ?

## श्वसन संस्थान (Respiratory system) : रचना और कार्य

1. **नाक (Nose)** : श्वसन प्रक्रिया की और श्वसनसंस्थान की शुरूआत नाक से होती है। नाक में स्थित बालों के और चिपचिपे पदार्थ की सहायता से हवा छनकर अंदर ली जाती है।

2. **ग्रसनी (Pharynx)** : ग्रसनी से आहारनाल तथा श्वसननलिका की शुरूआत होती है। श्वसननलिका आहारनाल के आगे होती है। श्वसननलिका के ऊपरी भाग में एक ढक्कन होता है। आहारनाल में भोजन के कण जाते समय इस ढक्कन के कारण श्वसननलिका ढँक दी जाती है। जिससे श्वसननलिका में भोजन के कण प्रवेश नहीं करते। अन्य समय में श्वसननलिका खुली होती है। जिससे हवा ग्रसनी से होकर श्वसन नलिका में जाती है।


3. **श्वसननलिका (Trachea)** : श्वसननलिका का शुरूआती हिस्सा स्वरयंत्र के कारण फूला हुआ होता है। वक्ष में श्वसननलिका दो शाखाओं में विभाजित होती है। एक शाखा दाँए फेंफड़ों की ओर और दूसरी बाँए फेंफड़ों की ओर जाती है।

4. **फेंफड़े (Lungs)** : वक्ष की गुहा में हृदय के दाँए और बाँए भाग में एक-एक फेंफड़ा होता है। वक्ष के गुहा का बहुतसा हिस्सा फेफड़ों से घिरा होने के कारण हृदय का पृष्ठभाग उसके द्वारा ढक जाता है। प्रत्येक फेफड़ों पर द्विस्तरीय आवरण होता है। जिसे फुफ्फुसावरण (Pleura) कहते हैं। फेफड़ें स्पंज की भाँति प्रत्यास्थ होते हैं। फेफड़ें छोटे-छोटे कुप्पियों से बने होते हैं जिन्हें वायुकोश कहते हैं। वायुकोश के चारों ओर केशवाहिनीओं का घना जाल होता है।


वायुकोश का आवरण काफी झिरझिरा होता है उसी प्रकार केशवाहिनीओं का आवरण भी बहुत पतला होता है। इस पतले आवरण से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। फेफड़ों में स्थित असंख्य वायुकोशों के कारण गैसों के आदान प्रदान हेतु बहुत विस्तृत पृष्ठभाग उपलब्ध होता है।

**फेफड़ों में होनेवाला गैसों का आदानप्रदान** : फेफड़ों के वायुकोशों के चारों ओर रक्त प्रवाहित होते समय गैसों का निरंतर आदानप्रदान होते रहता है। रक्त की लाल कोशिकाओ (RBC) में हिमोग्लोबिन यह लोहयुक्त प्रथिन होता है। वायुकोशों में आनेवाली हवा की ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित की जाती है। उसी समय  $CO_2$  और जलवाष्प रक्त से वायुकोश में जाते हैं और वहाँ की हवा में घुल जाते हैं। ऑक्सीजन रक्त द्वारा लिया जाता है।  $CO_2$  तथा जलवाष्प रक्त से बाहर निकाले जाते हैं और उच्छ्वास द्वारा बाहर छोड़ दिए जाते हैं।


5. **श्वासपटल (मध्यपटल)(Diaphragm)** : पसलियों से बने छाती के पिंजड़े के निचले भाग में पेशियों से बना एक परदा होता है। इसे श्वासपटल कहते हैं। श्वासपटल यह उदर गुहा और वक्ष गुहा के मध्य स्थित होता है। पसलियों का थोड़ा ऊपर उठना और श्वासपटल का नीचे जाना ये दोनों क्रियाएँ एक साथ होने से फेफड़ों पर का दाब कम हो जाता है। जिससे बाहर की हवा नाक द्वारा फेफड़ों में जाती है। पसलियाँ अपने मूल स्थानपर आने से और श्वसनपटल फिरसे ऊपर उठाए जाने से फेफड़ों पर दाब पडता है। उनमें स्थित हवा नाक से होकर बाहर ढकेली जाती है। श्वासपटल का निरंतर ऊपर और नीचे होने की हलचल श्वासोच्छ्वास की क्रिया के लिए आवश्यक होती है।



श्वसन संस्थान



वायुकोश




11.1 मानवी श्वसनसंस्था और वायुकोश





## निरीक्षण करो तथा चर्चा करो ।

श्वसन क्रिया होते समय छाती के पिंजड़े के निचले भाग में होनेवाली हलचल का निरीक्षण करो और चर्चा करो ।



## 11.2 श्वसनक्रिया और हलचल




## थोड़ा याद करो ।

1. रक्त परिसंचरण अर्थात क्या है ?
2. रक्त परिसंचरण संस्थान में कौन कौन से अंगको का समावेश होता है ?

## रक्त परिसंचरण संस्थान (Blood circulatory system)


शरीर के विभिन्न अंगों में पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, घुलनशील अन्नघटक, वर्ज्यपदार्थ जैसे विभिन्न पदार्थों का वहन रक्तपरिसंचरण संस्थान करता है । मनुष्य और उच्च वर्ग के प्राणियों में रक्तपरिसंचरण के लिए स्वतंत्र संस्थान होता है । रक्त परिसंचरण संस्थान में हृदय, रक्तवाहिनियाँ और केशवाहिनीओं का समावेश होता है ।




## हृदय – संरचना और कार्य

छाती के पिंजड़े के लगभग मध्यभाग में हृदय होता है । वह पसलियों के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच और उसके बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ होता है । हमारे हृदय का आकार हमारी मुट्ठी के बराबर होता है और वजन लगभग 360 ग्राम होता है । हमारे हृदय के चारों ओर द्विस्तरीय हृदयावरण होता है । हृदयावरण के इन दो स्तरों में एक द्रवरूप पदार्थ होता है, जिससे घर्षण से तथा धक्कों से हृदय का संरक्षण होता है ।

मानवी हृदय यह एक स्नायुमय, मांसल अवयव है । हृदय यह हृदपेशी से बना होता है । हृदय की पेशियाँ अनैच्छिक होती हैं । उनका संकुचन एवं शिथिलन एक निश्चित ताल में होता है इसी को हृदय का स्पंदन कहते हैं । हृदय के आंतरिक उर्ध्वा परदे के कारण दायीं और बायीं ऐसे दो भाग हो जाते हैं । इन दोनों भागों के पुनः दो-दो कक्ष होते हैं । इस प्रकार हृदय के चार कक्ष होते हैं । ऊपरी कक्षों को अलिंद तथा निचले कक्षों को निलय कहते हैं ।




## 11.3 हृदय रचना और रक्तपरिसंचरण



**रक्तवाहिनियाँ – संरचना एवं कार्य :** हृदय का निरंतर स्पंदन चलता रहता है । जिससे रक्तवाहिनियों में भी निरंतर रक्त प्रवाहित होते रहता है । रक्तवाहिनियाँ मुख्य रूपसे दो प्रकार की होती हैं (1) धमनी (2) शिरा ।

**धमनी :** हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर रक्त ले जानेवाली रक्तवाहिनियों को धमनियाँ कहते हैं । फुफ्फुस धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियों से ऑक्सीकृत रक्त (शुद्ध रक्त) प्रवाहित किया जाता है । धमनियाँ शरीर में गहराई तक स्थित होती हैं इसकी भित्ति मोटी होती है । इनकी गुहाओं में कपाट नहीं पाए जाते ।


**शिरा :** शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर लाने वाली रक्तवाहिनियों को शिराएँ कहते हैं । फुफ्फुस शिराओं को छोड़कर अन्य सभी शिराओं में से अनाक्सिकृत रक्त (कार्बनडाय ऑक्साइडयुक्त) प्रवाहित किया जाता है । सामान्यतः शिराएँ त्वचा की सतह के पास स्थित होती हैं । इसकी भित्ति पतली होती है । उसी प्रकार इनके गुहाओं में जाते हैं ।



11.4 धमनी तथा शिरा की रचना

### ऐसा हुआ था...

ई.स 1628 में विल्यम हार्वे इस ब्रिटिश डॉक्टरने, शरीर में रक्तपरिसंचरण क्रिया किस प्रकार होती है, उसका वर्णन किया था । हमारा हृदय अर्थात एक पेशीयुक्त पंप है । इस पंपद्वारा हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण होता है। ऐसा सिद्धांत रखा । रक्तवाहिनियों में स्थित कपाटों का कार्य किस प्रकार चलता है, इसकी खोज हार्वे इन्होंने की ।



11.5 केशवाहिनियाँ



### विचार करो ।

शिराओं में कपाट किसलिए होते हैं ? कपाट नहीं होते तो क्या होता ?

### केशवाहिनी (केशिकाएँ) (Capillaries)

शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर धमनियाँ अधिक महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं । उनका व्यास छोटा-छोटा होकर वे बालों जैसी पतली दिखाई देती हैं । उन्हें केशिका कहते हैं । केशिका काफी महीन और पतली भित्ति वाली नलिकाएँ हैं । केशिकाओं की भित्ति पतली होने के कारण केशिका और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदानप्रदान आसानी से होता है । इस आदान प्रदान में रक्त की ऑक्सीजन, अन्नघटक, संप्रेरक और जीवनसत्व कोशिकाओं में घुल जाते हैं । उसी समय कोशिका के वर्ज्य पदार्थ रक्त में आते हैं । केशिकाएँ एक दूसरे से जुड़कर अधिक व्यासवाली वाहिनियाँ बनाती हैं । जिन्हें हम शिरा कहते हैं । प्रत्येक अंगों में केशवाहिनियों का जाल सा फैला होता है ।



### क्या तुम जानते हो ?

सामान्यतः निरोगी मनुष्य के हृदय के प्रतिमिनट 72 स्पंदन होते हैं । व्यायाम करने या काम करने से उसी प्रकार मन में निर्माण होनेवाली भावनाओं के कारण हृदय के स्पंदन बढ़ जाते हैं । उसी प्रकार ऐसा दिखाई दिया है कि मनुष्य आराम करते समय या सोते समय स्पंदन कम हो जाते हैं । छोटे बालकों में हृदय के स्पंदनों की संख्या अधिक होती है ।

हृदय का स्पंदन होते समय दो प्रकार की आवाजें आती हैं । जिसमें से एक आवाज का वर्णन 'लब्ब' तो दूसरे आवाज का वर्णन 'डब्ब' ऐसा करते हैं । हृदय प्रत्येक स्पंदन में 75 मिलिलीटर रक्त आगे ढकेलता है ।

## हृदय में परिसंचरण/हृदय का कार्य

हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की ओर रक्त पहुँचाने की और वहाँ से पुनः हृदय की ओर लाने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। रक्त निरंतर प्रवाहित होते रहने के लिए हृदय का एकान्तरित रूप से संकुचन एवं शिथिलन का कार्य निरंतर चलता रहता है। हृदय का लगातार एक संकुचन और एक शिथिलन मिलकर हृदय का एक स्पंदन होता है।



### करो और देखो।

**सामग्री :** बारीक छिद्र वाली दो फूट लंबी रबर की नली, घड़ी, कीप

1. रबर के नली के एक सिरेपर कीप जोड़ो।
2. कीप का खुला भाग अपने वक्ष के बाईं ओर रखो।
3. नली का दूसरा सिरा हृदय की आवाज सुनने के लिए कान के पास रखो।
4. घड़ी की सहायता से एक मिनट में होनेवाले हृदय के स्पंदन को नोट करो।



### विचार करो।

**नाडी का स्पंदन :** हृदय के स्पंदन और हाथ की नाडी के स्पंदन इनके बीच सहसंबंध खोजो।



### बताओ तो

1. कान के पीछे या पैरों की एड़ियों के ऊपरी भाग में भी स्पंदन महसूस किए जाते हैं, ये स्पंदन किसके कारण होते हैं ?
2. ऊँगली कटने पर या कहीं पर भी जखम होने पर क्या बहता है ?

## रक्त (Blood)

रक्त यह लाल रंग का एक प्रवाही पदार्थ है। रक्त यह तरल संयोजी ऊतक है। ऑक्सीकृत रक्त का रंग गहरा लाल होता है और स्वाद नमकीन होता है, तथा (pH) मान 7.4 होता है। रक्त दो प्रमुख घटकों से बना है।

रक्तद्रव (Plasma)	रक्तकणिका / रक्तकोशिका (Blood corpuscles / cells)
<p>अ. रक्तद्रव हल्के पीले रंग का, पारदर्शक क्षारीय गुणधर्म वाला द्रव है। इसमें करीब 90 से 92% पानी, 6 से 8% प्रथिन, 1 से 2% अकार्बनिक घटक एवं अन्य घटक होते हैं।</p> <p>ब. अल्ब्युमिन - पूरे शरीर में पानी विभाजित करने का कार्य करता है।</p> <p>क. ग्लोब्युलीन्स - संरक्षण का कार्य करते हैं।</p> <p>ड. फायब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बीन रक्त जमने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं।</p> <p>इ. अकार्बनिक आयन-कैल्शियम, सोडियम, पोटैशियम ये तंत्रिका और पेशीकार्यों पर नियंत्रण रखते हैं।</p>	<p><b>1. लाल रक्त कणिकाएँ (RBC)</b> आकार में छोटी, वृत्ताकार, केंद्रक विहीन कोशिकाएँ हैं। इन कोशिकाओं में स्थित हिमोग्लोबिन इस घटक के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। हिमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन रक्त में घुल जाता है। - रक्त के प्रति घनमिलीमीटर में 50-60 लाख RBC होते हैं। RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और वे लगभग 100 से 127 दिनों तक जीवित रहते हैं।</p> <p><b>2. श्वेत रक्तकणिकाएँ (श्वेत पेशी) (WBC)</b> आकार में बड़ी, केंद्रकयुक्त, रंगहीन कोशिकाएँ हैं। रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में 5000-10,000 श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। - इन कोशिकाओं के 5 प्रकार हैं - बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स - श्वेत कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कार्य - श्वेत कणिकाएँ हमारे शरीर में सैनिक का काम करती हैं। शरीर में कहीं पर भी रोग जंतुओं का प्रवेश होने पर श्वेत कणिकाएँ उनपर हमला करती हैं। सुक्ष्मजीवों द्वारा होनेवाले रोगों से सुरक्षा करती हैं।</p> <p><b>3. रक्तपट्टिका (Platelets)</b> - ये बहुतही छोटी और तश्तरी के आकारवाली होती हैं। - रक्त के एक घन मिलीमीटर में लगभग 2.5 लाख से 4 लाख होती हैं। कार्य - ये रक्त जमने की क्रिया में भाग लेती हैं।</p>

### रक्त के कार्य

1. **गैसों का परिवहन** : फेफड़ों में स्थित ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों की कोशिकाओं तक प्रवाहित किया जाता है। उसी प्रकार ऊतकों से फेफड़ों में  $CO_2$  लाया जाता है।
2. **पोषक तत्वों का परिवहन (कोशिकाओं को भोजन पहुँचाना)** : आहारनाल के भित्ति में से ग्लूकोज, अमिनो अम्ल, वसायुक्त अम्ल, जिनका पाचन हो चुका है ऐसे सरल पोषक तत्व रक्त में लिए जाते हैं और वे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाएँ जाते हैं।
3. **वर्ज्य पदार्थों का परिवहन** : यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनीन आदि नाइट्रोजनयुक्त वर्ज्य पदार्थ ऊतकों से रक्त में इकट्ठा किए जाते हैं। बाद में ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित करने के लिए रक्तद्वारा वृक्कों की ओर ले जाए जाते हैं।
4. **शरीर रक्षण** : रक्त में प्रतिरक्षी का निर्माण होने से सुक्ष्मजीवों और अन्य हानिकारक कणों से शरीर का संरक्षण करते हैं।
5. **प्रकिण्व तथा संप्रेरको का परिवहन** : प्रकिण्वों तथा संप्रेरको का उनके स्रवण वाले स्थान से, उनकी अभिक्रियावाले स्थान तक प्रवाहित करने का कार्य रक्त द्वारा होता है।
6. **ताप नियमन** : वाहिनियों के उचित विस्फारण (dilation) एवं संकुचन के कारण शरीर का तापमान  $37^\circ C$  बना रहता है।
7. शरीर में सोडियम, पोटैशियम जैसे लवणों का संतुलन बनाए रखना।
8. चोट लगने से रक्तप्रवाह होने पर वहाँ रक्त का थक्का बनाकर जखम को बंद करना यह कार्य प्लेटलेट और रक्तद्रव में स्थित फायब्रिनोजेन नामक प्रथिन करते हैं।

### मानवी रक्तसमूह (Human blood groups)

रक्त के प्रतिजन और प्रतिरक्षी इन दो प्रथिनों के आधार पर रक्त के अलग-अलग समूह किए गए हैं। मनुष्य में रक्त के A, B, AB तथा O ऐसे चार प्रमुख समूह होकर 'आर एच' (ऋसीस) पॉझिटिव्ह और 'आर एच' निगेटिव्ह ऐसे इन प्रत्येक समूह के दो प्रकार मिलाकर कुल आठ रक्त समूह होते हैं। (उदाहरणार्थ, A Rh +Ve व A Rh -Ve)

**रक्तदान** : कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने पर जख्मों द्वारा रक्तस्रावित होकर शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। शल्यक्रिया के समय भी कई बार रोगी को रक्त देना पड़ता है, उसी प्रकार अनेमिया, थैलॅसेमिया (Thalassemia), कॅन्सर से ग्रसित रोगियों को बाहर से रक्त की आपूर्ति की जाती है। शरीर में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है इसे 'रक्त-आधान' कहते हैं।

### रक्त-आधान के लिए रक्त की आपूर्ति कहाँ से होती है?

**रक्तबैंक** : रक्त बैंक में विशिष्ट पद्धति से निरोगी व्यक्ति के शरीर से रक्त निकालकर रखा जाता है और फिर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। एकत्रित किया हुआ रक्त तुरंत आवश्यकता न हो तो कुछ दिनों तक प्रशीतक में संग्रहित करके रखा जाता है।

**रक्तदाता** : जो व्यक्ति रक्त देता है, उसे रक्तदाता कहते हैं।

**रक्तग्राहक** : जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है उसे रक्त ग्राहक कहते हैं।

'O' समूह का रक्त अन्य सभी समूहवाले रक्त को दिया जाता है, तो 'AB' समूह के रक्तवाले व्यक्ति सभी से रक्त ले सकते हैं, इसलिए 'O' रक्त समूह को सार्वभौम दाता (Universal Donor) कहते हैं तो 'AB' इस रक्त समूह को सार्वभौम ग्राहक (Universal Recipient) कहते हैं।

रक्तसमूह आनुवंशिक होते हैं और वे अपने शरीर में माता और पिता से प्राप्त होनेवाले जनकों पर आधारित होते हैं। रक्तदान करते समय दाता और ग्राहक के रक्तसमूह मेल खाते हो तभी रोगी को रक्त दिया जाता है। रक्त दान में रक्त समूह न जुड़ने पर रोगी के लिए घातक हो सकता है। इससे रोगी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना होती है। आज का रक्तदाता कल का ग्राहक हो सकता है। किसी भी स्वार्थ के बिना किया गया रक्तदान यह जीवनदान है। दुर्घटना, रक्तस्राव, प्रसवकाल और शल्य क्रिया ऐसी परिस्थिति में रोगी को रक्त की आवश्यकता होती है, निरोगी व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान का उपयोग जरूरतमंद रोगियों का जीवन बचाने के लिए किया जाता है इसलिए रक्तदान यह सर्वश्रेष्ठ दान है।





जानकारी प्राप्त करो ।

तुम्हारे परिसर के किसी रक्तबैंक में जाकर रक्तदान के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करो ।

**रक्तदाब (Blood pressure) :** हृदय के संकुचन और शिथिलन की सहायता से धमनियों से रक्त को निरंतर प्रवाहित रखा जाता है । संकुचन के कारण धमनियों की भित्तिपर रक्त का दाब पडता है, उसे 'रक्तदाब' कहते हैं । शरीर के सभी भागों में रक्त पहुँचने हेतु उचित रक्तदाब आवश्यक होता है । हृदय के संकुचन के समय उत्पन्न दाब को प्रकुंचन दाब (सिस्टॉलिक दाब) कहते हैं और शिथिलन के समय उत्पन्न दाब को अनुशिथिलन दाब (डायस्टॉलिक दाब) कहते हैं । स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 मिमी से लेकर 139/89 मिमी पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है । रक्तदाब मापने के लिए 'स्फिग्मोमॅनोमीटर' नामक यंत्र का उपयोग करते हैं ।



### 11.6 रक्तदाबमापक यंत्र

**उच्च रक्तदाब :** उच्चरक्तदाब यह मनुष्य के शरीर के साधारण रक्तदाब की अपेक्षा अधिक वाला दाब है । जिस व्यक्ति में उच्च रक्तदाब हो, उसकी धमनियों में अनावश्यक तनाव निर्माण होता है । उच्च रक्तदाब में हृदय को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पडता है । इसमें अनुशिथिलन दाब और प्रकुंचन दाब दोनों ही बढ़ जाते हैं ।



इसे सदैव ध्यान में रखो ।

- \* प्रतिदिन हमारे शरीर में लगातार नया रक्त बनते रहता है ।
- \* रक्तदान के लिए एक समय में एक व्यक्ति से 350 ml रक्त लिया जाता है, जो हमारा शरीर 24 घंटों में ही लिए गए रक्त के प्रवाही भाग की आपूर्ति कर लेता है ।
- \* जिन स्त्रियों में स्तनपान चल रहा हो या जो अभी गर्भावस्था में हो, वे स्त्रियाँ रक्तदान नहीं कर सकती ।
- \* रक्तदान करते समय या करने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होती ।
- \* 18 वर्ष से अधिक आयु वाला निरोगी व्यक्ति वर्ष में 3-4 बार रक्तदान कर सकता है ।

प्रकार	सिस्टॉलिक दाब	डायस्टॉलिक दाब
साधारण रक्तदाब	90-119 मिमी	60-79 मिमी
पूर्व उच्च रक्तदाब	120-139 मिमी	80-89 मिमी
उच्च रक्तदाब अवस्था - 1	140-159 मिमी	90-99 मिमी
उच्च रक्तदाब अवस्था - 2	≥ 160 मिमी	≥ 100 मिमी

A, B और O इन रक्त समूहों की खोज इ.स. 1900 में डॉ. कार्ल लैंडस्टेनर ने की । इसके लिए उन्हें 1930 साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया । AB रक्तसमूह की खोज डिकास्टेलो और स्टर्ली ने 1902 में की ।



क्या तुम जानते हो ?

**रक्तविज्ञान (हिपॅटॉलॉजी) :** रक्त, रक्त बनानेवाले अंग और रक्त में उत्पन्न रोग इनका अध्ययन करनेवाली चिकित्सकीय विज्ञान की शाखा । रक्त के सभी रोगों का निदान एवं उपचार करने, रक्त से संबंधित अनुसंधान भी इस शाखा में किया जाता है ।



जानकारी प्राप्त करो ।

तुम्हारे नजदीक के किसी अस्पताल में जाओ । रक्तदाब मापने के यंत्र की सहायता से B.P. कैसे मापा जाता है इस विषय की जानकारी प्राप्त करो ।

## स्वाध्याय

### 1. मेरा जोड़ीदार खोजो ।

‘अ’ समूह

- हृदय के स्पंदन
- RBC
- WBC
- रक्तदान
- निरोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान
- ऑक्सीजनयुक्त रक्त का pH मान

‘ब’ समूह

- 350 मिली
- 7.4
- 37 °C
- 72
- 50 ते 60 लाख प्रति घन मिलीलीटर
- 5000 ते 10,000 प्रति घन मिलीलीटर

### 2. निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो ।

अंग संस्थान	अंग	कार्य
1. श्वसन संस्थान		
2. रक्तपरिसंचरण संस्थान		

### 3. स्वच्छ एवं नामांकित आकृतियाँ बनाओ ।

अ. श्वसन संस्थान आ. हृदय की आंतरिक संरचना

### 4. सकारण स्पष्ट करो ।

- मनुष्य में रक्त लाल रंग का होता है ।
- श्वासपटल (मध्य पटल) के ऊपर नीचे होने की क्रिया एक के बाद एक होती रहती है ।
- रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान संबोधित किया जाता है ।
- ‘O’ रक्त समूहवाले व्यक्ति को ‘सार्वभौम दाता’ कहते हैं ।
- भोजन में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए ।

### 5. नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो ।

- रक्त परिसंचरण संस्थान का श्वसन, पाचन और उत्सर्जन संस्थान के साथ का संबंध कार्य के आधार पर लिखो ।
- मनुष्य के रक्त की संरचना एवं कार्य लिखो ।
- रक्तदान का महत्त्व एवं आवश्यकता स्पष्ट करो ।

### 6. अंतर स्पष्ट करो ।

- धमनियाँ और शिराएँ
- बाह्यश्वसन और आंतरिक श्वसन

### 7. रक्तदान करनेवाले व्यक्ति के संबंध में निरोगी होने के लिए कौनसे मापदंड ध्यान में रखोगे ?

### 8. कोष्टक में दिए गए विकल्पों का उचित स्थान पर उपयोग करो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो । (हिमोग्लोबिन, क्षारीय, श्वासपटल, अस्थिमज्जा, ऐच्छिक, अनैच्छिक, अम्लीय)

- रक्त की लाल कोशिकाओं में..... यह लौह यौगिक होता है ।
- ..... यह उदरगुहा और वक्षगुहा के मध्य होता है ।
- हृदय की पेशियाँ ..... होती हैं ।
- आक्सीकृत रक्त का pH .... होता है ।
- RBC का निर्माण ..... में होता है ।

### 9. हम में अलग कौन पहचानो ।

- A, O, K, AB, B
- रक्तद्रव्य, रक्तपट्टिका, रक्त-आधान, रक्तकणिका
- श्वसननलिका, वायुकोश, श्वासपटल, केशिका
- न्यूट्रोफिल, ग्लोब्युलिन्स, अल्ल्युमिन, प्रोथ्रोम्बीन

### 10. नीचे दिया गया परिच्छेद पढ़ो और रोग/विकार पहचानो ।

आज उसका बालक डेढ़ साल का हो गया । परंतु वह निरोगी, हँसमुख नहीं है । वो लगातार चिडचिड़ करता है, दिनोंदिन रोगी और कमजोर दिखाई देता है । उसे दम लगता है । उसकी श्वसनक्रिया तीव्र हो गई है । उसके नाखून नीलाभ दिखाई देने लगे ।

### 11. तुम्हारे पड़ोस के चाचा के रक्तदाब के रोग का निदान डॉक्टर ने किया है । उनका रक्तदाब नियंत्रण में रहने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए ?

उपक्रम :

हृदय रोग के कार्य से संबंधित विभिन्न आधुनिक चिकित्सकीय उपचारों की जानकारी प्राप्त करो ।



## 12. अम्ल, क्षारक की पहचान



**थोड़ा याद करो।**

1. हम रोज के भोजन में अनेक खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, इमली, टमाटर, शक्कर, सिरका (व्हीनेगर), नमक इत्यादि। क्या सभी पदार्थों का स्वाद एक समान है?
2. नींबू, शक्कर, दही, चूने का पानी, खाने का सोड़ा, आँवला, इमली, आम, अनार, पानी इन पदार्थों का स्वाद कैसा है उसे लिखो। (खट्टा, कसैला, मीठा, कड़वा, स्वादहीन)

### अम्ल (Acid)

तुम्हारे ध्यान में आया कि कुछ पदार्थों का स्वाद मीठा, कुछ का कड़वा तो कुछ का खट्टा अथवा कसैला होता है। नींबू, इमली, सिरका (व्हीनेगर) अथवा आँवला इन सब पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है। उनका यह स्वाद उसमें उपस्थित एक विशिष्ट प्रकार के यौगिकों के कारण प्राप्त होता है। इस खट्टे स्वाद को देनेवाले यौगिकों को अम्ल कहते हैं अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं और वे क्षरणकारक भी होते हैं। प्राणी और वनस्पति में भी अम्ल होता है।

खाद्य पदार्थों में स्थित अम्लों को प्राकृतिक अम्ल अथवा कार्बनिक अम्ल ऐसा भी कहते हैं ये अम्ल क्षीण प्रकृति के होने के कारण उन्हें सौम्य अम्ल (weak acid) कहते हैं। कुछ अम्ल तीव्र स्वरूप के होते हैं वे दाहक होते हैं। उदा. सल्फ्यूरिक अम्ल ( $H_2SO_4$ ), हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) और नाइट्रिक अम्ल ( $HNO_3$ ) इन अम्लों को खनिज अम्ल भी कहते हैं। इनके सांद्र द्रव्य त्वचा पर पड़ने पर त्वचा झुलसती है तथा उनका धूँआ श्वसन के द्वारा अथवा मुँह के द्वारा शरीर में जाने से हानिकारक होता है। सान्द्र अम्ल को धीरे-धीरे पानी में डालने पर उसका रूपांतर तनु अम्ल में होता है। ऐसे तनु अम्ल सान्द्र अम्लों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं।

तुमने खाने के सोड़े के तनु विलयन का स्वाद यदि चखा हो तो वह कुछ कसैला/कड़वा लगेगा। जिस पदार्थ का स्वाद कसैला/कड़वा होता है और स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं उदाहरण चूने का पानी  $Ca(OH)_2$ , खाने का सोड़ा  $NaHCO_3$ , कॉस्टिक सोड़ा (NaOH) और साबुन इत्यादि पदार्थों को क्षारक कहते हैं। क्षारक अम्ल की अपेक्षा पूर्णरूप से भिन्न होते हैं। वे रासायनिक दृष्टि से अम्ल के विपरीत गुणधर्म वाले होते हैं। ये भी सान्द्र अवस्था में त्वचा को झुलसा देते हैं। हमें मालूम है कि उर्ध्वपातित पानी स्वादहीन होता है। पानी यह अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होता।

### सूचक (Indicator)

जो पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होते हैं वे रासायनिक दृष्टि से उदासीन होते हैं। अम्ल अथवा क्षारक का स्वाद लेना अथवा उन्हें स्पर्श करना यह अत्याधिक हानिकारक होने के कारण उनकी पहचान करने के लिए 'सूचक' (Indicator) इस विशिष्ट पदार्थ का उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ जो अम्ल अथवा क्षारक के संपर्क में आने पर स्वयं का रंग बदलते हैं उन्हें सूचक कहते हैं।

### प्रयोगशाला के सूचक (Indicators in Laboratory)

: अम्ल और क्षारक पदार्थों का परीक्षण लिटमस कागज का उपयोग कर किया जाता है। यह कागज लाइकेन (पत्थरफूल) नामक वनस्पति के अर्क से तैयार किया जाता है। वह लाल अथवा नीले रंग का होता है। नीला लिटमस पत्र अम्ल में डालने पर लाल होता है और लाल लिटमस कागज क्षारक के कारण नीला हो जाता है उसी प्रकार फेनाफथलीन, मेथिल ऑरेंज व मेथिल रेड ये सूचक द्रव्य के रूप में प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाते हैं। मेथिल ऑरेंज यह दर्शक अम्ल में गुलाबी तथा क्षारक में पीला हो जाता है। फेनाफथलीन अम्ल में रंगहीन और क्षारक में गुलाबी हो जाता है। वैश्विक सूचक (Universal Indicator) द्रव्य रूप का सूचक है, जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर अलग अलग रंग परिवर्तन दिखाता है।



### 12.1 प्रयोगशाला के सूचक

क्र.	सूचक पदार्थों के नाम	सूचक के मूल रंग	अम्ल में रंग	क्षारक में रंग
1.	लिटमस कागज़	नीला	लाल	नीला (वैसा ही रहता है)
2.	लिटमस कागज़	लाल	लाल (वैसा ही रहता है)	नीला
3.	मेथिल ऑरेंज	नारंगी	गुलाबी	पीला
4.	फेनाफ्थलीन	रंगहीन	रंगहीन	गुलाबी
5.	मेथिल रेड	लाल	लाल	पीला

## 12.2 : सूचक और उसके अम्ल तथा क्षारक द्रव्य में रंग

**घरेलू सूचक :** प्रयोगशाला में सूचक पदार्थ उपलब्ध न होने पर घर के अनेक पदार्थों की सहायता से प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं। अन्न का पीला दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है ये तुमने देखा होगा। यह रंग बदल, अन्न में स्थित हल्दी और साबुन में स्थित क्षारक के बीच होनेवाली रासायनिक क्रिया का परिणाम होता है। यहाँ हल्दी यह सूचक का कार्य करती है इसी प्रकार लाल गोभी, मूली, टमाटर तथा गुड़हल और गुलाब से भी प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं।

### प्राकृतिक सूचक तैयार करना



**करो और देखो।**

**सामग्री :** गुड़हल, गुलाब, हल्दी, लाल गोभी के पत्ते, छन्ना कागज़ (फिल्टर पेपर) इत्यादि।

**कृति :** लाल गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियों को सफेद छन्ना कागज़ पर रगड़ो। ये पट्टी काट लो। ये हुआ, गुड़हल से तैयार हुआ सूचक कागज़ उसी प्रकार गुलाब की पंखुड़ियों को सफेद छन्ना कागज़ पर रगड़ो इस कागज़ की पट्टी को काट लो। ये बना गुलाब का सूचक कागज़। हल्दी का चूर्ण लो उसमें थोड़ा पानी डालो। इस हल्दी के पानी में छन्ना कागज़ अथवा सादा कागज़ थोड़े समय तक डुबा कर रखो। सूखने पर इस कागज़ की पट्टी तैयार करो। इस प्रकार हल्दीसूचक कागज़ तैयार करो। लाल गोभी के पत्तों को थोड़े पानी में डालकर पानी गर्म करो। गोभी के पत्तों का द्रव्य ठंडा होने पर उसमें कागज़ डुबाकर बाहर निकालो। कागज़ सूखने पर उसके छोटे टुकड़े करो। इस प्रकार गोभी के पत्तों का सूचक बना कर देखो।

**इस प्रकार बने सूचक कागज़ पर नीचे दिए गए विविध पदार्थों की बूँद डालो व क्या परिणाम होता है उसे लिखो।**

क्र.	पदार्थ	हल्दी के पट्टी पर होनेवाला परिणाम	अम्लीय / क्षारीय
1.	नींबू का रस		
2.	चूने का पानी		
3.	.....		



**करो और देखो।**

खाने का सोड़ा लो, उसमें थोड़ा पानी डालो। जो द्रव्य तैयार होगा उसमें नींबूरस, सिरका (व्हीनेगर), संतरा रस, सेब रस इत्यादि पदार्थ डालकर निरीक्षण ज्ञात करके लिखो।

खाने के सोड़े के जलीय द्रव्य में फलों का रस डालने पर, तुम्हें क्या दिखाई दिया? बुलबुले निकले या फलों का रस फसफसाने लगा?

ऊपर दी गई पहली कृति से समझता हैं, कि हल्दी से बने सूचक कागज़ की पट्टियों का पीला रंग कुछ विशिष्ट पदार्थों के द्रव्यों में लाल हो जाता है। क्षारीय पदार्थों में हल्दी के सूचक कागज़ का रंग लाल होता है, उसी प्रकार अम्लीय पदार्थों के द्रव्य में खाने के सोड़े का जलीय द्रव्य डालने पर बुलबुले दिखाई देते हैं या वो फसफसाता है।

इन दोनों सरल और आसान कृति से पदार्थ अम्ल हैं या क्षारक हम इसकी पहचान कर सकते हैं।





**करो और देखो ।**

शिक्षकों के मार्गदर्शन में सिरका (व्हीनेगर), नींबूरस, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड ( $\text{NH}_4\text{OH}$ ) और तनु हाइड्रोक्लोरिकअम्ल ( $\text{HCl}$ ) के नमूने अलग अलग परखनली में लो । उसमें नीचे दिए गए सूचकों की एक-दो बूँद डालो उसी प्रकार लिटमस कागज़ भी द्रव्य में डुबाओ । निरीक्षण ज्ञात करके तालिका में लिखो ।

नमूना द्रव्य	लाल लिटमस	नीला लिटमस	फेनाफथलीन	मेंथिल ऑरेंज	अम्ल/क्षारक
नींबूरस					
$\text{NH}_4\text{OH}$					
$\text{HCl}$					
व्हीनेगर					



ऊपर्युक्त प्रयोग से ऐसा दिखाई देता है कि अम्ल में लिटमस का नीला रंग बदलकर लाल हो जाता है और क्षारक में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है । मेथिल ऑरेंज का नारंगी रंग अम्ल में गुलाबी हो जाता है तो रंगहीन फेनाफथलीन क्षारक में गुलाबी हो जाता है ।


### 12.3 अम्ल व क्षारक का लिटमस कागज़ पर परिणाम



**बताओ तो**

- घर के शहाबादी फर्श पर, रसोई के चबूतरे पर, नींबू का रस, इमली का जलीय द्रव्य जैसे खट्टे पदार्थ गिरने पर क्या होता है? क्यों?
- अपने परिसर की मिट्टी लाकर वह अम्ल, क्षारक उदासीन हैं, ये देखो ।
- हरे दाग पड़े ताँबे के बर्तन और काले पड़े चांदी के बर्तन चमकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
- दाँत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग क्यों करते हैं?

अम्ल ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जलीय द्रव्य हाइड्रोजन आयन ( $\text{H}^+$ ) उपलब्ध कर देता है /निर्माण करता है । उदा. जलीय द्रव्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ( $\text{HCl}$ ) का विघटन होता है ।



(हायड्रोक्लोरिक अम्ल) (हायड्रोजन आयन) (क्लोराइड आयन)

**अम्लों के कुछ उदाहरण :** हाइड्रोक्लोरिकअम्ल ( $\text{HCl}$ ), नायट्रिक अम्ल ( $\text{HNO}_3$ ), सल्फ्यूरिक अम्ल ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ), कार्बोनिक अम्ल ( $\text{H}_2\text{CO}_3$ ) शीतपेयों में, नींबू और अन्य अनेक फलों में एस्कार्बिक अम्ल, सायट्रिक अम्ल, सिरका में एसीटिक अम्ल इत्यादि ।

हमारे उपयोग में आनेवाले कुछ खाद्य पदार्थों में कुछ प्राकृतिक (सेन्द्रीय) अम्ल होते हैं । ये अम्ल सौम्य प्रकृति के होने के कारण खनिज अम्ल की तरह हानिकारक/अपायकारक नहीं होते हैं । कुछ प्राकृतिक अम्ल वाले खाद्य पदार्थ नीचे तालिका में दिए गए हैं ।

क्र.	पदार्थ/स्रोत	अम्ल (प्राकृतिक/कार्बनिक)
1	सिरका	एसीटिक अम्ल
2	संतरा	एस्कार्बिक अम्ल
3	इमली	टार्टरिक अम्ल
4	टमाटर	ऑक्सैलिक अम्ल
5	दही	लॅक्टिक अम्ल
6	नींबू	सायट्रिक अम्ल

### 12.4 कुछ प्राकृतिक अम्ल

## 12.4 : अम्ल के गुणधर्म

1. अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं।
2. अम्ल के अणु में हाइड्रोजन ( $H^+$ ) आयन मुख्य घटक होता है।
3. अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं।
4. अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर  $CO_2$  गैस मुक्त होती है।
5. अम्ल के कारण नीला लिटमस कागज लाल होता है।

### अम्ल के उपयोग

1. रासायनिक खाद के उत्पादन में अम्लों का उपयोग किया जाता है।
2. तेल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, औषधियों में, रंग में, विस्फोटक द्रव्यों के निर्माण प्रक्रिया में अम्लों का उपयोग किया जाता है।
3. भिन्न-भिन्न क्लोराइड लवण बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं।
4. तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी (विद्युत सेल) में करते हैं।
5. पानी को जंतुविरहित करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है।
6. लकड़ी की लुगदी से सफेद कागज बनाने के लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है।

### सान्द्र अम्ल तथा क्षारक की दाहकता :

सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब पानी में घुलता है तो बहुत ऊष्मा का निर्माण होता है इसलिए उसका विरलीकरण करने के लिए अम्ल को बहुत ही धीरे धीरे पानी में डालते हैं और काँच की छड़ से धीरे-धीरे हिलाते रहें जिससे निर्माण होनेवाली ऊष्मा एक ही जगह पर न रहकर संपूर्ण विलयन में एक समान फैल जाए। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे अम्लयुक्त द्रव्य छलक कर बाहर न आए। कभी भी सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रचंड ऊष्मा का निर्माण होकर स्फोट होने की संभावना हो सकती है।

सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारक भी तीव्र और दाहक होते हैं। उनका सांद्र द्रव्य त्वचा पर गिरने से त्वचा झुलस जाती है क्योंकि वे त्वचा में स्थित प्रथिन का विघटन करते हैं।



### थोड़ा सोचो।

नींबू, आम जैसे खट्टे पदार्थ लोहे के चाकू से काटने पर चाकू की पांत चमकदार बनती है, क्यों?

- हमने देखा है, कि खनिज अम्ल शरीर के लिए हानिकारक होते हैं परंतु अनेक कार्बनिक अम्ल हमारे शरीर में और वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं और वे लाभदायक होते हैं।
- हमारे शरीर में DNA (डी-आक्सीरायबोन्यूक्लिक अम्ल) यह अम्ल होता है, जो हमारे आनुवांशिक गुणधर्मों को निश्चित करता है।
- प्रथिन (प्रोटीन) शरीर की कोशिकाओं का भाग है वह अमीनो अम्ल से बना होता है।
- शरीर में वसा (Fat) यह वसीय अम्ल (Fatty acid) से बना होता है।

**क्षारक (Base) :** क्षारक एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय द्रव्य हाइड्रॉक्साइड ( $OH^-$ ) आयन देता है / निर्माण करता है। उदा.  $NaOH(aq) \longrightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$   
(सोडियम हाइड्रॉक्साइड) (सोडियम आयन) (हाइड्रॉक्साइड आयन)



सोडियम हाइड्रॉक्साइड  
 $NaOH$



पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड  
 $KOH$



कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड  
 $Ca(OH)_2$



मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड  
 $Mg(OH)_2$



अमोनियम हाइड्रॉक्साइड  
 $NH_4OH$

## 12.5 क्षारक के कुछ उदाहरण

क्र.	क्षारक के नाम	सूत्र	उपयोग
1	सोडियम हाइड्रॉक्साइड/कास्टिक सोडा	NaOH	कपड़े धोने के साबुन में
2	पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड / कास्टिक पोटाश	KOH	नहाने के साबुन में, शॉम्पू में
3	कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड / चूने का पानी	Ca(OH) <sub>2</sub>	चूना/रंग सफेदी के लिए
4	मैग्नेशियम हाइड्रॉक्साइड/मिल्क ऑफ मैग्नेशिया	Mg(OH) <sub>2</sub>	अम्ल विरोधक औषध
5	अमोनियम हाइड्रॉक्साइड	NH <sub>4</sub> OH	खाद बनाने के लिए

## 12.6 क्षारक के सूत्र तथा उनके उपयोग




**इसे सदैव ध्यान में रखो ।**

किसी भी पदार्थ को पहचानने के लिए उस पदार्थ का स्वाद लेना, सूँघना या उन्हें स्पर्श करना यह उचित नहीं है । ऐसा करने से शरीर को हानि हो सकती है ।

### क्षारक के गुणधर्म :

1. क्षारक का स्वाद कड़वा होता है ।
2. क्षारक को स्पर्श करने पर चिकना लगता है ।
3. क्षारक का प्रमुख घटक हाइड्रॉक्साइड (OH<sup>-</sup>) आयन होता है ।
4. सामान्यतः धातु के आक्साइड क्षारीय होते हैं ।

**उदासीनीकरण :** हमने देखा है कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन (H<sup>+</sup>) और क्षारक में हाइड्रॉक्साइड आयन (OH<sup>-</sup>) होते हैं । अम्ल और क्षारक के संयोग करने से लवण और पानी का निर्माण होता है ।



इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं ।



### क्या तुम जानते हो?

हमारे जठर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके कारण अन्न का पाचन सुलभता से होता है परंतु ये अम्ल आवश्यकता से अधिक होने पर अपचन होता है । इस पर उपाय के रूप में सामान्यतः क्षारीय औषधियाँ दी जाती हैं । उसमें मिल्क ऑफ मैग्नेशिया Mg(OH)<sub>2</sub> का समावेश होता है । ऐसे क्षारीय पदार्थ, जठर में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल का उदासीनीकरण कर देते हैं । रासायनिक खादों का अनावश्यक व बेशुमार उपयोग करने से कृषि भूमि में अम्ल का अनुपात बढ़ता है । जब जमीन अम्लीय हो जाती है तब जमीन में क्षारीय चूने का पत्थर या चूने का पानी जैसे रसायन कृषितज्ञ के मार्गदर्शन में डालते हैं, इस प्रकार क्षारक जमीन के अम्ल का उदासीनीकरण करते हैं ।

1. नीचे दिए गए द्रव्य अम्ल हैं या क्षारक पहचानो ।

द्रव्य	सूचक में हुआ परिवर्तन			अम्ल / क्षारक
	लिटमस	फेनाफथलीन	मेथिल ऑरेंज	
1.	--	परिवर्तन नहीं	--	
2.	--	--	नारंगी रंग बदल कर लाल हो जाता है ।	
3.	लाल लिटमस नीला होता है ।	--	--	

2. सूत्र की सहायता से रासायनिक नाम लिखो ।

$H_2SO_4$ ,  $Ca(OH)_2$ ,  $HCl$ ,  $NaOH$ ,  $KOH$ ,  
 $NH_4OH$

3. सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक उद्योगधंधो में सबसे अधिक महत्व क्यों है?

4. उत्तर लिखो ।

अ. क्लोराइड लवण प्राप्त करने के लिए कौन-सा अम्ल उपयोग में लाया जाता है ?

आ. एक पत्थर के नमूने पर नींबू का रस निचोड़ते ही वह फसफसाता है और निर्माण होनेवाली गैस से चूने का पानी दुधिया हो जाता है । पत्थर में कौन-से प्रकार का यौगिक है ?

इ. प्रयोगशाला में एक अभिक्रियाकारक के बोतल पर की चिट्ठी खराब हो गई है उस बोतल में रखा द्रव्य (पदार्थ) यह अम्ल है या नहीं, यह तुम कैसे पहचानोगे ?

5. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो ।

अ. अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट करो ।

आ. सूचक पर नमक का परिणाम क्यों नहीं होता ?

इ. उदासीनीकरण से कौन-से पदार्थ तैयार होते हैं ?

ई. अम्ल के औद्योगिक उपयोग कौन-से हैं ?

6. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ।

अ. अम्ल का प्रमुख घटक ..... हैं ।

आ. क्षारक का प्रमुख घटक..... हैं ।

इ. टार्टरिक ये ..... अम्ल हैं ।

7. जोड़ियाँ लगाओ ।

‘अ’ गट

‘ब’ गट

1. इमली

a. एसीटिक अम्ल

2. दही

b. सायट्रिक अम्ल

3. नींबू

c. टार्टरिक अम्ल

4. सिरका (व्हिनेगर)

d. लॅक्टिक अम्ल

8. सही / गलत पहचानकर लिखो ।

अ. धातुओं के आक्साइड क्षारीय होते हैं ।

आ. नमक अम्लीय है ।

इ. लवणों के कारण धातुओं का क्षरण होता है ।

ई. लवण उदासीन होते हैं ?

9. नीचे दिए गए पदार्थों का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन इन समूहों में वर्गीकरण करो ।

$HCl$ ,  $NaCl$ ,  $MgO$ ,  $KCl$ ,  $CaO$ ,  $H_2SO_4$ ,  
 $HNO_3$ ,  $H_2O$ ,  $Na_2CO_3$

उपक्रम :

हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उपयोग और महत्व अपनी भाषा में लिखो ।





## 13. रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध



**थोड़ा याद करो ।**

1. परिवर्तनों के वर्गीकरण की विविध पद्धतियाँ कौन सी हैं?
2. भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या हैं ?
3. नीचे दिए गए परिवर्तनों का भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकरण करो ।

**परिवर्तन :** कच्चे आमों का पकना, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, नमक का पानी में घुलना, हरे केले का पीला होना, फल के पकने पर सुगंध आना, आलू काट कर रखने पर काला होना, फूला हुआ गुब्बारा फट से फूटना, पटाखे जलाने पर आवाज होना, खाद्यपदार्थ खराब होने पर खट्टी गंध का आना ।

कोई भी रासायनिक परिवर्तन होते समय मूल पदार्थ का संघटन बदलता है और उससे अलग संघटन वाला तथा भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ मिलता है । कोई परिवर्तन यह रासायनिक परिवर्तन है यह कैसे पहचानोगे ?



**करो और देखो ।**

एक स्वच्छ काँच के पात्र में नींबू का रस लो । चम्मच में दो बूँद नींबू का रस लेकर उनका स्वाद लो । अब नींबू के रस में चुटकी भर खाने का सोडा डालो । क्या दिखाई देता है? सोडे के कणों के चारों ओर बुलबुले तैयार होते हुए दिखाई देते हैं क्या? काँच के पात्र के पास कान ले जाने पर आवाज सुनाई देती है क्या? अब काचपात्र से दो बूँद लेकर उसका स्वाद लो प्रारंभ में नींबू रस का स्वाद खट्टा था उसी प्रकार का स्वाद आया क्या? (ऊपर की कृति में स्वच्छ सामग्री और खाद्य पदार्थ लेने पर ही स्वाद लेकर परीक्षण करना संभव हो सकता है । अन्यथा स्वाद लेना यह परीक्षण करना संभव नहीं होगा यह ध्यान में रखो ।)

उपर्युक्त कृति में परिवर्तन होते समय अनेक विविधतापूर्ण निरीक्षण दिखाई देते हैं बुलबुले के स्वरूप में गैस मुक्त होती है, हल्की सी ध्वनि भी सुनाई देती है । खाने के सोडे के सफेद ठोस कण अदृश्य हो जाते हैं । मूल खट्टा स्वाद भी कम अथवा नष्ट होता है । इस प्रकार के परिवर्तन में एक भिन्न स्वाद का नया पदार्थ तैयार होता है यह समझ में आता है । ऊपर के परिवर्तन अंत में पदार्थ का स्वाद बदलता है अर्थात् पदार्थ का संघटन बदलता है अर्थात् इस परिवर्तन में मूल पदार्थ का संघटन बदल कर भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ तैयार होता है इसलिए नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर रासायनिक परिवर्तन होता है । कभी-कभी रासायनिक परिवर्तन होते समय भिन्न-भिन्न विविधतापूर्ण निरीक्षण दिखाई देते हैं तथा इस आधार पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है यह पहचान सकते हैं । उनमें से कुछ निरीक्षण तालिका क्र 13.1 में दिया है ।



रंग परिवर्तन, स्वाद परिवर्तन, गैस मुक्त होना आदि ।

**13.1 रासायनिक परिवर्तन के कुछ समझ में आनेवाले निरीक्षण**

**रासायनिक परिवर्तन और शाब्दिक समीकरण :** रासायनिक परिवर्तन होते समय मूल पदार्थ का रासायनिक संघटन बदल कर, भिन्न रासायनिक संघटन वाला, भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ तैयार होता है। रासायनिक संघटन की अचूक जानकारी प्राप्त होने पर रासायनिक परिवर्तन के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय मूल पदार्थ का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र उसी प्रकार तैयार हुए नए पदार्थ का नाम व रासायनिक सूत्र इनका उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर होनेवाला रासायनिक परिवर्तन, ये नींबू के रस में उपस्थित साइट्रिक अम्ल में होता है व तैयार होने वाली गैस कार्बन डायऑक्साइड होती है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्नानुसार शाब्दिक समीकरण लिख सकते हैं।



13.2 फसफसाने की क्रिया होकर कार्बन डायऑक्साइड की निर्मिती

**साइट्रिक अम्ल + सोडियम बाइकार्बोनेट → कार्बन डायऑक्साइड + सोडियम साइट्रेट**

अम्ल + क्षारक → CO<sub>2</sub> + लवण, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है।



**इसे सदैव ध्यान में रखो।**

किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का पहला चरण अर्थात संबंधित पदार्थ के नामों का उपयोग कर शाब्दिक समीकरण लिखना। इसमें प्रत्येक पदार्थ के नाम की जगह उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखा तो वह रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय मूल पदार्थ को बाएँ पक्ष में तथा तैयार हुए नए पदार्थ को दाएँ पक्ष में लिखते हैं व बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं व तीर की दिशा नए पदार्थ की ओर होती है। यह अभिक्रिया की दिशा दर्शानेवाला तीर (बाण) है। तीर के बाएँ पक्ष में लिखे मूलपदार्थ अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उन्हें अभिक्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के कारण तैयार होने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में उत्पाद की जगह तीर के दाएँ पक्ष में होती हैं।

**दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन :** अपने चारों ओर, शरीर में, घर में तथा प्रयोगशाला में हमें रासायनिक परिवर्तन के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। शाब्दिक व रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, ऐसे रासायनिक परिवर्तन देखेंगे।


### प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन

**(अ) श्वसन :** श्वसन हमारे जीवन में निरंतर चलने वाली जैविक प्रक्रिया है। इस क्रिया में हम श्वास के द्वारा हवा अंदर लेते हैं और उच्छ्वास के द्वारा कार्बन डायऑक्साइड गैस और पानी की भाप (वाष्प) बाहर छोड़ते हैं। गहन अध्ययन के बाद समझता है कि श्वास लेते समय हवा की ऑक्सीजन का कोशिका की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया होकर कार्बन डायऑक्साइड और पानी तैयार होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का शाब्दिक व रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से हैं (यहाँ रासायनिक समीकरण का संतुलन नहीं किया गया है)

**शाब्दिक समीकरण :**

ग्लूकोज + ऑक्सीजन  $\xrightarrow{\text{श्वसन}}$  कार्बन डायऑक्साइड + पानी

**रासायनिक समीकरण :**





**करो और देखो।**

एक परखनली में ताजा चूने का पानी (कैल्शियम हायड्रॉक्साइड का द्रव्य) लो उसमें फूँकनली द्वारा फूँको कुछ समय के बाद क्या दिखाई देगा ? रंगहीन चूने का पानी दूधिया हुआ क्या ? और थोड़ी देर बाद में सफेद अघुलनशील पदार्थ परखनली के तल में जमा हुआ दिखाई देगा यह कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप है। चूने का पानी दूधिया होता है इसका अर्थ उसमें फूँक द्वारा मिली गैस कार्बन डायऑक्साइड थी।

कार्बन + कैल्शियम हायड्रॉक्साइड  $\rightarrow$  कैल्शियम कार्बोनेट + पानी


ऊपर दिए गए शाब्दिक समीकरण के लिए रासायनिक समीकरण लिखो।

**आ. प्रकाशसंश्लेषण :** सूर्यप्रकाश की उपस्थिति में हरी वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण करती हैं यह तुम्हे मालूम है । इस प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन के लिए शाब्दिक समीकरण तथा रासायनिक समीकरण (असंतुलित) निम्न प्रकार से लिखते हैं ।



**मानवनिर्मित रासायनिक परिवर्तन :** हम दैनंदिन जीवन में अपने उपयोग के लिए अनेक रासायनिक परिवर्तन संपन्न करवाते हैं । उनमें से कुछ रासायनिक परिवर्तन अब देखेंगे । पहले कृति में जो रासायनिक परिवर्तन देखा उसका उपयोग 'सोडा नींबू' इस शीतपेय में करते हैं अर्थात् यह एक उपयुक्त मानवनिर्मित रासायनिक परिवर्तन है या नहीं यह तुम निश्चित करो । कारण सोडा-लींबू के पेय में कार्बन डाय ऑक्साइड तथा साइट्रिक अम्ल ये दोनों अम्लीय गुणधर्मवाले हैं । जिसके कारण जठर रस की अम्लीयता बढ़ती है ।


**(अ) ईंधन का ज्वलन :** ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या रसोई गैस जलाते हैं । इन सभी ईंधनों में जलने वाला एक जैसा पदार्थ 'कार्बन' है । ज्वलन प्रक्रिया में कार्बन का हवा की ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर कार्बन डायऑक्साइड उत्पाद तैयार होता है । इस सभी ज्वलन की क्रिया के लिए सामान्य समीकरण निम्न प्रकार से लिखते हैं ।



**रासायनिक समीकरण :**  $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$  ईंधन का ज्वलन यह शीघ्र तथा अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन है ।

**(आ) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से शहाबादी फर्श स्वच्छ करना :** यहाँ शहाबादी फर्श का रासायनिक संघटन मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है । जब हम फर्श को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से स्वच्छ करते हैं तब फर्श के ऊपरी परत की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है और तीन उत्पाद तैयार होते हैं । उसमें से एक उत्पाद कैल्शियम क्लोराइड है जो पानी में घुलनशील होने से पानी से धोने पर निकल जाता है । दूसरा उत्पाद कार्बन डायऑक्साइड इसके बुलबुले हवा में मिल जाते हैं । तीसरा उत्पाद पानी है जो पानी में मिल जाता है । इस रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न समीकरण लिखते हैं ।

**शाब्दिक समीकरण :**



ऊपर दी गई अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण (असंतुलित) लिखो ।

**(इ) दुष्पेन पानी को सुपेन बनाना :** कुछ कुँओं का और नलिकाकूपों का पानी दुष्पेन होता है । यह पानी स्वाद में खारा होता है उसमें साबुन का झाग नहीं बनता इसका कारण दुष्पेन पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट ये लवण घुले होते हैं । इस दुष्पेन पानी को सुपेन बनाने के लिए उसमें धोने के सोडा का विलयन डालते हैं । जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील कार्बोनेट लवण के अवक्षेप तैयार होकर वे बाहर निकलते हैं । पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कार्बोनेट लवणों के अवक्षेपों के रूप में बाहर निकलने के कारण पानी सुपेन बन जाता है । इस रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न समीकरण लिखते हैं ।

**शाब्दिक समीकरण :**



**रासायनिक समीकरण (असंतुलित) :**




दुष्पेन पानी को सुपेन बनाने के लिए मैग्नीशियम के लवणों में होनेवाले रासायनिक परिवर्तन का शाब्दिक व रासायनिक समीकरण लिखो ।

रासायनिक परिवर्तन होने पर पदार्थ का रासायनिक संघटन बदलता है तथा मूल पदार्थों की, अभिकारकों की रासायनिक अभिक्रिया होकर भिन्न गुणधर्मवाले नए पदार्थ, उत्पाद तैयार होते हैं यह हमने देखा है। यह क्रिया घटित होने पर अभिक्रियाकारकों के कुछ रासायनिक बंध टूटते हैं और अभिक्रिया में नए रासायनिक बंध का निर्माण होने से नए पदार्थ अर्थात् उत्पाद तैयार होते हैं। किसी एक परमाणु द्वारा तैयार किए कुछ रासायनिक बंधों की संख्या अर्थात् परमाणु की संयोजकता यह भी हमने 'द्रव्य का संघटन' इस पाठ में देखा है। रासायनिक बंध क्या हैं, ये अब देखेंगे।

**रासायनिक बंध (Chemical Bond) :** 'परमाणु का अंतर्भाग' इस पाठ में हमने तत्त्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण तथा तत्त्वों की संयोजकता के बीच संबंध देखा। निष्क्रिय गैसे रासायनिक बंध तैयार नहीं करते क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनों की अष्टक/द्विक स्थिति पूर्ण होती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की अष्टक/द्विक स्थिति अपूर्ण होने पर परमाणु उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार संयोजकता की संख्या के अनुसार रासायनिक बंध तैयार करने पर परमाणु को इलेक्ट्रॉन की अष्टक का /द्विक का संरूपण प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन की अष्टक/द्विक स्थिति पूर्ण करने की प्रमुख दो पद्धतियाँ अब देखेंगे।

**1. आयनिक बंध (Ionic Bond) :** प्रथम सोडियम और क्लोरिन उन तत्त्वों के परमाणुओं से सोडियम क्लोराइड ये यौगिक कैसे तैयार होता है यह देखेंगे। इसके लिए सोडियम और क्लोरिन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखेंगे।




सोडियम की संयोजकता कवच में एक इलेक्ट्रॉन होने से उसकी संयोजकता एक तथा क्लोरिन की संयोजकता कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन होने पर अर्थात् अष्टक स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन कम होने से क्लोरिन की संयोजकता भी एक यह संबंध हमने देखा। सोडियम का परमाणु जब उसके M कवच से एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब उसकी 'L' कक्षा बाह्यतम होती है। उसमें आठ इलेक्ट्रॉन हैं परिणामतः अब सोडियम को इलेक्ट्रॉन की अष्टक स्थिति प्राप्त होती है, परंतु अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण सोडियम के केंद्रक पर +11 इस धनावेश का संतुलन नहीं होता व केवल +1 इतना धन आवेश वाला,  $\text{Na}^+$  यह धन आयन तैयार होता है। इसके विपरीत क्लोरिन की संयोजकता कवच में अष्टक स्थिति की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन कम है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेने पर क्लोरिन का इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण होता है, लेकिन क्लोरिन के परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से आवेश का संतुलन बिगड़ता है व केवल -1 इतना ऋण आवेशित  $\text{Cl}^-$  यह ऋण आयन तैयार होता है।

सोडियम और क्लोरिन ये तत्त्व जब संयोग करते हैं तब सोडियम का परमाणु अपना संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्लोरिन परमाणु को देता है इसलिए  $\text{Na}^+$  यह धन आयन तथा  $\text{Cl}^-$  यह ऋण आयन तैयार होता है। विजातीय आवेशों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होने के कारण ये विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और उनमें रासायनिक बंध का निर्माण होता है।

परस्पर विपरीत आवेश वाले धन आयन और ऋण आयन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण निर्माण होने वाले रासायनिक बंध को **आयनिक बंध** अथवा **विद्युत संयोजकीय बंध** कहते हैं। एक अथवा अधिक आयनिक बंध द्वारा निर्माण होने वाले यौगिक को **आयनिक यौगिक** कहते हैं।


सोडियम और क्लोरिन इस तत्त्व से सोडियम क्लोराइड इस आयनिक यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के रेखांकन का उपयोग कर आकृति 13.3 में दिखाया गया है।

आयन पर होने वाले +1 अथवा -1 विद्युत आवेश के कारण एक आयनिक बंध तैयार होता है। आयन पर जितना धनावेश अथवा ऋण आवेश होता है उतनी ही उस आयन की संयोजकता होती है और उतना ही आयनिक बंध वह आयन तैयार करता है।



13.3 NaCl आयनिक यौगिक के निर्माण





### 13.4 $\text{MgCl}_2$ इस आयनिक यौगिक का निर्माण

मैग्नीशियम क्लोराइड इस आयनिक यौगिक का निर्माण मैग्नीशियम और क्लोरीन इन दो तत्वों से कैसे होता है यह आकृति 13.4 में दिखाया गया है।

संबंधित तत्वों द्वारा निम्न आयनिक यौगिकों की निर्मित संख्यात्मक इलेक्ट्रॉन संरूपण तथा इलेक्ट्रॉन संरूपण के रेखांकन इन दोनों पद्धति से दर्शाओ (अ)  ${}_{19}\text{K}$  व  ${}_{9}\text{F}$  से  $\text{K}^+\text{F}^-$ , (आ)  ${}_{20}\text{Ca}$  व  ${}_{8}\text{O}$  से  $\text{Ca}^{2+}\text{O}^{2-}$

**2. सहसंयोजकीय बंध :** जब समान गुणधर्म वाले तत्वों के परमाणुओं का संयोग होता है तब सामान्यतः सहसंयोजकीय बंध का निर्माण होता है। ऐसे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता उसके बदले में इन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी (sharing) होती है। साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं की सामान्य संपत्ति होने के कारण दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन अष्टक/द्विक पूर्ण होता है। प्रथम हाइड्रोजन के अणु का ( $\text{H}_2$ ) उदाहरण देखेंगे।

‘परमाणु का अंतर्भाग इस पाठ में हमने देखा है कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्विक स्थिति पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है तथा हाइड्रोजन की संयोजकता एक है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बंध तैयार होते समय दोनों परमाणु

एकसमान और एक ही प्रवृत्ति के होने के कारण वे एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। जिससे हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं की द्विक स्थिति पूर्ण होती है व उनसे रासायनिक बंध का निर्माण होता है।

जब दो परमाणुओं के मध्य संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर जो रासायनिक बंध तैयार होता है उसे सहसंयोजकीय बंध कहते हैं। दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक यह संयोजकीय बंध तैयार होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर  $\text{H}_2$  अणु की निर्मिति इलेक्ट्रॉन संरूपण के रेखांकन का उपयोग कर आकृति 13.5 में दिखाया गया है। दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजकीय बंध उस परमाणुओं के संकेतों को जोड़नेवाली रेखा से भी दर्शाया जाता है।



### 13.5 $\text{H}_2$ इस सहसंयोजकीय अणु का निर्माण

अब  $\text{H}_2\text{O}$  इस सहसंयोजकीय यौगिक की निर्मिति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन परमाणुओं से किस प्रकार होती है यह हम देखेंगे (देखो आकृति 13.6) ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता कवच में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अर्थात ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की अष्टक स्थिति की अपेक्षा दो इलेक्ट्रॉन कम हैं तथा ऑक्सीजन की संयोजकता ‘2’ हैं।  $\text{H}_2\text{O}$  अणु में ऑक्सीजन का परमाणु दो सहसंयोजकीय बंध तैयार कर अपनी अष्टक स्थिति पूर्ण करता है। ऑक्सीजन का एक परमाणु यह दो सहसंयोजकीय बंध दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रत्येक के साथ एक, इस प्रकार बंध बनाता है। इससे दोनों हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन द्विक स्थिति स्वतंत्ररूप से प्राप्त करते हैं।



### 13.6 $\text{H}_2\text{O}$ सहसंयोजी अणु का निर्माण



## थोड़ा सोचो ।

HCl इस अणु में H व Cl इन परमाणु में एक सहसंयोजकीय बंध होता है । इस जानकारी के आधार पर H व Cl परमाणु द्वारा HCl इस अणु का निर्माण कैसे होता है, उसे इलेक्ट्रॉन संरूपण के रेखांकन द्वारा दर्शाओ ।

## स्वाध्याय

1. कोष्ठक में दिए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो ।

(धीरे-धीरे, रंगीन, तीर, शीघ्र, गंध, दूधिया, भौतिक, उत्पादित, रासायनिक, अभिकारक, सहसंयोजकीय, आयनिक, अष्टक, द्विक, आदान-प्रदान, साझेदारी बराबर का चिह्न)

अ. रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते समय अभिकारक और उत्पाद के बीच..... निकालते हैं ।

आ. लोहे में जंग लगना ..... परिवर्तन हैं ।

इ. भोज्य पदार्थ का खराब होना यह रासायनिक परिवर्तन हैं, उसमें विशिष्ट ..... निर्माण होती हैं उसके द्वारा पहचाना जाता हैं ।

ई. परखनली में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के रंगहीन विलयन को फूंकते रहने से कुछ समय के बाद द्रव्य ..... होता हैं ।

उ. नींबू के रस में थोड़ा सा सोड़ा चूर्ण डालने पर कुछ समय बाद सफेद कण अदृश्य होते हैं इसलिए ये ..... परिवर्तन हैं ।

ऊ. श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन यह एक ..... हैं ।

ए. सोडियम क्लोराइड ..... यौगिक हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड ..... यौगिक हैं ।

ऐ. हाइड्रोजन के अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ..... पूर्ण होता हैं ।

ओ. दो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ..... होकर  $Cl_2$  अणु तैयार होता हैं ।

2. शाब्दिक समीकरण लिखकर स्पष्ट करो :

अ. श्वसन यह एक रासायनिक परिवर्तन हैं

आ. धोने के सोड़ा का द्रव्य मिलाने से दुष्फेन पानी सुफेन हो जाता है ।

इ. तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर चूने का पत्थर अदृश्य हो जाता है ।

ई. खाने के सोड़े के चूर्ण पर नींबू का रस डालने पर बुलबुले दिखाई देते हैं ।

3. जोड़ियाँ मिलाओ :

अ. प्रकाशसंश्लेषण  
आ. पानी

इ. सोडियम  
क्लोराइड

ई. पानी में नमक  
घुलना

उ. कार्बन

ऊ. फ्लोरिन

ए. मैग्नीशियम

i. इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति

ii. ज्वलन की क्रिया  
का अभिकारक

iii. रासायनिक परिवर्तन

iv. सहसंयोजकीय बंध

v. आयनिक यौगिक

vi. भौतिक परिवर्तन

vii. ऋण आयन बनाने की  
प्रवृत्ति

4. घटक परमाणुओं से निम्नलिखित यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है यह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के रेखांकन से दर्शाओ ।

अ. सोडियम क्लोराइड

इ. पानी

आ. पोटैशियम फ्लोराइड

ई. हाइड्रोजन क्लोराइड

उपक्रम :

तुम्हारे घर तथा तुम्हारे परिसर में दिखाई देने वाले रासायनिक परिवर्तन की सूची बनाओ तथा कक्षा में इस संबंध में चर्चा करो ।



## 14. ऊष्मा का मापन तथा प्रभाव



### थोड़ा याद करो ।

1. हमें ऊष्मा कौन-कौन से स्रोतों से प्राप्त होती है?
  2. ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है?
  3. ऊष्मा के कौन-कौन से प्रभाव तुम्हें मालूम हैं?
- आकृति 14.1 में ऊष्मा के विविध परिणाम दिखाए गए हैं, वे कौन-से हैं?

हमने पिछली कक्षा में देखा है कि ऊष्मा यह ऊर्जा का एक रूप है, जो अधिक तापमान वाले वस्तु से कम तापमानवाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। किसी एक वस्तु का तापमान यह वह वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है यह दर्शाता है। ठंडे वस्तु का तापमान गर्म वस्तु के तापमान से कम होता है। अर्थात् आइस्क्रीम का तापमान यह चाय के तापमान से कम होता है।

हमने यह भी देखा है कि ऊष्मा देने पर पदार्थ का प्रसरण होता है तथा पदार्थ ठंडा करने पर उसका आकुंचन होता है। उसी प्रकार ऊष्मा के कारण द्रव्य में अवस्था परिवर्तन होता है।

ऊष्मा की SI प्रणाली में इकाई जूल (Joule) तथा CGS प्रणाली में ऊष्मा की इकाई कैलरी है।  $1 \text{ cal ऊष्मा} = 4.18 \text{ J}$  के बराबर होती है। 1 ग्राम पानी का तापमान  $1^\circ\text{C}$  तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा (ऊर्जा) 1 cal होती है।

### हल किए गए उदाहरण

**उदाहरण 1.** 1.5 Kg पानी का तापमान  $15^\circ\text{C}$  से  $45^\circ\text{C}$  तक बढ़ने के लिए कितनी ऊर्जा (ऊष्मा) लगेगी? उत्तर कैलरी और जूल इन दोनों में दो।


दिया गया है :

$$\begin{aligned} \text{पानी का द्रव्यमान} &= 1.5 \text{ Kg} = 1500 \text{ gm} \\ \text{तापमान में अंतर} &= 45^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C} = 30^\circ\text{C} \\ \text{तापमान वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा (cal)} &= \text{पानी का द्रव्यमान (gm)} \times \text{तापमान में हुई वृद्धि } (^\circ\text{C}) \\ &= 1500 \text{ gm} \times 30^\circ\text{C} = 45000 \text{ cal} \\ &= 45000 \times 4.18 = 188100 \text{ J} \end{aligned}$$

**उदाहरण 2 :** 300 cal ऊष्मा देने पर पानी का तापमान  $10^\circ\text{C}$  से बढ़ता है तो पानी का द्रव्यमान कितना होगा?

दिया गया है :

$$\begin{aligned} \text{ऊष्मा (cal)} &= 300 \text{ cal} \\ \text{तापमान में अंतर} &= 10^\circ\text{C}, \text{ पानी का द्रव्यमान (m)} = ? \\ \text{ऊष्मा (cal)} &= \text{पानी का द्रव्यमान (gm)} \times \text{तापमान में वृद्धि } (^\circ\text{C}) \\ 300 &= m \times 10 \\ m &= 30 \text{ gm} \end{aligned}$$



14.1 ऊष्मा के विविध परिणाम

### ऊष्मा के स्रोत (Source of heat)

1. **सूर्य** : सूर्य यह पृथ्वी को प्राप्त होनेवाली ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के केंद्र में होनेवाले नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) के कारण अत्याधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक का संयोग होकर हीलियम के नाभिक तैयार होते हैं और उसी से ऊर्जा की निर्मिति होती है। इसमें की कुछ ऊर्जा प्रकाश तथा ऊष्मा के स्वरूप में पृथ्वी तक पहुँचती है।
2. **पृथ्वी** : पृथ्वी के केंद्र का तापमान अधिक होने से पृथ्वी भी ऊष्मा का स्रोत है। इस ऊष्मा को भू-औष्णिक ऊर्जा कहते हैं।
3. **रासायनिक ऊर्जा** : लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि ईंधनों के ज्वलन में ईंधन की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होकर ऊष्मा का निर्माण होता है।
4. **विद्युत ऊर्जा** : विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके ऊष्मा निर्माण करने के अनेक साधन उपलब्ध हैं जिसमें विद्युत इस्त्री, विद्युत चुल्हा इत्यादि को तुमने दैनिक जीवन में देखा ही है अर्थात् विद्युत भी ऊष्मा का स्रोत है।

5. **परमाणु ऊर्जा** : कुछ तत्वों जैसे युरेनियम, थोरियम इत्यादि के परमाणुओं के केंद्रकों का विभाजन करने पर अत्यंत कम समय में प्रचंड ऊर्जा और ऊष्मा का निर्माण होता है। परमाणु ऊर्जा प्रकल्प में इसी प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।


6. **हवा** : हमारे आसपास में पाई जानेवाली हवा में भी अधिक मात्रा में ऊष्मा समाविष्ट है।

**तापमान (Temperature)** : कोई एक पदार्थ कितना गर्म है अथवा कितना ठंडा है यह हम उस पदार्थ को हाथ लगाकर बता सकते हैं; परंतु हमें महसूस होनेवाली गर्म अथवा ठंडा यह संवेदना सापेक्ष होती है। यह हम नीचे दी गई कृति के द्वारा समझ सकते हैं।



**करो और देखो।**

1. तीन एक जैसे बर्तन लो, उन्हें अ, ब और क नाम दो। (आकृति 14.2 देखो)
2. 'अ' बर्तन में गरम और 'ब' बर्तन में ठंडा पानी भरो। 'क' बर्तन में 'अ' और 'ब' बर्तन का थोड़ा थोड़ा पानी डालो।
3. तुम्हारा दाया हाथ 'अ' बर्तन में और बाया हाथ 'ब' बर्तन में डुबाओ और 2-3 मिनट तक रखो।
4. अब दोनों हाथ एक साथ 'क' बर्तन में डुबाओ। तुम्हें क्या महसूस हुआ ?



14.2 सापेक्ष संवेदना

दोनों हाथ एक ही बर्तन के पानी में अर्थात एक ही तापमानवाले पानी में डालने पर भी दाएँ हाथ को वह पानी ठंडा लगेगा और बाएँ हाथ को वही पानी गरम लगेगा इसका क्या कारण है? इस पर विचार करो।


उपर्युक्त कृति से तुम्हारे ध्यान में आया होगा की केवल स्पर्श से किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का तापमान हम सटीक रूप से बता नहीं सकते। उसी प्रकार अधिक गर्म अथवा अधिक ठंडी वस्तु को हाथ लगाने पर जख्म होने की संभावना भी होती है। इसलिए तापमान का मापन करने के लिए हमें उपकरण की आवश्यकता होती है। तापमापी (thermometer) यह तापमान का मापन करने का साधन (उपकरण) है। तुमने पिछली कक्षा में तापमापी के विषय में पढ़ा है। इस पाठ में हम तापमापी की रचना एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी लेने वाले हैं।



**थोड़ा याद करो।** स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या हैं ?

**ऊष्मा और तापमान (Heat and temperature)** : ऊष्मा और तापमान इनमें क्या अंतर है? पदार्थ परमाणुओं से बना होता है यह हमें मालुम है। पदार्थ में परमाणु सतत गतिशील होते हैं। उनमें पाई जानेवाली गतिज ऊर्जा की कुल मात्रा यह उस पदार्थ में पाई जानेवाली ऊष्मा का द्योतक होता है, तो तापमान यह परमाणुओं के औसत गतिज ऊर्जा पर निर्भर होता है। दो पदार्थों में परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा समान होने पर उनका तापमान भी समान होता है।

आकृति 14.3 'अ' और 'ब' में अधिक तापमान और उसकी अपेक्षा कम तापमानवाले गैसों के परमाणुओं की गति क्रमशः दिखाई गई है। परमाणुओं को जोड़कर दिखाए गए तीरों की दिशा और लंबाई क्रमशः परमाणुओं के वेग की दिशा और परिणाम दर्शाते हैं। गर्म हवा में परमाणुओं का वेग ठंडी हवा में परमाणुओं के वेग की अपेक्षा अधिक होता है।



14.3 गैस व ठोस में परमाणुओं की गति



आकृति 'क' में ठोस पदार्थ के परमाणुओं का वेग तीरों द्वारा दर्शाया गया है। ठोस में परमाणु उनमें पाए जानेवाले परस्पर बल से आबद्ध होते हैं और उसी कारण वे अपने स्थान से विस्थापित नहीं होते। ऊष्मा के कारण अपने स्थिर जगह पर ही दोलनित होते हैं। जितना ठोस पदार्थ का तापमान अधिक उतना उसका दोलन वेग अधिक होता है।

मानलो 'अ' और 'ब' एक ही पदार्थ द्वारा बनी दो वस्तुएँ हैं। 'अ' का द्रव्यमान 'ब' के द्रव्यमान से दुगना है अर्थात् 'अ' में परमाणुओं की संख्या यह 'ब' में परमाणुओं की संख्या से दुगनी है। यदि 'अ' तथा 'ब' का तापमान समान हो अर्थात् उसमें पाए जानेवाले परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा समान हो तो भी 'अ' में के परमाणुओं की कुल गतिज ऊर्जा यह 'ब' में के परमाणुओं की कुछ गतिज ऊर्जा की अपेक्षा दो गुनी होगी अर्थात्, 'अ' और 'ब' का तापमान समान होने पर भी 'अ' की ऊष्मा यह 'ब' की ऊष्मा की अपेक्षा दुगनी होगी।



### करो और देखो।

1. एक ही आकार के दो 'अ' और 'ब' स्टील के बर्तन लो।
2. 'अ' में थोड़ा पानी डालो और 'ब' में उसके दुगना पानी लो। दोनों बर्तनों के पानी का तापमान समान हैं ये सुनिश्चित करो।
3. एक स्पिरिट लॉम्प लेकर 'अ' और 'ब' के पानी को गर्म करके तापमान  $10^{\circ}\text{C}$  से बढ़ाओ। दोनों बर्तनों का तापमान बढ़ाने के लिए क्या समान समय लगा?

'ब' इस बर्तन के तापमान में वृद्धि करने के लिए तुम्हें अधिक समय लगा होगा अर्थात् समान तापमान वृद्धि के लिए तुम्हें 'ब' को अधिक ऊष्मा देनी पड़ी। अर्थात् 'अ' और 'ब' में का तापमान समान होने पर भी 'ब' में की पानी की ऊष्मा यह 'अ' में की पानी की ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होगी। तापमान का मापन करने के लिए अंश सेल्सियस ( $^{\circ}\text{C}$ ), फॉरेन हाइट ( $^{\circ}\text{F}$ ) और केल्विन ( $\text{K}$ ) इन इकाईयों का उपयोग करते हैं। केल्विन यह इकाई वैज्ञानिक प्रयोग में उपयोग में लाते हैं तो अन्य दोनों इकाईयों का उपयोग दैनिक व्यवहार में करते हैं। इन तीनों का संबंध निम्न सूत्रों द्वारा दिखाया गया है।

$$\frac{(F-32)}{9} = \frac{C}{5} \text{ -----(1)}$$

$$K = C + 273.15 \text{ -----(2)}$$

संलग्न तालिका में कुछ विशिष्ट तापमान सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन इन तीनों इकाईयों में दिए गए हैं। वे उपर्युक्त सूत्रों के अनुसार हैं, इसकी जाँच करो और रिक्त स्थानों में उचित मान लिखो।

वर्णन	$^{\circ}\text{F}$	$^{\circ}\text{C}$	$\text{K}$
पानी का क्वथनांक	212	100	373
पानी का हिमांक	32	0	273
कमरे का तापमान	72	23	296
पारे का क्वथनांक		356.7	
पारे का हिमांक		-38.8	

### हल किए गए उदाहरण

**उदाहरण 1.**  $68^{\circ}\text{F}$  तापमान सेल्सियस और केल्विन इन इकाईयों में कितना होगा?

**दिया गया है :** फॉरेनहाइट में तापमान =  $F = 68$

सेल्सियस में तापमान =  $C = ?$ , केल्विन में तापमान =  $K = ?$

सूत्र (1) के अनुसार  $\frac{(F-32)}{9} = \frac{C}{5}$

$$\frac{(68-32)}{9} = \frac{C}{5}$$

$$C = 5 \times \frac{36}{9} = 20^{\circ}\text{C}; \text{ सूत्र (2) से, } K = C + 273.15$$

$$K = 20 + 273.15 = 293.15 \text{ K}$$

सेल्सियस में तापमान =  $20^{\circ}\text{C}$  व केल्विन में तापमान =  $293.15 \text{ K}$

**उदाहरण 2 :** कौन-सा तापमान सेल्सियस और फॉरेनहाइट इन दोनों इकाइयों में समान होगा ?

दिया गया है : माना सेल्सियस का तापमान C हो तो और फॉरेनहाइट का तापमान F हो तो  $F = C$ .

$$\text{सूत्र (1) से } \frac{(F-32)}{9} = \frac{C}{5}$$

$$\text{अर्थात्, } \frac{(C-32)}{9} = \frac{C}{5}$$

$$(C-32) \times 5 = C \times 9$$

$$5C - 160 = 9C$$

$$4C = -160$$

$$C = -40^\circ\text{C} = -40^\circ\text{F सेल्सियस में व फॉरेनहाइट में तापमान } -40^\circ \text{ होने पर समान होगा ।}$$

**तापमापी (Thermometer) :** घर में किसी को बुखार आने पर उपयोग में लाया जाने वाला तापमापी तुमने देखा होगा। उस तापमापी को चिकित्सकीय तापमापी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तापमापी भिन्न-भिन्न प्रकार के मापन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सर्वप्रथम सामान्य (सरल) तापमापी के रचना एवं कार्य के विषय में जानकारी लेंगे।


आकृति 14.4 'अ' में एक तापमापी का चित्र दिखाया गया है। तापमापी में एक काँच की पतली नली होती है जिसके एक सिरे पर एक गुब्बारा होता है। नली में पहले पारा भरा हुआ होता था परंतु पारा हमारे लिए हानिकारक होने के कारण उसके स्थान पर अब अल्कोहल का उपयोग करते हैं। नली की शेष जगह निर्वात के रूप में होकर नली का दूसरा सिरा बंद होता है। जिस पदार्थ या वस्तु का तापमान मापते हैं, उस वस्तु के संपर्क में तापमापी का गुब्बारा कुछ समय तक रखा जाता है जिसके कारण उसका तापमान वस्तु के तापमान के बराबर होता है। तापमान में हुई वृद्धि के कारण अल्कोहल का प्रसरण होता है और नली में उसका स्तर बढ़ता है। अल्कोहल के प्रसरण के गुणधर्म का उपयोग कर (इसकी चर्चा इस पाठ में आगे की गई है) उसके नली में के स्तर से तापमान मालुम करते आता है और उस प्रकार से तापमापी की नली चिह्नंकित होती है।

आकृति 14.4 'ब' में चिकित्सकीय तापमापी दिखाई गई है। एक स्वस्थ्य मनुष्य के शरीर का तापमान  $37^\circ\text{C}$  होता है जिसके कारण चिकित्सकीय तापमापी में सामान्यतः  $35^\circ\text{C}$  से  $42^\circ\text{C}$  तक के तापमान का मापन करते आता है। आजकल चिकित्सकीय उपयोग के लिए उपर्युक्त तापमापी के स्थान पर डिजिटल तापमापी का उपयोग किया जाता है। यह आकृति 14.4 'क' में दिखाया गया है। इसमें तापमान का मापन करने के लिए ऊष्मा के कारण होनेवाले द्रव के

प्रसरण का उपयोग न करते हुए एक संवेदक (Sensor) का उपयोग करते हैं। जो शरीर से निकलनेवाली ऊष्मा का और उस आधार पर तापमान का प्रत्यक्ष मापन कर सकता है।

प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जानेवाला तापमापी उपर्युक्त आकृति 14.4 'अ' नुसार ही होता है परंतु उसके तापमान की गणना करने का विस्तार अधिक हो सकता है। उसके द्वारा  $-40^\circ\text{C}$  से  $110^\circ\text{C}$  के बीच का अथवा उससे भी कम व अधिक तापमान का मापन किया जा सकता है। दिन भर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का मापन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के तापमापी का उपयोग करते हैं जिसे न्यूनतम-अधिकतम तापमापी कहते हैं। यह आकृति 14.4 'ड' में दिखाया गया है।

अ. तापमापी



ब. चिकित्सकीय तापमापी



क. डिजिटल तापमापी



ड. न्यूनतम-अधिकतम तापमापी



**14.4 : विविध प्रकार के तापमापी**

कोई एक गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रखने पर उन दोनों में ऊष्मा का आदान-प्रदान होता है। गर्म वस्तु ऊष्मा देती है और ठंडी वस्तु ऊष्मा ग्रहण करती है, जिसके कारण गर्म वस्तु का तापमान कम होता है तो ठंडी वस्तु का तापमान में वृद्धि होती है अर्थात् गर्म वस्तु में परमाणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती जाती है तो ठंडी वस्तु का परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उस समय दोनों परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा समान होती है, अर्थात् उनका तापमान भी समान होता है।

**विशिष्ट ऊष्मा (Specific heat) :** पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यह एक इकाई द्रव्यमानवाले पदार्थ के तापमान में  $1^{\circ}\text{C}$  तापमान में वृद्धि करने के लिए लगनेवाली ऊष्मा है। इसे 'C' इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इसकी SI प्रणाली में इकाई  $\text{J}/(\text{Kg } ^{\circ}\text{C})$  और CGS प्रणाली में इकाई  $\text{Cal}/(\text{gm } ^{\circ}\text{C})$  यह है। विशिष्ट ऊष्मा  $c$  और द्रव्यमान  $m$  वाले पदार्थ का तापमान  $T_i$  से  $T_f$  तक बढ़ाना हो तो उसे  $Q$  ऊर्जा देनी पड़ेगी। यह पदार्थ के द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापमान में हुई वृद्धि पर निर्भर होती है। यह हम निम्न सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं।

$$Q = m \times c \times (T_f - T_i) \text{-----}(3)$$

भिन्न-भिन्न पदार्थों की विशिष्ट उष्मा भिन्न-भिन्न होती है। अगली कक्षा में इस संबंध में अधिक जानकारी लेंगे। संलग्न तालिका में कुछ वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्मा दी है।

**कैलरीमापी (Calorimeter) :** हमने देखा है कि पदार्थ का तापमान मापने के लिए तापमापी का उपयोग करते हैं। पदार्थ की ऊष्मा का मापन करने के लिए कैलरी मापी इस उपकरण का उपयोग करते हैं। इस उपकरण द्वारा किसी रासायनिक अथवा भौतिक प्रक्रिया में बाहर निकलने अथवा अभिशोषित होनेवाली ऊष्मा का मापन कर सकते हैं। आकृति 14.5 में एक कैलरी मापी दिखाया गया है। इसमें किसी थर्मोस फ्लास्क के अनुसार ही अंदर और बाहर ऐसे दो बर्तन होते हैं जिसके कारण अंदर के बर्तन में रखे पदार्थों की ऊष्मा अंदर से बाहर जा नहीं सकती और उसी प्रकार ऊष्मा बाहर से अंदर आ नहीं सकती अर्थात् अंदर का बर्तन और उसमें के पदार्थ को आसपास से ऊष्मीय दृष्टि से दूर रखे जाते हैं। यह बर्तन तांबे के होता है। इसमें तापमान का मापन करने के लिए एक तापमापी और द्रव हिलाने के लिए एक विलोडक रखा जाता है।



### थोड़ा सोचो।

1. बुखार आने पर माँ तुरंत कपाल पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती है। क्यों?
2. कैलरी मापी तांबे की क्यों बनाते हैं?


कैलरीमापी में एक स्थिर तापमानवाला पानी रखा जाता है। अर्थात् पानी का और अंदर के बर्तन का तापमान

पदार्थ	विशिष्ट ऊष्मा cal / (gm $^{\circ}\text{C}$ )	पदार्थ	विशिष्ट ऊष्मा cal / (gm $^{\circ}\text{C}$ )
एल्युमिनियम	0.21	लोहा	0.11
अल्कोहल	0.58	ताँबा	0.09
सोना	0.03	पारा	0.03
हाइड्रोजन	3.42	पानी	1.0

समान होता है। उसमें कोई एक गर्म वस्तु डालने पर उस वस्तु, पानी और अंदर के बर्तन इनमें ऊष्मा का आदान-प्रदान होता है और इस कारण उनका तापमान समान होता है। कैलरीमापी के अंदर वाले बर्तन और उसमें रखा पदार्थ आसपास की अन्य सभी वस्तुओं से और वातावरण से ऊष्मीय दृष्टि से दूर रखने पर गर्म वस्तु द्वारा दी गई कुल ऊष्मा और पानी द्वारा तथा कैलरीमापी द्वारा ग्रहण की गई कुल ऊष्मा यह समान होती है।

इसी प्रकार कैलरीमापी में गर्म वस्तु के स्थान पर ठंडी वस्तु डालने पर वह वस्तु पानी में से ऊष्मा ग्रहण करेगी और उसके तापमान में वृद्धि होगी। पानी की और कैलरीमापी की ऊष्मा कम होगी और उनका तापमान भी कम होगा।

मानलो कैलरीमापी के अंदरवाले बर्तनों का द्रव्यमान  $m_c$  और तापमान ' $T_1$ ' हैं और उसमें भरे हुए पानी का द्रव्यमान ' $M_w$ ' है। पानी का तापमान कैलरीमापी के तापमान के बराबर अर्थात् ' $T_1$ ' होगा। उसमें हमने ' $m_o$ ' द्रव्यमान और ' $T_o$ ' तापमान वाला पदार्थ डाला।  $T_o$  यह  $T_1$  की अपेक्षा अधिक होने पर वह पदार्थ ऊष्मा पानी को और कैलरी मापी को देगा और जल्दी ही इन तीनों का तापमान समान होगा।



### 14.5 कैलरीमापी

$$Q_o = m_o \times \Delta T_o \times C_o, \quad \Delta T_o = T_o - T_f$$

$$Q_w = m_w \times \Delta T_w \times C_w, \quad \Delta T_w = T_f - T_i$$

$$Q_c = m_c \times \Delta T_c \times C_c, \quad \Delta T_c = T_f - T_i = \Delta T_w$$

$$\text{सूत्र (4) नुसार } m_o \times \Delta T_o \times C_o = m_w \times \Delta T_w \times C_w + m_c \times \Delta T_c \times C_c \text{ -----(5)}$$

हम सभी तापमानों का और द्रव्यमानों का मापन कर सकते हैं। उसी प्रकार पानी का और कैलरी मापी का अर्थात् तांबे की विशिष्ट ऊष्मा मालुम होने पर वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हम सूत्र (5) का उपयोग कर ज्ञात कर सकते हैं। इसके विषय में अधिक विस्तृत जानकारी हम अगली कक्षा में सीखनेवाले हैं।

### हल किए गए उदाहरण

**उदाहरण :** मानलो कैलरीमापी, उसमें रखा गया पानी और उसमें डाली गई तांबे की वस्तु इनका द्रव्यमान समान हैं। गर्म वस्तु का तापमान  $60^\circ\text{C}$  और पानी का तापमान  $30^\circ\text{C}$  हैं। तांबे की और पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्रमश  $0.09\text{Cal}/(\text{gm}^\circ\text{C})$  तथा  $1\text{ cal}/(\text{gm}^\circ\text{C})$  है, तो पानी का अंतिम तापमान ज्ञात करो।

दिया गया है :  $m_o = m_w = m_c = m, T_i = 30^\circ\text{C}, T_o = 60^\circ\text{C}, T_f = ?$

$$\text{सूत्र (4) से } m \times (60 - T_f) \times 0.09$$

$$= m \times (T_f - 30) \times 1 + m \times (T_f - 30) \times 0.09$$

$$\therefore (60 - T_f) \times 0.09 = (T_f - 30) \times 1.09$$

$$60 \times 0.09 + 30 \times 1.09 = (1.09 + 0.09)T_f$$

$$T_f = 32.29^\circ\text{C}$$

पानी का अंतिम तापमान  $32.29^\circ\text{C}$  होगा।

### ऊष्मा का प्रभाव (Effects of heat)

हमने पिछली कक्षा में ऊष्मा के पदार्थों पर होने वाले दो परिणाम देखे हैं।

1. आकुंचन / प्रसरण 2. पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। इस पाठ में हम प्रसरण के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करनेवाले हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तुम अगली कक्षा में पढ़नेवाले हो।

### प्रसरण (Expansion)

किसी भी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसके तापमान में वृद्धि होती है उसी प्रकार उसका प्रसरण होता है। होनेवाला प्रसरण उसके तापमान में होनेवाले वृद्धि पर निर्भर होता है। ऊष्मा के कारण ठोस, द्रव और गैस ऐसे सभी पदार्थों का प्रसरण होता है।

इस अंतिम तापमान को हम ' $T_f$ ' कहेंगे। पदार्थ द्वारा दी गई कुल ऊष्मा ( $Q$ ) यह पानी द्वारा ग्रहण की गई कुल ऊष्मा ( $Q_c$ ) और कैलरीमापी द्वारा ग्रहण की गई कुल ऊष्मा ( $Q_w$ ) इनके योगफल के बराबर होगी। यह समीकरण हम निम्नप्रकार से लिख सकते हैं।

$$Q_o = Q_w + Q_c \text{ ----- (4)}$$

ऊपर दिए अनुसार  $Q_o, Q_w$  और  $Q_c$  ये द्रव्यमान, तापमान में परिवर्तन अर्थात्  $\Delta T$  (डेल्टा टी) और पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इन पर निर्भर होते हैं। कैलरी मापी के पदार्थ का, पानी का और गर्म वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्रमश:  $C_c, C_w$  और  $C_o$  होने पर सूत्र (3) का उपयोग करके,



## ठोस का प्रसरण (Expansion of solids)

**एकरेखीय प्रसरण (Linear Expansion) :** ठोस का एक रेखीय प्रसरण अर्थात् तापमान में वृद्धि के कारण तार अथवा छड़ के रूप में ठोस की लंबाई में होनेवाली वृद्धि। एक  $l_1$  लंबाई वाले छड़ का तापमान  $T_1$  से  $T_2$  तक बढ़ने पर उसकी लंबाई  $l_2$  होती है। छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि यह छड़ की मूल लंबाई और होनेवाले तापमान में वृद्धि का ( $\Delta T = T_2 - T_1$ ) अनुपात होता है। अर्थात् लंबाई में होनेवाला परिवर्तन निम्न सूत्र द्वारा लिखते हैं। लंबाई में होनेवाला परिवर्तन  $\alpha$  मूल लंबाई  $\times$  तापमान में परिवर्तन

$$\therefore l_2 - l_1 \propto l_1 \times \Delta T$$

$$\therefore l_2 - l_1 = \lambda \times l_1 \times \Delta T \text{ -----(6)}$$

$$\therefore l_2 = l_1 (1 + \lambda \Delta T) \text{ -----(7)}$$

यहाँ  $\lambda$  (लॅम्बडा) यह स्थिरांक है उसे पदार्थ का एक रेखीय प्रसरणांक कहते हैं।

भिन्न-भिन्न पदार्थों का प्रसरणांक भिन्न-भिन्न होता है। ऊपर्युक्त सूत्र से दिखाई देता है कि दो पदार्थों के समान लंबाईवाले छड़ों का तापमान समान परिमाण में बढ़ाने पर (अर्थात्  $\Delta T$  समान रखने पर) जिस पदार्थ का प्रसरणांक अधिक होता है वह पदार्थ अधिक प्रसरित होगा और उस पदार्थ की लंबाई में अधिक वृद्धि होगी।

ऊपर्युक्त सूत्र से हम पदार्थ का प्रसरणांक निम्नानुसार लिख सकते हैं।

$$\lambda = (l_2 - l_1) / (l_1 \Delta T) \text{ -----(8)}$$

अर्थात् प्रसरणांक यह इकाई लंबाईवाले छड़ का तापमान इकाई से बढ़ने पर उसके लंबाई में होनेवाला परिवर्तन दर्शाता है। ऊपर्युक्त सूत्र से ऐसा दिखाई देता है कि प्रसरणांक की इकाई तापमान की इकाई के प्रतिलोमानुपाती होती है। अर्थात्  $1/^\circ\text{C}$  होती है।

निम्न तालिका में कुछ पदार्थों का प्रसरणांक दिया गया है।

ठोस पदार्थ	एकरेखीय प्रसरणांक $\times 10^{-6} (1/^\circ\text{C})$	द्रव पदार्थ	घनीय प्रसरणांक $\times 10^{-3} (1/^\circ\text{C})$	गैसीय पदार्थ	प्रसरणांक $\times 10^{-3} (1/^\circ\text{C})$
ताँबा	17	अल्कोहल	1.0	हाइड्रोजन	3.66
एल्युमिनियम	23.1	पानी	0.2	हीलियम	3.66
लोहा	11.5	पारा	0.2	नाइट्रोजन	3.67
चांदी	18	क्लोरोफोर्म	1.3	सल्फर डाय ऑक्साइड	3.90

### 14.6 : कुछ पदार्थों के प्रसरणांक

#### हल किए गए उदाहरण

**उदाहरण :** एक आधे मीटर लंबाई वाले स्टील की छड़ का तापमान  $60^\circ\text{C}$  से बढ़ने पर उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी? स्टील का एक रेखीय प्रसरणांक  $= 0.0000131/^\circ\text{C}$  है।

दिया गया है : छड़ की मूल लंबाई  $= 0.5 \text{ m}$ , तापमान में हुई वृद्धि  $= 60^\circ\text{C}$ , लंबाई में हुई वृद्धि  $= \Delta l = ?$

सूत्र (6) से  $\Delta l = \lambda \times l_1 \times \Delta T = 0.000013 \times 0.5 \times 60 = 0.00039 \text{ m}$

लंबाई में हुई वृद्धि  $= 0.039 \text{ cm}$

**ठोस का प्रतलीय प्रसरण (Planar expansion of solids) :** ठोस के एकरेखीय प्रसरण के अनुसार ही ठोस के चद्दर का तापमान बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, उसे ठोस का प्रतलीय प्रसरण कहते हैं। वह निम्न सूत्र से बताया गया है।

$$A_2 = A_1 (1 + \sigma \Delta T) \text{ -----(9)}$$

यहाँ  $\Delta T$  यह तापमान में परिवर्तन होकर  $A_1$  और  $A_2$  यह ठोस के चद्दर का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्रफल है।  $\sigma$  (सिग्मा) यह पदार्थ का द्विघातिय या प्रतलीय प्रसरणांक है।

**ठोस का घनीय प्रसरण (Volumetric expansion of solids) :** ठोस के चद्दर जैसे ठोस के त्रिमितीय टुकड़े को ऊष्मा देने पर उसका सभी ओर से प्रसरण होता है और उसके आयतन में वृद्धि होती है। इसे ठोस का घनीय प्रसरण कहते हैं। इसका सूत्र हम निम्नानुसार लिख सकते हैं।

$V_2 = V_1 (1 + \beta \Delta T) \text{ -----(10)}$  यहाँ  $\Delta T$  यह तापमान में होनेवाला परिवर्तन होकर  $V_2$  और  $V_1$  यह द्रव ठोस का अंतिम तथा प्रारंभिक आयतन है और  $\beta$  (बीटा) यह द्रव ठोस का प्रसरणांक है।



## क्या तुम जानते हो ?

तुमने रेल पटरी देखी हैं क्या ? वे लंबी ही लंबी एक साथ जुड़ी नहीं होती । कुछ निश्चित दूरी पर उसमें थोड़ी दूरा रखी जाती हैं अर्थात तापमान में होनेवाले परिवर्तन के अनुसार उनकी लंबाई कम या अधिक होने में मदद होती हैं । यह दूरा रखी नहीं तो ऊष्मा के कारण प्रसरित हुई पटरी टेढ़ी होगी और दुर्घटना होने की संभावना होगी ।



रेल की पटरी के समान प्रसरण के कारण गर्मी में पुलों की लंबाई में वृद्धि होने की संभावना होती है । डेन्मार्क में 18 km लंबाईवाले The great bell bridge की लंबाई गर्मी में 4.7 m से बढ़ती हैं, इसलिए पुल की रचना में भी इस प्रसरण को समाविष्ट करने की व्यवस्था की गई हैं ।

## द्रव का प्रसरण (Expansion of liquids)

द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, परंतु उन्हें निश्चित आयतन होता है । इसलिए हम द्रव का घनीय प्रसरणांक उपर्युक्त सूत्र द्वारा लिख सकते हैं ।

$$V_2 = V_1 (1 + \beta \Delta T) \text{-----(11)}$$

यहाँ  $\Delta T$  यह तापमान में होनेवाला परिवर्तन है तथा  $V_2$  और  $V_1$  ये द्रव का अंतिम तथा प्रारंभिक आयतन हैं और  $\beta$  यह द्रव का प्रसरणांक हैं ।




## थोड़ा सोचो ।

द्रव के प्रसरण का दैनिक जीवन में होनेवाला कौन-सा उपयोग तुम्हें मालूम है ?

ऊष्मा का पानी पर होनेवाला परिणाम यह अन्य द्रवों पर होनेवाले परिणाम की अपेक्षा थोड़ा भिन्न होता है । इसे ही पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं । इसके विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं ।

## गैस का प्रसरण (Expansion of gases)

गैस का निश्चित आयतन भी नहीं होता है । गैस को ऊष्मा देने पर उसका प्रसरण होता है, परंतु गैस को एक निश्चित आकार के बोतल में भरने पर उसके आयतन में वृद्धि नहीं हो सकती और उसका दाब बढ़ता है । यह आकृति 14.7 में दिखाया गया है ।



## 14.7 ऊष्मा का गैस पर होनेवाले परिणाम

आकृति 14.7 देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो ।

1. घनत्व = द्रव्यमान/आयतन इस सूत्र के अनुसार बंद बोतल में गैस के तापमान में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या परिणाम होगा ?
2. बोतल बंद न होने पर और उसमें सरकने वाली छड़ बैठाने पर गैस के आयतन पर कौन-सा परिणाम होगा ?

जिसके कारण दाब स्थिर रखकर गैस के प्रसरण का मापन करते हैं । इस प्रकार के प्रसरणांक को स्थिर दाब प्रसरणांक कहते हैं । वह निम्न सूत्र द्वारा दिया गया है ।

$$V_2 = V_1 (1 + \beta \Delta T) \text{-----(12)}$$

यहाँ  $\Delta T$  तापमान में होनेवाला परिवर्तन होकर  $V_2$  और  $V_1$  ये गैस के समान दाब पर अंतिम और प्रारंभिक आयतन हैं और यह  $\beta$  गैस का स्थिर दाब प्रसरणांक है ।



थोड़ा सोचो ।

गैस को ऊष्मा देने पर उसका घनत्व कम होता है । इसका उपयोग आकृति 14.1 में किस चित्र में दिखाई देता है ।

## स्वाध्याय

### 1.अ बताओ, मेरी जोड़ी किसके साथ ।

समूह 'अ'

- अ. स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान  
आ. पानी का क्वथनांक  
इ. कमरे का तापमान  
ई. पानी का हिमांक

समूह 'ब'

- i. 296 K  
ii. 98.6 °F  
iii. 0 °C  
iv. 212 °F

### 1.ब कौन सत्य कहता है ?

- अ. पदार्थ का तापमान जूल में मापते हैं ।  
आ. ऊष्मा यह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है ।  
इ. ऊष्मा की इकाई जूल है ।  
ई. ऊष्मा देने पर पदार्थ में आकुंचन होता है ।  
उ. ठोस के परमाणु स्वतंत्र होते हैं ।  
ऊ. गर्म पदार्थ के परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा ठंडे पदार्थ के परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की अपेक्षा कम होती है ।

### 1.क खोजोगे तो मिलेगा ।

- अ. तापमापी यह उपकरण ..... मापने के लिए उपयोग में लाते हैं ।  
आ. ऊष्मा का मापन करने के लिए ..... इस उपकरण का उपयोग करते हैं ।  
इ. तापमान यह पदार्थ में के परमाणुओं के ..... गतिज ऊर्जा की मात्रा होती है ।  
ई. किसी वस्तु की ऊष्मा यह उसमें के परमाणुओं के ..... गतिज ऊर्जा की मात्रा होती है ।

2. निशिंगंधा ने चाय बनाने के लिए चाय के सभी घटक डालकर बर्तन सौर चुल्हे पर रखा । शिवानी ने उसी प्रकार का बर्तन गैस पर रखा । किसकी चाय शीघ्र बनेगी और क्यों ?

### 3. संक्षिप्त में उत्तर लिखो ।

- अ. चिकित्सकीय तापमापी का संक्षेप में वर्णन करो । इसमें और प्रयोगशाला में उपयोगी तापमापी में क्या अंतर है ?  
आ. ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है ? उनकी इकाई लिखो ।  
इ. कॅलरी मापी की रचना आकृति के साथ स्पष्ट करो ।  
ई. रेल की पट्टी में कुछ निश्चित दूरी पर दरार क्यों रखी जाती है, यह स्पष्ट करो ।

ऊ. द्रव एवं गैस का प्रसरणांक क्या है यह सूत्रद्वारा स्पष्ट करो ।

### 4. निम्न उदाहरण हल करो ।

अ. फ़ैरेनहाइट इकाई का तापमान कितना होने पर वह सेल्सियस इकाई के तापमान से दुगुना होगा ?

(उत्तर : 320 °F)

आ. एक पुल 20 m लंबाईवाले लोहे के छड़ों से तैयार किया गया है । तापमान 18 °C होने पर दो छड़ों के बीच में 4 cm का अंतर होता है, तो कितने तापमान तक वह पुल सुरक्षित रहेगा ? (उत्तर : 35.40 °C)

इ. आयफेल टॉवर की ऊँचाई 15 °C पर 324m हैं तथा वह टॉवर लोहे का होने पर 30 °C तापमान के लिए उसकी ऊँचाई कितने cm तक बढ़ेगी ?

(उत्तर : 5.6 cm)

ई. 'अ' और 'ब' पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः C और 2C हैं । अ को Q और 'ब' को 4Q इतनी ऊष्मा देने पर उनके तापमान में समान परिवर्तन होता है । यदि 'अ' का द्रव्यमान m हो तो 'ब' का द्रव्यमान ज्ञात करो । (उत्तर : 2 m)

उ. एक 3 Kg द्रव्यमानवाली वस्तु 600 cal ऊर्जा प्राप्त करती है, तब उसका तापमान 10 °C से 70 °C तक बढ़ता है, तो वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करो ।

(उत्तर 0.0033 cal/gm°C)

### उपक्रम :

द्विधातु पट्टी (bimetallic strip) के विषय में जानकारी प्राप्त करो और उसका उपयोग कर अग्निसूचक यंत्र कैसे बनाते हैं इस विषय पर कक्षा में चर्चा करो ।



## 15. ध्वनि



थोड़ा याद करो ।

ध्वनि का निर्माण कैसे होता है ?

### ध्वनि का निर्माण (Production of Sound)

किसी वस्तु में कंपन होने के कारण ध्वनि का निर्माण होता है यह हमने सीखा है । ऐसे कंपन के कारण ध्वनि का निर्माण किस प्रकार होता है यह हम स्वरित्र द्विभुज (Tuning Fork) का उदाहरण लेकर समझेंगे । स्वरित्र द्विभुज की आकृति 15.1 में दर्शाई गई है । एक आधार और दो भुजा वाला, धातु से बना यह स्वरित्र द्विभुज है ।


आकृति 15.2 (अ) में स्थिर स्वरित्र द्विभुज दिखाया गया है । स्वरित्र द्विभुज के आसपास की हवा की स्थिति दर्शाने के लिए ऊर्ध्वार्ध रेखाओं का उपयोग किया है । यहाँ ऊर्ध्वार्ध रेखाओं के बीच अंतर समान है इसका अर्थ है कि हवा में स्थित गैसों के अणु एक-दूसरे से लगभग समान अंतर पर हैं अतः इस कारण हवा का औसतन दाब A, B और C इन तीनों स्थानों पर समान है ।



15.1 : स्वरित्र

आधार की सहायता से स्वरित्र द्विभुज द्वारा कठोर रबड़ के टुकड़े पर आघात करने पर भुजाएँ कंपित होने लगती हैं अर्थात् उनकी आगे-पीछे ऐसी आवर्ती (periodic) हलचल शुरू होती है । इस हलचल के कारण क्या होता है वह अब क्रमशः देखेंगे ।

कंपित होते समय, आकृति 15.2 (ब) में दर्शाए अनुसार स्वरित्र द्विभुज की भुजाएँ एक-दूसरे से दूर जाने पर भुजाओं की संपर्कवाली बाहरी हवा संपीड़ित होती है और वहाँ की हवा का दाब बढ़ जाता है । आकृति में हवा के भाग A के स्थान पर उच्च दाब की स्थिति का निर्माण होता है । उच्च दाब और उच्च घनत्व के इस भाग को संपीड़न (Compression) कहते हैं । कंपन की अगली स्थिति में स्वरित्र द्विभुज की भुजाएँ एक दूसरे के नजदीक आनेपर, आकृति 15.2 (क) में दर्शाए अनुसार भुजाओं के संपर्कवाली बाहरी हवा विरल होती है और वहाँ (भाग A में) हवा का दाब कम हो जाता है । कम दाब और कम घनत्व के इस भाग को विरलन (Rarefaction) कहते हैं ।



15.2 : स्वरित्र द्वारा ध्वनि का निर्माण


परंतु इसी समय पहले की संपीड़न स्थिति की हवा के अणुओं ने (आकृति 15.2(ब), भाग A) अपनी ऊर्जा अगले भाग के अणुओं (भाग B) को देने के कारण वहाँ की हवा संपीड़न स्थिति में जाती है (देखो आकृति 15.2(क), भाग B)। भुजाओं की इस प्रकार लगातार अति वेग से होनेवाली आवर्ती हलचल के कारण हवा में संपीड़न और विरलन इनकी मालिका का निर्माण होता है और स्वरित्र द्विभुज से दूरतक फैलती जाती है । इसे ही ध्वनि तरंग (sound wave) कहते हैं । यह ध्वनि तरंग कान तक आने पर कान का पर्दा (कर्णपट) कंपित होता है और उसके द्वारा विशिष्ट संदेश मस्तिष्क तक पहुँचकर हमें ध्वनि सुनाई देती है ।



थोड़ा सोचो ।

हवा में ध्वनि तरंग का निर्माण होने पर हवा आगे-आगे जाती है या हवा के अणु अपनी ही जगह पर आगे-पीछे होकर केवल संपीड़न व विरलन स्थिति का निर्माण आगे की हवा में होता जाता है ? ऐसा क्यों होता है ?





### ध्वनि का संचरण और माध्यम (Propagation of Sound and Medium):

कक्षा छठी में हमने सीखा है कि हवा, पानी या किसी ठोस में से होकर, ध्वनि तरंगों के रूप में संचरित होकर हमारे कानों तक पहुँचती हैं, लेकिन ध्वनि का स्रोत और अपना कान इन के बीच यदि ऐसा माध्यम न हो तो क्या होगा ?

ध्वनि का निर्माण करने लिए और संचरण करने के लिए हवा जैसे माध्यम की आवश्यकता है, यह प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। प्रयोग की रचना आकृति 15.3 में दर्शाई गई है। इस रचना में काँच की एक हंडी (Bell jar) समतल पृष्ठभाग पर रखी है। एक नली की सहायता से यह हंडी एक निर्वात पंप से (Vacuum-pump) जुड़ी है। निर्वात पंप की सहायता से हम हंडी की हवा बाहर निकाल सकते हैं। आकृति में दर्शाए अनुसार, हंडी में एक विद्युत-घंटी (Electric bell) होकर उसका संयोजन हंडी के ढक्कन द्वारा किया गया है।

#### 15.3 : ध्वनी संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।

प्रयोग के शुरुआत में निर्वात पंप बंद होने पर काँच की हंडी में हवा होगी। इस समय विद्युत घंटी की कुंजी दबाने पर, उसकी आवाज हंडी के बाहर सुनाई देगी। अब निर्वात पंप शुरू करने पर, हंडी की हवा की मात्रा कम-कम होती जाएगी। हवा की मात्रा जैसे-जैसे कम होगी, विद्युत घंटी की आवाज की तीव्रता भी कम-कम होती जाएगी। निर्वात पंप बहुत समय तक शुरू रखने पर हंडी की हवा बहुत ही कम हो जाएगी। उस समय विद्युत घंटी की ध्वनि अत्यंत धीमी सुनाई देगी। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ध्वनि के निर्माण के लिए और संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि हम हंडी की हवा पूर्णतः बाहर निकाल सकें, तो क्या विद्युत घंटी की ध्वनि सुनाई देगी ?




इसे सदैव ध्यान में रखो।

चंद्रमा पर गए दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के बिल्कुल समीप खड़े होकर बोले तो भी उन्हें एक-दूसरे की बातें सुनाई नहीं देंगी। चंद्रमा पर हवा नहीं है। ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक माध्यम दो अंतरिक्ष यात्रियों के बीच न होने के कारण उनके बीच माध्यम द्वारा होने वाला ध्वनि संचरण नहीं हो सकता। अतः वे अंतरिक्ष यात्री भ्रमणध्वनि जैसे तंत्रज्ञान का उपयोग कर एक दूसरे से संवाद करते हैं। भ्रमणध्वनि में उपयोग में आनेवाली विशिष्ट तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।

### ध्वनि तरंगों की आवृत्ति (Frequency of Sound Waves)

आकृति 15.2 में स्वरित्र दिवभुज के कंपायमान होने से हवा में संपीडन तथा विरलन का निर्माण कैसे होता है यह हमने देखा। अत्यंत सूक्ष्म पद्धति से देखने पर हवा के घनत्व और दाब में परिवर्तन निम्न आकृति 15.4 में दर्शाए अनुसार होगा। किसी भी वस्तु के कंपायमान होने पर हवा में इस प्रकार की ध्वनितरंगों का निर्माण होता है।



#### 15.4 : ध्वनि तरंगों में विरलन और संपीडन इनकी आवृत्ति व हवा के दाब में परिवर्तन

आकृति 15.4 में दर्शाए अनुसार विरलन और संपीडन मिलकर एक चक्र (Cycle) होता है। एक सेकंड में स्वरित्र द्विभुज की भुजाएँ जितनी बार आगे पीछे होगी उतने चक्र एक सेकंड में हवा ये तैयार होंगे।

एक सेकंड में हवा में या अन्य माध्यम में निर्माण होने वाले कुल चक्रों की संख्या अर्थात उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति (Frequency) होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज़ (Hz) इस इकाई में नापते हैं। यदि एक सेकंड में एक कंपन हुआ तो उस कंपन की आवृत्ति 1 Hz होती है। उदाहरणार्थ, आकृति में दर्शाए अनुसार स्वरित्र द्विभुज में एक सेकंड में 512 कंपन होते हैं। इस स्वरित्र द्विभुज के कंपन के कारण एक सेकंड में 512 चक्रों का निर्माण होगा। जिससे निर्माण होनेवाली ध्वनि की आवृत्ति 512 Hz होगी। कोई स्वरित्र द्विभुज कितनी आवृत्ति से कंपित होगा यह उसकी भुजाओं के आकार (लंबाई, मोटाई) और वह स्वरित्र द्विभुज किस पदार्थ से बना है। इस पर निर्भर होता है।



### करो और देखो।

काँच के 6-7 गिलास लो। इन्हें एक कतार में रखकर उनमें क्रमशः बढ़ते हुए स्तर तक पानी भरो। एक पेंसिल लेकर उनपर क्रम से आघात करो। प्रत्येक गिलास से निर्माण होने वाली ध्वनि अलग-अलग होगी। ऐसा क्यों ?

प्रत्येक गिलास पर आघात करने पर उसमें स्थित हवा के स्तंभ में तरंगों का निर्माण होता है। हवा के स्तंभ की ऊँचाई के अनुसार इन तरंगों की आवृत्ति बदलती है। प्रत्येक गिलास में पानी का स्तर अलग-अलग होने के कारण उसमें स्थित हवा के स्तंभ की ऊँचाई भी अलग-अलग होती है। अतः वह गिलास कंपायमान होने पर निर्माण होनवाली ध्वनि की आवृत्ति विशिष्ट होती है। इसलिए उसके द्वारा निर्माण होने वाली ध्वनि भी अलग-अलग होती है।

ध्वनि की आवृत्ति नापने वाले ऐप (App) भ्रमणध्वनी पर उपलब्ध हो सकते हैं। अपने शिक्षकों की सहायता से उसका उपयोग कर अलग-अलग गिलास से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति नापो। गिलास में स्थित हवा के स्तंभ की ऊँचाई और ध्वनि की आवृत्ति इसमें कुछ संबंध दिखाई देता है क्या ? यह हुआ तुम्हारा सरल जलतरंग वाद्य ! भिन्न-भिन्न आकार के स्टील के बर्तन लेकर भी यह प्रयोग कर सकते हैं क्या ?

### ध्वनी और संगीत (Sound and Music) :

ऊपर्युक्त कृति से यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बदलने पर निर्माण होने वाली ध्वनि अलग-अलग होती है। ध्वनि तरंगों की अलग-अलग आवृत्ति के कारण अलग-अलग स्वरों की निर्मिती होती है। संगीत में स्वरनिर्मिती के लिए अलग-अलग प्रकार के वाद्यों का उपयोग किया जाता है। जिसमें सितार, वाँयलीन, गिटार जैसे तंतुवाद्य यंत्र का उसी प्रकार से बाँसुरी, शहनाई जैसे फूँकवाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। गले से भी अलग अलग प्रकार के स्वरों का निर्माण किया जाता है।

तंतुवाद्य मे उपयोग में लाए गए तार का तनाव कम-ज्यादा करके उसी प्रकार तार के कंपित होनेवाले भाग की लंबाई ऊँगली से कम-ज्यादा करके कंपन की आवृत्ति परिवर्तित करते है, इस कारण भिन्न-भिन्न स्वरों का निर्माण होता है।

बाँसुरी जैसे फूँकवाद्य यंत्र में उँगलियों से बाँसुरी पर बने छिद्रों को दबाकर या खोलकर, बाँसुरी में कंपायमान होने वाले हवा के स्तंभ की लंबाई कम-ज्यादा की जाती है जिससे कंपन की आवृत्ति में परिवर्तन होकर विभिन्न स्वरों की निर्मिती होती है। इसी प्रकार बाँसुरी वादन के लिए उपयोग में लाई गई फूँक बदलकर भी भिन्न-भिन्न स्वरों का निर्माण करते है।

### सूचना और प्रौद्योगिकी के साथ

यू-ट्यूब से जलतरंगों का व्हिडिओ डाऊनलोड करो और इ-मेलद्वारा तुम्हारे मित्रों को भेजो।



### क्या तुम जानते हो ?

मध्य सप्तक के सा, रे, ग, म, प, ध, नी इन सप्तसुरों की आवृत्ति क्या है ? नीचे दी गई तालिका में यह जानकारी दी है।

स्वर	आवृत्ति (Hz)
सा	256
रे	280
ग	312
म	346
प	384
ध	426
नी	480



निरीक्षण करा व चर्चा करा.

विविध वाद्ययंत्रों को पहचानो और ध्वनि निर्मिति पर चर्चा करो।



करो और देखो।


अलग-अलग स्वरों की निर्मिति करने वाले ऑप (Sound note generator app) भ्रमणध्वनि पर उपलब्ध हो सकते हैं। अपने शिक्षकों की सहायता से उसका उपयोग कर अलग-अलग स्वरों की निर्मिति करो।

### मानवनिर्मित ध्वनि (Sound Produced by Human) :

थोड़ा जोर से बोलो या गाना गाओ या मधुमक्खी की तरह गुंजन करो और अपने एक हाथ की उँगलियाँ गलेपर रखो। तुम्हें कुछ कंपन महसूस होते हैं क्या ?

मनुष्य में ध्वनि का निर्माण स्वरयंत्र में होता है। कौर निगलते समय अपने हाथों की उँगलियाँ गले पर रखने पर कुछ हिलने वाला एक उभार तुम्हें महसूस होगा। यही स्वरयंत्र (Larynx) है। आकृति 15.5 में दर्शाए अनुसार यह श्वसननलिका के ऊपरी भाग में होता है। उसमें दो स्वरतंतु (Vocal Cords) होते हैं। इन स्वरतंतुओं के बीच की जगह से हवा श्वसननलिका में जा सकती है। फेंफड़ों की हवा जब इस जगह से जाती है तब स्वरतंतु कंपित होते हैं व ध्वनि की निर्मिति होती है। स्वरतंतुओं से जुड़ी हुई माँसपेशियाँ इन तंतुओं के तनाव को कम-अधिक कर सकती हैं। स्वरतंतुओं का तनाव अलग-अलग होने पर निर्माण होने वाली ध्वनि भी अलग होती है।

साइकल के निरूपयोगी ट्युब से रबड़ के दो समान आकार वाले टुकड़े काटो। दोनों टुकड़े एक-दूसरे के ऊपर रखकर उनके दोनों सिरे विपरीत दिशा में तानो। उनमें स्थित जगह में फूँक मारो। तने हुए रबड़ के टुकड़ों में से हवा बहने लगते ही ध्वनि का निर्माण होता है। मानवी स्वरयंत्र का कार्य इसी प्रकार से चलता है।



15.5 : मानवी स्वरयंत्र

पुरुषों के स्वरतंतु लगभग 20 mm लंबे होते हैं। स्त्रियों में उसकी लंबाई 15 mm होती है। छोटे बच्चों में तो और भी कम होती है। इसलिए पुरुष, स्त्री और छोटे बच्चे इनकी आवाज अलग-अलग स्तर का होता है।



करो और देखो।

कुत्ते के भौंकने की 'भौं...भौं' आवाज बिल्ली की 'म्याँव...म्याँव' ऐसी आवाज निकालो। परंतु ये आवाज निकालते समय स्वरतंतु पर पड़ने वाले तनाव पर भी ध्यान दो। ये दो अलग-अलग आवाजें निकालते समय स्वरतंतु पर पड़ने वाला तनाव बदलता है, यह तुम्हें महसूस होता है क्या ?



## ध्वनिक्षेपक से ध्वनि निर्मिती (Sound generation by loudspeaker) :

ध्वनिक्षेपक से भी आवाज की निर्मिती होती है यह तुम्हें मालूम है। ध्वनिक्षेपक की आंतरिक रचना अनुप्रस्थ काट के रूप में (Cross section) आकृति 15.6 में दर्शाई गई है। इसमें एक स्थाई चुंबक (Permanent magnet) होता है। उसके चारों ओर लपेटी गई कुंडली (Coil) में से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यह तुम पिछले पाठ में समझ चुके हो।

दो चुंबक एक-दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिनुसार उनकी हलचल होती है, यह तुमने देखा ही होगा। इसी प्रकार से, यहाँ कुंडली द्वारा निर्माण हुए चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार वह कुंडली आगे-पीछे हिलने लगती है। कुंडली का यह हिलना अर्थात् उसकी आवृत्ति और आयाम, उसमें से बहनेवाला विद्युत प्रवाह किस प्रकार परिवर्तित होता है, इसपर निर्भर होता है। इसी कुंडली से जुड़े हुए ध्वनिक्षेपक के परदे की आगे-पीछे हलचल होने लगती है।



15.6 ध्वनिक्षेपक की अंतरिक रचना

हमने इसके पहले देखा है कि स्वरित्र द्विभुज की भुजाओं की आगे पीछे होनेवाली हलचल के कारण हवा में ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ, ध्वनिक्षेपक के परदे की आगे-पीछे होने वाली हलचल के कारण हवा में ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है ध्वनि का निर्माण करनेवाले किसी ध्वनिक्षेपक के परदे को हल्का सा स्पर्श करके इस परदे के कंपनों का अनुभव तुम ले सकते हो।

ध्वनि क्षेपक का उपयोग करके बहुत ऊँचे स्तर की आवाज का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनिक्षेपक का उपयोग किया जाता है। परंतु हमने पिछली कक्षा में सीखा है कि ध्वनि का स्तर लगभग 100 डेसिबल से अधिक हो तो वह ध्वनि हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए ध्वनिक्षेपक की क्षमता यद्यपि उच्च स्तर की ध्वनि निर्माण करने वाली हो तो भी उसपर नियंत्रण रखना आवश्यक है।



### करो और देखो।

भ्रमणध्वनि पर ध्वनि का स्तर डेसिबल इस इकाई में नापने के लिए अंप उपलब्ध हो सकता है। उसका उपयोग कर अपने शिक्षकों की सहायता से सार्वजनिक स्थान पर उपयोग में लाए जाने वाले किसी ध्वनिक्षेपक से आनेवाली आवाज का स्तर नापकर देखो। ध्वनिक्षेपक से भिन्न-भिन्न दूरी पर खड़े रहकर ध्वनि का स्तर नापो। ध्वनिक्षेपक से दूरी और आवाज का स्तर इसमें तुम्हें कोई संबंध दिखाई देता है क्या ?



### इसे सदैव ध्यान में रखो।

ध्वनि और ध्वनि निर्मिती का अध्ययन करते समय निर्माण होनेवाली ध्वनि की अन्य को परेशानी न हो इसकी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पर्यावरण को हानि पहुँचानेवाले तथा सामाजिक स्वास्थ्य बिघाड़नेवाले प्रमुख कारणों में ध्वनि प्रदूषण का समावेश किया गया है। इसके लिए ध्वनि प्रदूषण टालने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।



### 1. रिक्त स्थानों पर योग्य शब्द भरो ।

- अ. ध्वनि तरंग के उच्च दाब और घनत्ववाले भाग को ..... कहते हैं, तो कम दाब और घनत्व वाले भाग को ..... कहते हैं ।
- आ. ध्वनि के निर्माण के लिए माध्यम की आवश्यकता .....
- इ. किसी ध्वनि तरंग में एक सेकंड में बनने वाले विरलन और संपीडन इनकी कुल संख्या 1000 हैं । इस ध्वनि तरंग की आवृत्ति ..... Hz होगी ।
- ई. अलग-अलग सुरों के लिए ध्वनि तरंगों की ..... अलग-अलग होती हैं ।
- उ. ध्वनिक्षेपक में ..... ऊर्जा का रूपांतरण ..... ऊर्जा में होता है ।

### 2. वैज्ञानिक कारण बताओ ।

- अ. मुँह से अलग-अलग स्वर निकालते समय स्वर तंतुओं पर का तनाव बदलना आवश्यक होता है ।
- आ. चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों का संवाद एक-दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से सुनाई नहीं देता ।
- इ. ध्वनितरंगों का हवा में से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण होने के लिए उस हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होना आवश्यक नहीं होता ।

### 3. गिटार जैसे तंतु वाद्य से और बाँसरी जैसे फूँकवाद्य से अलग अलग स्वरों की निर्मिती कैसे होती है ?

### 4. मानवी स्वरयंत्र से और ध्वनिक्षेपक से ध्वनि का निर्माण कैसे होता है ?

### 5. “ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ।” यह प्रयोग आकृति सहित स्पष्ट करो ।

### 6. उचित जोड़ियाँ मिलाओ ।

मानवी स्वरयंत्र	धातु की भुजाओं में कंपन
ध्वनिक्षेपक	हवा के स्तंभों में कंपन
जल तरंग	स्वरतंतु में कंपन
स्वरित्र द्विभुज	तारों में कंपन
तानपुरा	परदे में कंपन

### उपक्रम :

1. दो प्लास्टिक के गिलास लेकर उनके नीचे के भाग (तल) में छेद करके धागा बाँधकर खेलने का टेलीफोन तैयार करो/ क्या आपके मित्र /सहेली की आवाज तुम्हारे कानों तक धागों के माध्यम से पहुँचती है? धागे के स्थान पर लोहे की तार लेकर तथा धागा / तार की लम्बाई कम या ज्यादा करके प्रयोग करो और निष्कर्ष निकालो/इस विषय में एक-दूसरे से और शिक्षकों के साथ चर्चा करो ।
2. एक प्लास्टिक या स्टील का गिलास लेकर उसका सीधा नीचे का भाग काटो । दूसरे खुले भाग पर रबरबैंड की सहायता से गुब्बारा तानकर सिल करो और उसके ऊपर रागी, बाजरी आदि के छोटे-छोटे दानों को रखो । दूसरे खुले भाग से अपने मित्र को ‘हुँरेँSS...हुँरेँSS’ ऐसी आवाज जोर से निकालने को कहो रबर के ऊपर के दाने ऊपर /नीचे छलाँग मारते हुए दिखाई देते है क्या ? ऐसा क्यों होता है, इस विषय में चर्चा करो ।



## 16. प्रकाश का परावर्तन

हमें संवेदनाओं की सहायता से भिन्न-भिन्न प्रकार की जानकारी महसूस होती है। दृष्टि की संवेदना यह सबसे महत्वपूर्ण संवेदना है इस संवेदना के कारण हम अपने आसपास के पर्वत, नदी, पेड़, व्यक्ति और अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। सृष्टि का सुंदर रूप जैसे बादल, इंद्रधनुष, उड़नेवाले पक्षी, चंद्रमा, तारे ये भी हम दृष्टि की संवेदनाओं के कारण ही देख सकते हैं।



**करो और देखो।**

रात्रि के समय तुम्हारे कमरे का बल्ब कुछ समय तक बंद करके रखो और बाद में शुरू करो।

बल्ब बंद करने के बाद कमरे में रखी वस्तु तुम्हें क्या स्पष्ट दिखाई देती हैं? पुनः बल्ब चालु करने के बाद तुम्हें क्या महसूस हुआ?

ऊपर्युक्त कृति से तुम्हारे ध्यान ये आता है कि दृष्टि की संवेदना होना और प्रकाश इनमें कुछ तो भी संबंध है। रात्रि के समय बल्ब बंद करने के बाद तुरंत वस्तु दिखाई नहीं देगी तो बल्ब पुनः चालु करने पर वस्तु पूर्ववत् दिखाई देगी, अर्थात् वस्तु से आनेवाला प्रकाश जब हमारे आँखों में प्रवेश करता है तब वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। आँख में प्रवेश करनेवाला प्रकाश यह उस वस्तु द्वारा उत्सर्जित किया हुआ होगा अथवा उस वस्तु से परावर्तित हुआ होगा। वस्तु से परावर्तित हुआ प्रकाश अर्थात् क्या है? यह समझने के लिए प्रकाश का परावर्तन समझेंगे।

**प्रकाश का परावर्तन (Reflection of light) :** किसी एक पृष्ठभाग पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो उनकी दिशा बदलती है और वे वापस लौट जाती हैं इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।



**करो और देखो।**

**उपकरण :** बैटरी (टॉर्च), दर्पण, दर्पण स्टैंड, काला कागज़, कंधी, सफेद कागज़, ड्राईंग बोर्ड इत्यादि।

### कृति

1. सफेद कागज़ टेबल पर अथवा ड्राईंग बोर्ड पर कसकर लगा दो।
2. कंधी का मध्य भाग छोड़कर अन्य सभी भाग काले कागज़ से चिपका दो। जिससे प्रकाश यह केवल उस मुक्त भाग से ही जा सकेगा। (आकृति 16.1)
3. कंधी सफेद कागज़ के लंबवत पकड़कर टार्च की सहायता से कंधी के खुले भाग पर प्रकाश डालो।
4. बैटरी और कंधी इनकी सुयोग्य व्यवस्था कर सफेद कागज़ पर प्रकाश किरण प्राप्त करो और इस प्रकाश किरण के मार्ग में आकृति में दिखाए अनुसार दर्पण रखो।
5. तुम्हें क्या दिखाई दिया?




16.1 प्रकाश का परावर्तन

ऊपर्युक्त कृति में प्रकाश किरण दर्पण पर टकराने के बाद परावर्तित होती है और अन्य दिशाओं में जाती है। जो प्रकाश किरण किसी भी पृष्ठभाग से टकराती है उन्हें आपतित किरण (Incident ray) कहते हैं। आपतित किरण पृष्ठभाग के जिस बिन्दु पर टकराती है, उस बिन्दु को आपतन बिन्दु कहते हैं तो उस पृष्ठभाग से वापस लौटनेवाली किरण को परावर्तित किरण (Reflected ray) कहते हैं। परावर्तित किरणों की दिशा कुछ नियमानुसार निश्चित होती है। इस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यह नियम समझने से पहले कुछ संकल्पनाएँ समझेंगे।

### (आकृति 16.2 में दिखाए अनुसार)

1. दर्पण की स्थिति दर्शानेवाली रेखा PQ खींचो ।
2. आपतित किरण AO और परावर्तित किरण OB खींचो।
3. दर्पण की स्थिति दर्शानेवाली रेखा से  $90^\circ$  का कोण बनानेवाली रेखा ON यह बिन्दु O पर खींचो । इस रेखा को अभिलंब कहते हैं । रेखा ON यह रेखा PQ को लंबवत होने के कारण  $\angle PON = \angle QON = 90^\circ$  होता है ।



16.2 प्रकाश का परावर्तन

### परावर्तन के नियम

प्रकाश परावर्तन के तीन नियम निम्न प्रकार से दिए गए हैं ।

1. आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप समान होता है ।
2. आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्रतल में स्थित होते हैं ।
3. आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब के विपरीत ओर होती हैं ।

परावर्तन से संबंधित विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएँ निम्न प्रकार से हैं ।

- i. किरण AO आपतित किरण
- ii. बिन्दु O आपतन बिन्दु
- iii. किरण OB परावर्तित किरण
- iv. रेखा ON अभिलंब
- v. आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण  $\angle AON$  आपतन कोण (i)
- vi. परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण  $\angle BON$  - परावर्तन कोण (r)




करो और देखो ।

**उपकरण :** दर्पण, ड्राईंग बोर्ड, आलपिनें, सफेद कागज़, कोणमापक, पट्टी, पेन्सिल इत्यादि ।

**कृति :**

1. सफेद कागज़ ड्राईंग बोर्ड पर आलपिन की सहायता से व्यवस्थित लगाओ।
2. कागज़ पर एक ओर दर्पण की स्थिति दर्शानेवाली रेखा PQ खींचो । (आकृति 16.3)
3. रेखा PQ पर बिन्दु O लेकर उस बिन्दु से रेखा ON लंब खींचो ।
4. रेखा ON से  $30^\circ$  का कोण बनानेवाली किरण AO खींचो ।
5. किरण AO पर दो आलपिनें S और R लगा दो ।
6. दर्पण स्टैंड में लगाकर रेखा PQ पर आकृति में दिखाए अनुसार लंबवत स्थिति में रखो ।
7. दर्पण में देखकर दर्पण में दिखनेवाले आलपिनों के प्रतिबिंबों के नीचे के सिरों के सीधी सरल रेखा में T और U ये पिन लगा दो ।
8. अब दर्पण को बाजु में रख दो और बिन्दु T और U को बिन्दु O से जोड़ दो ।
9.  $\angle TON$  मापो.
10. कृति 4 से 9,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$  आपतन कोण के लिए पुनः करो और तालिका में कोणों के माप लिखो ।



16.3 : परावर्तन के नियमों का सत्यापन

अ.क्र.	आपतन कोण ( $\angle i$ )	परावर्तित कोण ( $\angle r$ )
1.	$30^\circ$	
2.	$45^\circ$	
3.	$60^\circ$	

आपतन कोण और परावर्तन कोण इनमें कौन-सा संबंध दिखाई देता है। तुमने कृति यदि सावधानीपूर्वक की होगी तो तुम्हें यह दिखाई दिया होगा कि तीनों समय आपतन कोण और परावर्तित कोण का माप समान होता है। अर्थात् परावर्तन के नियमों का सत्यापन होता है।



**करो और देखो।**


प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत स्थिति में पड़ने पर क्या होगा ?

आकृति 16.4 (अ) और (आ) में समतल और खुरदरे पृष्ठभाग पर समांतर आनेवाली तीन आपतित किरणें नीले रंग द्वारा दिखाई गई हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग कर आपतन बिन्दुओं पर परावर्तित किरणें लाल रंग द्वारा दिखाई गई है।


1. किस पृष्ठभाग पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को समांतर होगी ?
2. आकृतिद्वारा कौनसा निष्कर्ष प्राप्त होगा ?

**1. प्रकाश का नियमित परावर्तन (Regular reflection) :** समतल तथा चिकने पृष्ठभाग से होनेवाले प्रकाश के परावर्तन को 'नियमित परावर्तन' कहते हैं। नियमित परावर्तन में समांतर आनेवाली आपतित किरणों के आपतन कोण और परावर्तन कोण के माप समान होते हैं। इसलिए परावर्तित किरण परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। यदि आपतित किरणों के आपतित कोण  $i_1, i_2, i_3, \dots$  हो और उनके परावर्तन कोण क्रमशः  $r_1, r_2, r_3, \dots$  हो तो  $i_1 = i_2 = i_3 = \dots$   
 $r_1 = r_2 = r_3 = \dots$   
 (आकृति 16.4 अ)

**2. प्रकाश का अनियमित परावर्तन (Irregular reflection) :** खुरदरे पृष्ठभाग से होनेवाले प्रकाश के परावर्तन को 'अनियमित परावर्तन' कहते हैं। अनियमित परावर्तन में समांतर आनेवाली आपतित किरणों के आपतन कोण समान माप के नहीं होते और इसलिए उनके परावर्तन कोण के माप भी समान नहीं होते अर्थात्  $i_1 \neq i_2 \neq i_3$  व  $r_1 \neq r_2 \neq r_3 \neq \dots$  इसलिए परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती वे विस्तृत पृष्ठभाग पर फैलती हैं। ऐसा क्यों घटित होता यह आकृति 16.4 (आ) से स्पष्ट होता है।



(अ) समतल पृष्ठभाग



(आ) खुरदरा पृष्ठभाग

### 16.4 समतल व खुरदरे पृष्ठभाग पर प्रकाश का परावर्तन



**इसे सदैव ध्यान में रखो।**

1. नियमित और अनियमित इन दोनों परावर्तनों में प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन किया जाता है।
2. अनियमित परावर्तन में होनेवाले प्रकाश का परावर्तन यह परावर्तन के नियम का पालन नहीं होने के कारण प्राप्त परावर्तन न होकर वे परावर्तित पृष्ठभाग अनियमित (खुरदरा) होने से प्राप्त होता है।
3. अनियमित परावर्तन में प्रत्येक आपतन बिन्दु से प्राप्त होनेवाला आपतन कोण भिन्न होता है, परंतु एक ही आपतन बिन्दु से प्राप्त होनेवाले आपतन कोण और परावर्तित कोण समान माप के होते हैं, अर्थात्  $i_1 = r_1, i_2 = r_2, \dots$



## परावर्तित प्रकाश का परावर्तन (Reflection of reflected light)



बताओ तो


1. केश कर्तनालय में तुम्हारे गर्दन के बाल कारागिर ने ठीक प्रकार से काटे हैं क्या यह तुम कैसे देखते हो ?

2. दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखता है ? दाएँ व बाएँ भाग का क्या होता है ?

3. पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है ?

केश कर्तनालय में तुम्हारे सामने और पीछे की ओर दर्पण लगे होते हैं। तुम्हारे पीठ के पीछे के भाग का प्रतिबिंब पीछे के दर्पण में निर्माण होता है। इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब सामनेवाले दर्पण में दिखाई देता है, जिसके कारण केश कर्तनालय में गर्दन के ऊपर के बाल ठीक प्रकार से काटे हैं क्या यह तुम्हें देखते आता है।

हम चंद्रमा का पानी में प्रतिबिंब किस प्रकार देखते हैं ? चंद्रमा स्वयंप्रकाशित न होने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ने से उसका परावर्तन होता है। उसके पश्चात पानी से परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन होता है और हमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस प्रकार से परावर्तित प्रकाश का अनेक बार परावर्तन हो सकता है।



16.5 कॅलिडोस्कोप



करो और देखो।

कॅलिडोस्कोप (शोभादर्शी/  
चारुदर्शी)

कृति

1. तीन समान आकारवाले आयताकृति दर्पण लो।
2. परावर्तक पृष्ठभाग अंदर की ओर आए इस प्रकार से तीनों ही दर्पण को एक दूसरे से त्रिभुजाकार स्वरूप में चिकटपट्टी की सहायता से चिपकाओ। (आकृति 16.5) देखो।
3. एक सफेद कागज लेकर उसे भी त्रिभुजाकार स्वरूप में चिकटपट्टी की सहायता से चिपकाओ तथा एक भाग बंद कर दो।

4. काँच के 4-5 भिन्न रंगवाले टुकड़े लेकर उन्हें दर्पणों की खाली जगह में डाल दो।

5. अब दूसरा भाग भी बंद कर उस कागज पर एक छिद्र करो।

6. उस छिद्र से उजाले में देखो, तुम्हें काँच के टुकड़ों से असंख्य प्रतिबिंब तैयार हुए दिखाई देंगे। ये प्रतिबिंब तीनों दर्पणों में हुए परावर्तनों के कारण निर्मित होते हैं।

कॅलिडोस्कोप में देखने पर तुम्हें भिन्न-भिन्न तैयार हुई रचनाएँ (रंगीन आकृतियाँ) देखने को मिलेगी। कॅलिडोस्कोप की खास विशेषता अर्थात् इसमें एक बार तैयार हुई रचना फिर से आसानी से तैयार नहीं होती है। प्रत्येक समय दिखाई देनेवाली रचना यह भिन्न होती है। कमरे की दिवारें सुशोभित करने के लिए उपयोग में लाया जानेवाला नक्शीदार कागज तैयार करने वाले और वस्त्रोद्योग व्यवसाय में अभिकल्पक कॅलिडोस्कोप का उपयोग भिन्न-भिन्न रचना की खोज करने के लिए करते हैं।


### परिदर्शी (Periscope)

**उपकरण :** गल्ले का खोका, दो समतल दर्पण, चिकटपट्टी, कटर इत्यादि।

**कृति :** 1. एक पुट्टे का खोका लो। खोके के ऊपर तथा नीचेवाले भाग में छेद कर उसमें खोके के बाजु में  $45^\circ$  का कोण बनानेवाले और एक-दूसरे को समांतर होनेवाले दो समतल दर्पण आकृति में दिखाए अनुसार लगाओ और उन्हें चिकटपट्टी की सहायता से सुव्यवस्थित चिपका लो। (आकृति 16.6 देखो)


2. ऊपर और नीचे के दर्पणों के पास एक दूसरे के विपरीत ओर लगभग 1-1 इंच की दो खिड़कियाँ बनाओ। अब नीचे की खिड़की में से देखो।

3. तुम्हें क्या दिखाई देता है इसका निरीक्षण करो।



16.6 परिदर्शी

नीचे की खिड़की से तुम्हें ऊपरवाली खिड़की के सामने का दृश्य दिखाई देगा। इस तैयार हुए उपकरण को परिदर्शी कहते हैं। परिदर्शी का उपयोग पनडुब्बी में समुद्र के ऊपर की वस्तु देखने में और उसी प्रकार बंकर्स में भूपृष्ठ भाग के नीचे रहकर भूपृष्ठ के ऊपर की वस्तुओं पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। कैलिडोस्कोप और परिदर्शी ये दोनों उपकरण परावर्तित प्रकाश का परावर्तन इस गुणधर्म पर कार्य करते हैं।



16.7 पणडुब्बी पर परिदर्शी

### हल किए गए उदाहरण

**उदाहरण 1.** यदि परावर्तित किरण अभिलंब से  $60^\circ$  का कोण बनाती हैं, तो आपतित किरण अभिलंब से कितने अंश का कोण बनाएगी ?

**दिया गया है :** परावर्तन कोण =  $\angle r = 60^\circ$ , आपतन कोण =  $\angle i = ?$

प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार,

$$\angle i = \angle r, \text{ परंतु } \angle r = 60^\circ \therefore \angle i = 60^\circ$$

$\therefore$  आपतित किरण अभिलंब से  $60^\circ$  का कोण बनाती हैं।

**उदाहरण 2.** आपतित किरण और परावर्तित किरण इनमें  $90^\circ$  का कोण हो तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के माप ज्ञात करो।

**दिया गया है :** आपतित किरण और परावर्तित किरण इनमें  $90^\circ$  का कोण बनता है।

$$\text{i.e. } \angle i + \angle r = 90^\circ \text{ ---- (1)}$$

परंतु प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार

$$\angle i = \angle r \text{ ---- (2)}$$

$$\angle i + \angle i = 90^\circ \text{ समीकरण (1) व (2) से}$$

$2 \angle i = 90^\circ \therefore \angle i = 45^\circ \therefore$  आपतन कोण और परावर्तन कोण यह  $45^\circ$  के हैं।

**उदाहरण 3.** समतल दर्पण और आपतित किरण इनमें बनने वाला कोण  $35^\circ$  हैं, तो परावर्तन कोण और आपतन कोण ज्ञात करो।

**दिया गया है :** आकृति 16.2 से  $\angle POA = 35^\circ$   
रेखा PQ = दर्पण, किरण AO = आपतित किरण, रेखा ON = अभिलंब, किरण OB = परावर्तित किरण  
 $\angle PON = 90^\circ$  ---- (अभिलंब)

$$\angle POA + \angle AON = \angle PON$$

$$\therefore 35^\circ + \angle AON = 90^\circ$$

$$\therefore \angle AON = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$$

अर्थात् आपतन कोण =  $\angle AON = \angle i = 55^\circ$

प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार,  $\angle i = \angle r$

$\angle r = 55^\circ$  आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप  $55^\circ$  होगा।

**उदाहरण 4.**  $40^\circ$  आपतन कोणवाला प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होते समय दर्पण से कितने अंश का कोण बनाएगा ?

**दिया गया है :** आकृति 16.2 से,  $\angle NOQ = 90^\circ$   
---- (अभिलंब), आपतन कोण =  $\angle i = 40^\circ$

$\therefore \angle NOB = \angle r = 40^\circ$  ---- (प्रकाश परावर्तन के नियमानुसार)

$$\angle NOQ = \angle QOB + \angle BON$$

$$\therefore 40^\circ + \angle QOB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle QOB = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$$

$\therefore$  परावर्तित किरण दर्पण से  $50^\circ$  का कोण बनाएगी।

## 1. रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो ।

- अ. समतल दर्पण के आपतन बिन्दु पर लंब होने वाली रेखा को ..... कहते हैं ।  
 आ. लकड़ी के पृष्ठभाग से होनेवाला प्रकाश का परावर्तन यह ..... प्रकार परावर्तन होता है ।  
 इ. कैलिडोस्कोप का कार्य ..... गुणधर्म पर आधारित होता है ।

## 2. आकृति बनाओ ।

दो दर्पणों के परावर्तक पृष्ठभाग एक दूसरे से  $90^\circ$  का कोण बनाते हैं । एक दर्पण पर आपतित किरण  $30^\circ$  का आपतन कोण बनाती हो तो उसके दूसरे दर्पण से परावर्तित होनेवाली किरण बनाओ । .

## 3. “हम अंधेरे कमरे में वस्तु आसानी से देख नहीं सकते”

इस वाक्य का स्पष्टीकरण सकारण कैसे करोगे ।

## 4. नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर लिखो ।

## 5. निम्नलिखित संकल्पनाएँ दर्शानेवाली आकृति निकालो और इन संकल्पनाओं को स्पष्ट करो ।

- आपतित किरण
- परावर्तन कोण
- अभिलंब
- आपतन बिन्दु
- आपतन कोण
- परावर्तित किरण

## 6. निम्नलिखित घटना का अध्ययन करो ।

स्वरा और यश पानी से भरे बड़े बर्तन में देख रहे थे । स्थिर पानी में उनका प्रतिबिंब उन्हें स्पष्टरूप से दिखाई दे रहा था । इतने में यश ने पानी में पत्थर डाला जिसके कारण उनके प्रतिबिंब अस्पष्ट हो गए, स्वरा को प्रतिबिंब अस्पष्ट होने का कारण समझ में नहीं आ रहा था ।

निम्न प्रश्नों के उत्तर से ऊपर्युक्त घटना में स्वरा को प्रतिबिंब अस्पष्ट होने का कारण समझाकर बताओ ।


- अ. क्या प्रकाश का परावर्तन और प्रतिबिंब का अस्पष्ट होना, इनमें कुछ संबंध हैं ?  
 आ. इस घटना द्वारा तुम्हें प्रकाश परावर्तन का कौन-सा प्रकार आपके ध्यान में आता है । स्पष्ट करो ।  
 इ. प्रकाश परावर्तन के प्रकारों में परावर्तन के नियम का पालन होता है क्या ?

## 7. उदहारण हल करो ।

- अ. समतल दर्पण और परावर्तित किरण के बीच  $40^\circ$  का कोण बनता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप ज्ञात करो । (उत्तर  $50^\circ$ )  
 आ. दर्पण और परावर्तित किरण इनमें  $23^\circ$  का कोण बनता है । आपतित किरण का आपतन कोण कितने अंश का होगा ? (उत्तर  $67^\circ$ )

## उपक्रम :

अपोलो से चंद्रमा पर उतरे हुए अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा पर बड़े दर्पण रखे हैं । उसका उपयोग करके चंद्रमा की दूरी किस प्रकार मापी जा सकती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो ।



## 17. मानवनिर्मित पदार्थ



**बताओ तो**

तुम्हारे घर, विद्यालय तथा आसपास पाए जाने वाले बीस मानवनिर्मित पदार्थों की सूची बनाओ तथा चर्चा करो।

हम दैनिक व्यवहार में अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं, वे लकड़ी, काँच, प्लास्टिक, धागे, मिट्टी, धातु, रबर ऐसे अनेक पदार्थों से निर्मित होते हैं इनमें से लकड़ी, पत्थर, खनिज, पानी इस प्रकार के पदार्थ प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, इस कारण उन्हें प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। मानव ने प्राकृतिक पदार्थों पर प्रयोगशाला में अनुसंधान किया। इसी अनुसंधान का उपयोग करके कारखानों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उत्पादन किया गया। इस प्रकार से निर्मित पदार्थों को मानवनिर्मित पदार्थ कहते हैं। उदाहरणार्थ, काँच, प्लास्टिक, कृत्रिम धागे, थर्माकोल इत्यादि। आओ अब हम कुछ मानवनिर्मित पदार्थों की जानकारी प्राप्त करते हैं।



**जानकारी प्राप्त करो।**

तुम्हारे घर की वस्तुओं में उपयोग में लाए गए पदार्थों का निम्नसारणी में वर्गीकरण करो तथा विभिन्न वस्तुओं का संदर्भ लेकर तालिका की वृद्धि करो।

वस्तु का नाम	उपयोग में लाए गए पदार्थ	
	मानवनिर्मित पदार्थ	प्राकृतिक पदार्थ
लकड़ी की कुर्सी	.....	लकड़ी
कंधी	प्लास्टिक	.....

### प्लास्टिक (Plastic)

सुघट्यता आकार्यता गुणधर्म तथा संश्लेषित बहुलक द्वारा बनाए गए मानव निर्मित पदार्थ को प्लास्टिक कहते हैं। सभी प्लास्टिक की रचना समान नहीं होती, कुछ की रचना रेखीय होती है तो कुछ की रचना चक्राकार होती है।

ऊष्मा के प्रभाव के आधारपर प्लास्टिक का दो प्रकारों में विभाजन कर सकते हैं। जिस प्लास्टिक को मनचाह आकार दे सकते हैं, उसे थर्मोप्लास्टिक (ऊष्मामृद) कहते हैं। उदाहरणार्थ, पॉलीथीन PVC इनका उपयोग खिलौने, कंधी, प्लास्टिक की थाली, कटोरी इत्यादि। दूसरे कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार साँचे में ढाल कर एक विशिष्ट आकार प्राप्त होने पर इन्हें ऊष्मा देकर भी उनका आकार नही बदला जा सकता उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक (ऊष्मादृढ) कहलाते हैं। इसका उपयोग घरमें उपयोगी बिजली के उपकरणों के स्विच, कुकर के हत्था का आवरण इत्यादि।



17.1 प्लास्टिक के पदार्थ

### सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के साथ

प्लास्टिक निर्मिती संबंधी विभिन्न विहिडीओ इकट्ठा करो, तथा इसके आधार पर शिक्षकों की मदद लेकर उसे प्रस्तुतीकरण तैयार कर ई-मेल तथा अन्य ऑप्लीकेशन सॉफ्टवेअर की मदद लेकर दूसरो को भेजो।



17.2 थर्मोप्लास्टिक



17.3 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक



## प्लास्टिक के गुणधर्म :

प्लास्टिक पर जंग नहीं लगता है। प्लास्टिक का विघटन नहीं होता है। इस पर हवा में उपस्थित नमी, ऊष्मा, बारीश इनका प्रभाव सामान्यरूप से नहीं होता। इससे किसी भी रंग की वस्तु बनाई जा सकती है। आकार्यता (सुघट्यता) उस गुणधर्म के कारण हम मनचाह आकार दे सकते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक है। भार में हलका होने के कारण परिवहन करना सुविधाजनक होता है।

## प्लास्टिक के प्रकार और उपयोग

थर्मोप्लास्टिक	
1. पॉलीविनाईल क्लोराइड (PVC)	बोतल, रेनकोट, पाईप, हैंडबैग, जूते, विद्युतवाहक तारों का आवरण, फर्निचर, रस्सी, खिलौने इत्यादि।
2. पॉलीस्टाइरीन (PS)	रेफ्रिजरेटर जैसे विद्युतीय उपकरणों का ऊष्मारोधी भाग, यंत्रों के गिअर, खिलौने, पदार्थों का सुरक्षा आवरण, उदा. सीड़ी, डिब्बिड़ी के कवर इत्यादि।
3. पॉलीइथिलीन (PE)	दुध की थैलियाँ, पैकींग की थैलियाँ, नरम गार्डन पाईप इत्यादि।
4. पॉलीप्रोपिलीन (PP)	लाऊड स्पिकर व गाड़ीयों के पुर्जे, रस्सी, चटाई, प्रयोगशाला के उपकरण इत्यादि।
थर्मोसेटिंग	
1. बॅकेलाईट	रेडिओ, टीव्ही, टेलिफोन इनके कॅबिनेट, इलेक्ट्रीक के स्विच, खिलौने, गृहोपयोगी वस्तुएँ, कुकर के हथके का आवरण इत्यादि।
2. मेंलेमाईन	कप, प्लेट, ट्रे ऐसी घरेलु वस्तुएँ, हवाई जहाज़ के इंजिन के कुछ पुर्जे, विद्युत तथा ध्वनिरोधक आवरण इत्यादि।
3. पॉलीयुरेथेन	सर्फबोर्ड, छोटी नाव, फर्निचर, गाड़ियों के आसन (सीट्स) इत्यादि।
4. पॉलीइस्टर	तंतुकांच बनाने के लिए उपयोगी, लेज़र प्रिंटर का टोनर, कपड़ा उद्योग, इत्यादि।



### विचार करो।

1. रासायनिक पदार्थों के भंडारण के लिए प्लास्टिक के टंकीयों का उपयोग क्यों किया जाता है?
2. घरेलु उपयोगी विविध वस्तुओं का स्थान प्लास्टिक ने कैसे प्राप्त कर लिया है ?

## प्लास्टिक तथा पर्यावरण

1. तुम्हारे घर में प्रतिदिन कितनी पॉलिथिन की कैरीबैग आती हैं? उसके बाद उनका क्या होता है?
2. उपयोग होनेपर फेंक गए कैरीबैग, पानी की बोतल, दुध की रिक्त थैलियाँ इनका आगे पुनः चक्रीकरण (Recycle) कैसे होता है?

कुछ पदार्थों का प्राकृतिक रूप से विघटन होता है, उन्हें विघटनशिल पदार्थ कहते हैं। तो कुछ पदार्थों का प्राकृतिक रूप से विघटन नहीं होता, उन्हें अविघटनशिल पदार्थ कहते हैं। निम्नतालिका से हमें ऐसा दिखाई देता है की, प्लास्टिक अविघटनशिल है और जिसके कारण वे पर्यावरणीय दृष्टि से प्रदूषक है। इस पर क्या उपाय किया जा सकता है?



### क्या तुम जानते हो ?

1. प्लास्टिक का उपयोग स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, जैसे सिरिंज, दस्ताने इत्यादि।
2. मायक्रोवेव्ह ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट पात्र प्लास्टिक से बनाए जाते हैं।
3. गाड़ीयों का खरोचोंसे संरक्षण होने के लिए गाड़ियोंपर टेफ्लॉन कोटींग (Teflon coating) की जाती है। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक का ही प्रकार है।
4. प्लास्टिक के 2000 से अधिक प्रकार हैं।
5. हवाईजहाज़ (वायुयानों) के कुछ भाग जोड़ने के लिए प्लास्टिक के कुछ प्रकारों का उपयोग किया जाता है।
6. लेन्स, कृत्रिम दाँत, बनाने के लिए पॉलीअक्रैलिक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है।

पदार्थ	विघटन होने का समयवधी	पदार्थों का प्रकार
सब्जी	1 से 2 सप्ताह	विघटनशील
सुती कपड़ा	1 वर्ष	विघटनशील
लकड़ी	10 से 15 वर्ष	विघटनशील
प्लास्टिक	हजारो वर्ष	अविघटनशील

प्लास्टिक के स्थानपर हमें विघटनशील पदार्थोंका उपयोग कर के तैयार किए वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। उदा. बैग, कपड़े से बनी थैली, कागज़ से बनी थैली, पटसन की थैली इत्यादि।



**इसे सदैव ध्यान में रखो।**

प्रत्येक सभ्य नागरिकोने 4R सिद्धांतों का उपयोग करना आवश्यक है वे अर्थात

Reduce - कम से कम उपयोग

Reuse - पुनः उपयोग करना

Recycle - पुनर्चक्रीकरण

Recover - पुनः प्राप्त करना

तो ही पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षण हो सकता है।



**सूची बनाकर चर्चा करो**

तुम्हारे घर तुम प्लास्टिक के स्थानपर अन्य विघटनशील पदार्थों से बने वस्तुएँ कहाँ-कहाँ उपयोग में ला सकते हो इसकी सूची बनाओ। इस संबंध में कक्षा में चर्चा करो।



**बताओ तो**

काँच की नाज़ुक वस्तुएँ अथवा तत्सम वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय वह न फूटे इसके लिए तुम उसके आसपास किस पदार्थ का आवरण रखते हो ?

### थर्मोकोल (Thermocol) :

तुम्हारे घर मे लाई हुई कोई नई वस्तु जो आसानी से फूट सकती है वह जिस बक्से में बंद होती हैं उस बक्से का संभारण करते समय उस वस्तु को कोई हानी ना पहुँचे इसके लिए जो आवरण होता है वो आवरण अर्थात थर्मोकोल। अनेक स्थानों पर खाना खाने के लिए जो थाली उपयोग में लाई जाती हैं वह थर्मोकोल से बनी होती हैं,

थर्मोकोल अर्थात पॉलीस्टाइरीन इस संश्लेषित पदार्थ का एक रूप 100°C से अधिक तापमान पर जो द्रव अवस्था में तथा ठंडा करनेपर ठोस अवस्था में रूपांतरित होता है जिसके कारण हम उसे मनचाह आकार दे सकते हैं। वे आघातशोषक होने के कारण नाजुक वस्तुके सुरक्षित आवरण के रूप में उसका उपयोग किया जाता हैं।

तुम दैनिक जीवन में थर्मोकोल का उपयोग कहाँ करते हो उसकी सूची बनाओ।

### थर्मोकोल के अत्यधिक उपयोग करने से पर्यावरण तथा

#### मानवपर होनेवाला कुप्रभाव :

1. स्टाइरीन में कैंसर के घटक होने कारण थर्मोकोल के निरंतर संपर्क में रहनेवाले व्यक्तियों को रक्त का ल्युकेमिया (Leukemia) तथा लिम्फोमा (Lymphoma) इस प्रकार के कैंसर होने की संभावना होती हैं।

2. **जैवअविघटनशील** : प्राकृतिक रूप से थर्मोकोल का विघटन होने में बहुत अधिक समय लगता हैं इस कारण अधिकांश लोग उसे जलाकर नष्ट करना यही उपाय समझते हैं, परंतु यह तो पर्यावरणीय दृष्टिसे अत्याधिक घातक उपाय हैं। थर्मोकोल के ज्वलन से विषैली गैसे हवा में मुक्त होती हैं।

3. समारोह मे भोजन, पानी, चाय इनके लिए लगनेवाली थालियाँ, कप/ग्लास बनाने के लिए थर्मोकोल का उपयोग किया जाता हैं, परंतु इसका बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर होता हैं। यदि थर्मोकोल में रखे पदार्थ को पुनः गर्म किए तो उस पदार्थ में स्टाइरीन के कुछ अंश (घटक) भोज्य पदार्थ मे घुलने की संभावना रह सकती है जिसके कारण अपाय होने की संभावना रह सकती हैं।



17.4 थर्मोकोल का ज्वलन व उससे होनेवाला प्रदूषण


4. थर्माकोल बनाने वाली कंपनी में काम करनेवाले व्यक्ति के शरीर पर होनेवाला परिणाम : बहुत अधिक समय तक स्टाइरीन के संपर्क में आनेवाले व्यक्तियों की आँखे, श्वसन संस्था, त्वचा, पचन संस्थाएँ संबंधी रोग होने की संभावना होती हैं। गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होने के धोखे की संभावना होती है। द्रवस्वरूप स्टाइरीन के कारण त्वचा जलने की संभावना होती है।



### सूची बनाकर चर्चा करो

काँच द्वारा बनाई जानेवाली नियमित घरेलू उपयोगी वस्तुओं (पदार्थों की) सूची बनाओ। उन पदार्थों में कौन-कौन से रंगों के काँचों का उपयोग किया गया है?

**काँच (Glass) :** दैनिक जीवन में हम काँच का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। काँच की खोज मानव को अचानक हुई। कुछ फेनेशियन व्यापारी रेगिस्तान में रेतपर खाना बनाते समय खाने के बर्तन को उन्होंने चुने के पत्थर का आधार दिया था। खाने के बर्तन पत्थर से नीचे उतारने के बाद उन्हें एक पारदर्शक पदार्थ तैयार हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया की यह पारदर्शी पदार्थ रेत तथा चूने के पत्थर को एक साथ गरम करने के कारण हुआ होगा। इसी से आगे काँच तैयार करने की विधि विकसित हुई। काँच अर्थात् सिलिका तथा सिलिकेट इनके मिश्रण से तैयार हुआ अकेलासीय, कठोर परंतु भंगुर ठोस पदार्थ सिलिका अर्थात्  $\text{SiO}_2$  इसे ही हम रेत कहते हैं। काँच में उपस्थित सिलिका तथा अन्य घटकों के अनुपात से सोडालाईम काँच, बोरोसिलिकेट काँच, सिलिका काँच, अल्कली सिलिकेट काँच ऐसे प्रकार होते हैं।



### 17.5 काँच के चदर की निर्मिती प्रक्रिया

#### काँच की निर्मिती :

काँच बनाने के लिए रेत, सोडा, चूने का पत्थर तथा अल्प मात्रा में मैग्नीशियम आक्साइड इनका मिश्रण भट्टी में गर्म करते हैं। रेत अर्थात् सिलिकान डाइक्साइड पिघलाने के लिए लगभग  $1700^\circ\text{C}$  तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान पर मिश्रण पिघलाने के लिए मिश्रण में अनुपयोगी काँच के टुकड़े मिलाए जाते हैं। इसी कारण वह  $850^\circ\text{C}$  तापमान पर पिघलता है। मिश्रण के सभी घटक द्रवअवस्था में प्राप्त करनेपर उसे  $1500^\circ\text{C}$  तापमान तक गर्म कर उसे तुरंत ठंडा किया जाता है। तुरंत ठंडा करने के कारण मिश्रण केलासीय रूप प्राप्त नहीं करता है, तो समांगी अकेलासीय पारदर्शी रूप प्राप्त होता है। इसे ही सोडालाईम काँच कहते हैं।

**इंटरनेट मेरा मित्र :** चुड़ीयाँ कैसे बनाई जाती हैं इसका व्हीडीओ इंटरनेट पर देखो तथा उसकी जानकारी लिखकर कक्षा में पढ़कर सुनाओ।

#### काँच के गुणधर्म :

1. काँच को गर्म करने पर वह नर्म (मुलायम) होता है तथा उसे मनचाह आकार दे सकते हैं।
2. काँच का घनत्व उसके घटक तत्वों पर निर्भर होता है।
3. काँच ऊष्मा का मंदचालक है। उसे शीघ्र ऊष्मा देनेपर अथवा गरम काँच तुरंत ठंडा करने पर वह चटक जाता है या टूट जाता है।
4. काँच विद्युत का कुचालक है, इसीलिए विद्युत उपकरणों में विद्युत कुचालक के रूप में काँच का उपयोग किया जाता है।
5. काँच पारदर्शी होने के कारण प्रकाश का बहुत सारा भाग काँच से प्रेषित होता है परंतु काँच में क्रोमियम, व्हेनेडियम या आयरन आक्साइड का समावेश होने के कारण ऐसे काँच में बड़ी मात्रा में प्रकाश अवशोषित किया जाता है।

## काँच के प्रकार तथा उपयोग :

- 1. सिलिका काँच :** सिलिका का उपयोग कर बनाई जाती हैं। सिलिका काँचद्वारा तैयार की गई वस्तु ऊष्मा के कारण अल्प मात्रा में प्रसारित होती हैं। अम्ल, क्षारक का उसपर कोई प्रभाव नहीं होता इसलिए प्रयोगशाला में काँच की वस्तुएँ तैयार करने के लिए सिलिका काँच का उपयोग किया जाता है।
- 2. बोरोसिलिकेट काँच :** रेत, सोडा, बोरीक ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम आक्साइड इनका मिश्रण पिघलाकर बोरोसिलिकेट काँच तैयार की जाती हैं। दवाईयों का इस काँच पर कोई प्रभाव नहीं होता है इसी कारण दवाईयों के कारखानों में दवाईयाँ रखने के लिए बोरोसिलिकेट काँच से बनाई गई बोतल का उपयोग किया जाता है।
- 3. अल्कली सिलिकेट काँच :** रेत तथा सोड़े का मिश्रण गर्म करके अल्कली सिलिकेट काँच बनाई जाती हैं। अल्कली सिलिकेट काँच पानी में घुलनशील होने के कारण उसे जलकाँच या वाटरग्लास कहते हैं।
- 4. सीसायुक्त काँच :** रेत, सोडा, चुने का पत्थर तथा लेडऑक्साइड के मिश्रण को पिघलाकर सीसायुक्त काँच तैयार की जाती हैं। चमकदार होने के कारण इसका उपयोग बिजली के बल्ब, ट्यूबलाईट बनाने के लिए किया जाता है।
- 5. प्रकाशीय काँच :** रेत, सोडा, चुने का पत्थर, बेरीयम ऑक्साइड तथा बोरान इनके मिश्रण से प्रकाशीय काँच तैयार की जाती हैं। चष्मा, दुर्बिण, सूक्ष्मदर्शी इनके लेन्स बनाने के लिए शुद्ध काँच की आवश्यकता होती है।
- 6. रंगीन काँच :** सोडा, लार्इम काँच रंगहीन होता है। उसे विशिष्ट रंग प्राप्त करने के लिए काँच तैयार करते समय मिश्रण में विशिष्ट धातुओं के आक्साइड मिलाए जाते हैं। उदा. नीलहरित काँच प्राप्त करने के लिए फेरस आक्साइड, लाल रंग की काँच प्राप्त करने के लिए कापर आक्साइड इत्यादि।
- 7. संस्कारित काँच :** काँच की उपयुक्तता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसपर विशेष प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, उससे ही स्तरिय काँच, प्रबलित काँच (Reinforced glass), समतल काँच (Plain glass), तंतुमय काँच (Fiber glass), फेन काँच, अपारदर्शी काँच बनाई जाती हैं।



## काँच का पर्यावरण पर होनेवाला प्रभाव :

1. काँच का निर्माण करते समय मिश्रण को 1500 °C तक गर्म करना पड़ता है। इसलिए लगनेवाले इंधन के ज्वलन से सल्फर डायआक्साइड, नाइट्रोजन डायआक्साइड, कार्बन डायआक्साइड ऐसी ग्रीन हाऊस (हरितगृह) गैसे बाहर छोड़ी जाती हैं। उसका परिणाम पर्यावरण पर होता है। काँच का पुनचक्रिकरण अच्छी तरह से हो सकता है। ऐसा करने पर यह धोखा टाला जा सकता है।
2. काँच अविघटनशील होने के कारण टुटे काँच के टुकड़े पानी के साथ यदि जलाशयों में बह गए तो वहाँ के अधिवास पर इसका प्रतिकूल परिणाम हो सकता है, उसी प्रकार इन टुकड़ों के कारण संदूषित पानी की नालियाँ (गटरे) जम कर समस्याएँ उत्पन्न होती है।



## जानकारी प्राप्त करो।

1. सूर्यप्रकाश के कारण विघटन न हो इसके लिए कुछ विशिष्ट पदार्थ को किस प्रकार के काँच की बोतल में रखी हैं।
2. रास्ते पर की दुर्घटना में चोट न पहुँचे इसलिए वाहनों में कौन से प्रकार के काँच का उपयोग किया जाता है ?



## करो और देखो।

प्रयोगशाला में वक्रनलिका तैयार करने की कृति शिक्षक के निरीक्षण में करो।



## 17.6 विविध प्रकार के काँचों से तैयार की गई वस्तुएँ



1. खोजो तो पाओगे ।

- अ. प्लास्टिक में ..... गुणधर्म होता है इसलिए उसे मनचाह आकार दे सकते हैं ।  
 आ. मोटर गाड़ियों को ..... की कोटिंग की जाती है।  
 इ. थर्माकोल ..... तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है ।  
 ई. .... काँच पानी में घुलनशील है ।

2. मेरे मित्र कौन ?

समूह 'अ'

1. सीसायुक्त काँच  
 2. बैकेलाईट  
 4. थर्माकोल  
 5. प्रकाशीय काँच  
 6. पॉलीप्रोपिलीन

समूह 'ब'

- अ. प्लेट्स  
 ब. चटाई  
 क. विद्युत बल्ब  
 ड. इलेक्ट्रीक स्विच  
 इ. दुर्बीण

3. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो ।

- अ. थर्माकोल किस पदार्थ से बनाया जाता है?  
 आ. PVC के उपयोग लिखो ।  
 इ. नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन से मानवनिर्मित तथा प्राकृतिक निर्मित पदार्थ से निर्मित होते हैं, वे लिखो ।  
 (चटाई, पानी का गिलास, चुड़ियाँ, कुर्सी, बोरी, खराटा, पेन, चाकू  
 ई. काँच के प्रमुख घटक कौन-से हैं?  
 उ. प्लास्टिक कैसे तैयार किया जाता है ?

4. अंतर स्पष्ट करो ।

- अ. मानवनिर्मित पदार्थ तथा प्राकृतिक निर्मित पदार्थ  
 आ. ऊष्मामृदु प्लास्टिक तथा ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक

5. निम्न प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो ।

- अ. पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर निम्न पदार्थों का होनेवाला परिणाम व उपाय योजना स्पष्ट करो ।  
 1. प्लास्टिक  
 2. काँच  
 3. थर्माकोल  
 आ. प्लास्टिक अविघटनशील होने के कारण पर्यावरण में समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, इन समस्याओं को कम करने के लिए तुम कौन-से उपाय करोगे ?

6. टिप्पणी लिखो ।


- अ. काँच का निर्माण  
 आ. प्रकाशीय काँच  
 इ. प्लास्टिक के उपयोग

उपक्रम :

1. Micro wave Oven में उपयोग में लाए जानेवाले बर्तन किस प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करो ।  
 2. दाँतों का कृत्रिम ढाँचा किससे बनाया जाता है इसकी जानकारी प्राप्त करो ।



**क्षेत्रभेंट :** तुम्हारे परिसर के प्लास्टिक / काँच निर्माण करने वाले कारखानों को भेट देकर निर्माण प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त करो तथा उसका विवरण तैयार करो ।



## 18. परिसंस्था



थोड़ा याद करो ।

1. तुम्हारे आसपास कौन-कौन से घटक दिखाई देते हैं ?


2. क्या तुम्हारा इन घटकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध है? विचार करो ।



वर्गीकरण करो ।

प्रकृति में पाए जानेवाले कुछ घटक नीचे दिए हैं । उनका सजीव और निर्जीव में वर्गीकरण करो । सूर्यप्रकाश, सूरजमुखी, हाथी, कमल, शैवाल, पत्थर, घास, पानी, चींटी, मिट्टी, बिल्ली, पर्णांग, हवा, शेर ।

**परिसंस्था (Ecosystem) :** हमारे चारों ओर का विश्व दो प्रकार के घटकों से बना है । सजीव और निर्जीव । सजीवों को जैविक (Biotic) और निर्जीवों को अजैविक (Abiotic) घटक कहते हैं । इन सजीवों और निर्जीवों में निरंतर आंतरक्रिया चलती रहती है । सजीव और उनका अधिवास या पर्यावरणीय घटक इनमें परस्पर संबंध होता है । इस अन्यान्य संबंधों से ही जो विशेषतापूर्ण आकृतिबंध का निर्माण होता है उसे परिसंस्था कहते हैं । जैविक और अजैविक घटक और उनके बीच होनेवाली आंतरक्रिया इन सबको मिलाकर परिसंस्था बनती है ।



### 18.1 परिसंस्था के घटक



क्या तुम जानते हो ?


सूक्ष्मजीव मृत वनस्पतियों व प्राणियों के अवशेषों में उपस्थित संद्रिय पदार्थों का (प्रथिन, कार्बोज, वसा) पुनः असंद्रिय (हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटैशियम) पोषक द्रव्यों में रूपांतरित करते हैं, इसलिए उन्हें विघटक कहते हैं ।

**परिसंस्था की संरचना (Structure of Ecosystem) :** सजीवों को जीवित रहने के लिए अलग-अलग अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार उन घटकों से जुड़े रहने की उनकी क्षमता भिन्न-भिन्न होती है । किसी सूक्ष्मजीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो दूसरे को नहीं । कुछ वृक्षों को अधिक सूर्यप्रकाश की आवश्यकता होती है, तो कुछ वनस्पतियाँ कम सूर्यप्रकाश में अर्थात् छाया में अच्छी बढ़ पाती हैं ।

परिसंस्था के प्रत्येक अजैविक घटक का उदाहरणार्थ हवा, पानी, मिट्टी, सूर्यप्रकाश, तापमान, आर्द्रता इत्यादि का उसमें रहनेवाले सजीवों या जैविक घटकों पर परिणाम होता है। किसी परिसंस्था में कौन-से सजीव जीवित रह सकते हैं और उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए ये उस परिसंस्था के अजैविक घटकों पर निर्भर होता है।

सजीव परिसंस्था के अजैविक घटकों का निरंतर उपयोग करते रहते हैं या उत्सर्जित करते रहते हैं इसलिए परिसंस्था के जैविक घटकों के कारण अजैविक घटकों का अनुपात कम अधिक होता रहता है। परिसंस्था के प्रत्येक सजीव घटक का आसपास के अजैविक घटकों पर परिणाम होता है। जिसका सीधा परिणाम परिसंस्था के अन्य सजीवों पर भी होता है।

परिसंस्था का प्रत्येक सजीव उस संस्था में रहते हुए, संचलन करते हुए, विशिष्ट भूमिका निभाता है। इस सजीव का परिसंस्था के अन्य सजीव के संदर्भ में स्थान और उसके द्वारा निभानेवाली भूमिका को 'निश' (Niche) कहते हैं। उदा. बगीचे में बढ़नेवाला सूरजमुखी का पौधा हवा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और मधुमक्खी, चींटी आदि कीटकों को भोजन तथा अधिवास प्रदान करता है।



## 18.2 परिसंस्था के घटकों की आंतरक्रिया



**बताओ तो**

1. ऊपर्युक्त आंतरक्रियामें सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है ?
2. अजैविक घटक उत्पादकों को कैसे प्राप्त होते हैं ?
3. भक्षक भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं ?

अधिकांश परिसंस्थाएँ काफी क्लिष्ट होती हैं। जिसमें पाए जानेवाले विभिन्न सजीवों की प्रजातियों में संख्यात्मक एवं गुणात्मक विविधताएँ पाई जाती हैं। हमारे भारत जैसे देश में उष्ण कटिबंधीय भागों की परिसंस्था में केवल कुछ गिनीचुनी प्रजातियों के सजीव ही बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बचे हुए अधिकांश वनस्पति और प्राणियों के प्रजाति की संख्या बहुत ही कम होती है। कुछ प्रजातियों की संख्या तो नगण्य होती है। पृथ्वीपर विभिन्न प्रकार की परिसंस्थाएँ हैं। हर जगह की परिसंस्था अलग-अलग होती है। उदा. जंगल, तालाब, सागर, नदी आदि परिसंस्था का आकार, स्थान, हवा की स्थिति, वनस्पति और प्राणी के प्रकार इन विशेषताओं के अनुसार परिसंस्थाओं के कुछ प्रकार होते हैं।

जीवमंडल में अनेक परिसंस्थाएँ कार्यान्वित होती हैं। उनके आसपास के पर्यावरण के अनुसार उनके विशेषतापूर्ण कार्य चलते हैं। पृथ्वी पर ऐसी अनेक परिसंस्थाएँ निर्माण हुई हैं। पृथ्वी पर स्थित ये परिसंस्थाएँ यद्यपि मोटे तौर पर स्वतंत्र या भिन्न दिखाई देती हैं, फिर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपसे वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी परिसंस्थाओं को हम पूरी तरह से एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकते परंतु विशेषताओं के आधार पर, कार्यप्रणाली के आधार पर, उसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर परिसंस्थाओं के भिन्न-भिन्न प्रकार होते हैं।

### पीछे मुड़कर देखने पर

विज्ञान के विकास के साथ ही नए नए शब्दों का निर्माण भी होते रहता है। Ecosystem शब्द का भी कुछ ऐसा ही है। परिसंस्था ऐसा हमने इस शब्द का हिंदी में अनुवाद किया है। सन 1930 की बात है, रॉय क्लॉफाम इस वैज्ञानिक को एक प्रश्न पूछा गया था की, “पर्यावरण के भौतिक तथा जीव शास्त्रीय घटकों का परस्पर संबंध का सम्मिलित रूप से विचार एक ही शब्द में कैसे व्यक्त करोगे?” इस पर उन्होंने उत्तर दिया था ‘Ecosystem’ इस शब्द को आगे चुनकर क्लॉफाम के सहकर्मी ए.जी. टान्सलेने 1935 में सर्वप्रथम प्रचार में लाया। Ecosystem को जैविक समुदाय Biotic Community ऐसा भी कहा जाता है।

पृथ्वी के कुछ भागों में काफी बड़े क्षेत्र की जलवायु और अजैविक घटक सामान्यतः एक जैसे होते हैं। उस भाग में रहनेवाले सजीवों में समानता दिखाई देती है। इसलिए एक विशिष्ट स्वरूप की परिसंस्था एक बड़े क्षेत्र में तैयार होती है। ऐसी बड़ी परिसंस्थाओं को ‘बायोम्स’ (Biomes) कहते हैं। इन बायोम्स में कई छोटी परिसंस्थाओं का समावेश होता है। पृथ्वी स्वयं एक विशाल परिसंस्था है। पृथ्वीपर दो मुख्य प्रकार के बायोम्स पाए जाते हैं।

1. भू-परिसंस्था (Land Biomes)
2. जलीय - परिसंस्था (Aquatic Biomes)

**भू-परिसंस्था :** जो परिसंस्था केवल भूमिपर ही अर्थात् जमीन पर ही होती है या अपना अस्तित्व बनाती है उन्हें भू-परिसंस्था कहते हैं। अजैविक घटकों का वितरण भू-तल पर असमान है। जिससे भिन्न-भिन्न प्रकार की परिसंस्थाओं का निर्माण हुआ है। उदा. घास वाले प्रदेश की परिसंस्था, सदाहरित जंगल की परिसंस्था, उष्ण रेगिस्तान की परिसंस्था, बर्फीले प्रदेश की परिसंस्था, टैगा प्रदेश की परिसंस्था, विषुवृत्तीय वर्षावनों की परिसंस्था आदि।

**अ. घासवाले प्रदेश की परिसंस्था (Grassland Ecosystem) :** जिस प्रदेश में वर्षा का अनुपात बड़े बड़े वृक्षों की वृद्धि के लिए अपर्याप्त होता है, उस जगह घास वाले प्रदेश तैयार होते हैं। इस प्रकार की परिसंस्था में घास की वृद्धि बड़ी मात्रा में होती है। बड़ा ग्रीष्म ऋतु और पर्याप्त वर्षा के कारण कम ऊँचाई वाली (बौनी) वनस्पतियों की वृद्धि होती है। बकरी, भेड़, जिराफ, झेब्रा, हाथी, हिरण, चीता, बाघ, शेर आदि प्राणी इन प्रदेशों में पाए जाते हैं। उसी प्रकार विभिन्न पक्षी, कीटक और सूक्ष्मजीव भी पाए जाते हैं।



18.3 घासवाला प्रदेश



### जानकारी प्राप्त करो।

1. घासवाले प्रदेशों को किन कारणों से खतरे उत्पन्न होने की संभावना होती है ?
2. एशियाई चीते की प्रजाती पिछले शताब्दी में नष्ट क्यों हो गई ?
3. ‘एशियाई चीता’ इंटरनेट पर देखो तथा वर्णन लिखो।



### तालिका पूर्ण करो।

घास वाले प्रदेशों की परिसंस्था संबंधी निम्न तालिका पूर्ण करो।



उत्पादक	प्राथमिक भक्षक	द्वितीयक भक्षक	तृतीयक भक्षक	विघटक
गाजरघास, तृणाग्र, दूब हरियाल	गाय, हिरण, गिलहरी, लेप्टोकोर्सिया	साँप, पक्षी, लोमड़ी, सियार	शेर, तरस, गिद्ध, चील	फ्युजरियम, अस्परजिलस
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....



### क्या तुम जानते हो ?

‘दुधवा’ यह जंगल पिछले डेढ़ सदी से एकसिंगी गेंडों का सबसे बड़ा आश्रयस्थान था। परंतु मुक्त और अंधाधुंध शिकार के कारण बीसवीं सदी में यह प्राणी वहाँ से लुप्त हो गया। 1 अप्रैल 1984 को गेंडों का यहाँ पुनर्वसन किया गया। पिंजड़ों में उनका प्रजनन कर बाद में ये गेंडे प्रकृति में अधिवास के लिए छोड़ दिए गए। सबसे पहले सत्ताईस चौरस कि.मी. घास वाला प्रदेश या वन जिसमें बारह महीनों जल उपलब्ध हों ऐसे भूभाग को इस कार्य के लिए निश्चित किया गया। उसी प्रकार से दो निरीक्षण केंद्र स्थापित किए गए। इन प्रयत्नों को अच्छी सफलता मिली।



### विचार करो।

क्या वृक्ष यह स्वतंत्र परिसंस्था हैं ?

### ब. सदाबहार वनों की परिसंस्था (Forest Ecosystem)

यह प्रकृतिनिर्मित परिसंस्था है। जंगल में विविध प्रकार के प्राणी, वृक्ष, एक ही जगह होते हैं। अजैविक घटकों में जमीन में तथा हवा में रहनेवाले सेंद्रिय और असेंद्रिय घटक, जलवायु, तापमान, वर्षा ये घटक भिन्न-भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं।



18.4 जंगल परिसंस्था



### तालिका पूर्ण करो।

राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्य	राज्य
1. गीर	
2. दाचीगाम	
3. रणथंबोर	
4. दाजीपूर	
5. काजीरंगा	
6. सुंदरबन	
7. मेलघाट	
8. पेरियार	



### तालिका पूर्ण करो।

जंगल परिसंस्था के विविध घटकों की जानकारी लिखो।

उत्पादक	प्राथमिक भक्षक	द्वितीय भक्षक	तृतीयक भक्षक	विघटक
डिप्टेरोकार्पस, सागौन, देवदार, चंदन	चींटी, टिड्डा, मकड़ी, तितली	साँप, पक्षी, गिरगिट, लोमड़ी	वाघ, बाज, चीता	अस्परजिलस, पॉलिकॉर्पस,
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....



## क्या तुम जानते हो?

- भारत में लगभग 520 अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में अनेक प्रकार की परिसंस्थाओं का संरक्षण होता है।
- सफेद तेंदू जैसे अत्यंत दुर्लभ प्राणी की रक्षा करनेवाला सबसे बड़ा अभयारण्य दि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यह है।
- काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) यहाँ हाथी, जंगली भैंसा, जंगली सूअर, अरना भैंसा (बिजोन), हिरन, बाघ, तेंदू इनके जैसे अनेक प्राणियों का संरक्षण होता है।
- भरतपुर का अभयारण्य जलाशयों के किनारे रहनेवाले पक्षियों के लिए विश्वविख्यात है।
- रणथंबोर का अभयारण्य पट्टेवाले बाघों के लिए प्रसिद्ध है।
- गुजरात में स्थित गीर का जंगल अर्थात् रौबदार एशियाई शेरों का विश्व में एक मात्र आश्रयस्थल है।

**जलीय परिसंस्था (Aquatic Biomes) :** पृथ्वी पर 71% भूभाग पानी से व्याप्त है, केवल 29% भाग पर जमीन है। इसलिए जलीय परिसंस्था का अध्ययन अत्याधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक परिसंस्था में जलीय परिसंस्था अभिक्षेत्रीय दृष्टिसे अधिक व्यापक है। जल परिसंस्था में निम्न प्रकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उदा. मीठे पानी की परिसंस्था, खारे पानी की परिसंस्था, खाड़ी परिसंस्था।



### 18.5 जलीय परिसंस्था

**मीठे पानी की परिसंस्था :** इस परिसंस्था में नदी, तालाब, झील, सरोवर इनका समावेश होता है। इस परिसंस्था में नदीद्वारा और पानी के प्रवाहद्वारा ऊर्जा संक्रमित होती है। जलभाग की तली में असंख्य विघटक होते हैं। वे वनस्पतियों और प्राणियों के मृत शरीर पर विघटन का कार्य करके उसका अजैविक घटकों में रूपांतरण करते हैं। तुम्हारे आसपास की ऐसी परिसंस्था का निरीक्षण करो और उस आधार पर नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो।

उत्पादक	प्राथमिक भक्षक	द्वितीय भक्षक	तृतीयक भक्षक	विघटक
जलीय वनस्पति, अल्गी, युलोथ्रिक्स, हायड्रिला, अझोला, निटेला, टायफा, पिस्टीया, इर्कोर्निया, ..... .....	जलीय कीटक, घोंघा, अँनेलिड्स, ..... .....	छोटी मछलियाँ, मेंढक ..... .....	बड़ी मछलियाँ, मगरमच्छ, बगुला ..... .....	जीवाणु, फफूँदी ..... .....



## चर्चा करो।

हमारे परिवेश की नदी, तालाब, झील ये परिसंस्थाएँ सुरक्षित हैं क्या ?

**ब. खारे पानी की सागरीय परिसंस्था : (Marine Ecosystem) :** इस परिसंस्था में सागरीय वनस्पतियों की वृद्धि होती है। शैवाल पर उपजीविका चलाने वाली छोटी मछलियाँ, झिंगे बड़े पैमाने पर उथले भाग में दिखाई देते हैं। सागर के मध्य भाग में कम संख्या में जलचर दिखाई देते हैं। बड़ी मछलियाँ ये द्वितीय भक्षक होती हैं। समुद्र में पोषक तत्त्व बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं। सागर की तली में विघटकों की संख्या अधिक होती है। मृत वनस्पति, मृत प्राणी और अनुपयोगी पदार्थ सागर की तली में जाकर जमा हो जाती हैं। उन पर सूक्ष्म जीवाणु विघटन का कार्य करते रहते हैं।

- इंटरनेट मेरा मित्र** 1. समुद्री परिसंस्था में मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण घटित हुई दुर्घटनाओं की जानकारी प्राप्त करो ।  
2. खाड़ी परिसंस्था यह सागरीय परिसंस्था से अलग कैसे हैं । इसकी जानकारी प्राप्त करो ।



### विचार करो ।

दिवीजा आज पहाड़ी पर टहलने गई । वहाँ फूलों पर मधुमक्खियाँ मंडरा रही थीं । उसमें से एक मधुमक्खी दिवीजा के पास आई और उसके हाथ पर डंक मारा । उस डंक के दर्द से दिवीजा तिलमिलाई और गुस्से से बोली, “विश्व की सभी मधुमक्खियाँ नष्ट हो जाएँ ।” फिर उसने विचार किया, “वास्तव में मधुमक्खियाँ नष्ट हो गई तो ? तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा शहद खाने नहीं मिलेगा, इतना ही ना ? तुम दिवीजा को क्या कहोगे ?

### मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण होनेवाला परिसंस्थाओं का विनाश :

मनुष्य की विभिन्न कृतियों का परिसंस्था के कार्य पर घातक परिणाम होता है, जिससे परिसंस्था का विनाश होता है । उदा. खदान कार्य, और बड़ी मात्रा में वृक्षों की कटाई से जमीन का उपयोग बदल सकता है । उसके साथ साथ सजीव और निर्जीव घटकों के आपसी तालमेल पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है ।

विभिन्न मानवी प्रक्रियाएँ एवं कृतियाँ, परिसंस्था पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालती हैं । किसी विशिष्ट प्रकार की परिसंस्था का दूसरी परिसंस्था में रूपांतरण होने से लेकर तो किसी प्रजाति के नष्ट होने तक ऐसे दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं ।

### परिसंस्था के विनाश का कारण बननेवाली कुछ मनुष्य द्वारा की जानेवाली कुछ प्रक्रियाएँ एवं कृतियाँ :

**जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों का अत्याधिक उपयोग :** परिसंस्था में मनुष्य प्राणी ‘भक्षक’ इस समूह में आता है । सामान्य परिस्थिति में परिसंस्था मनुष्य को उसके जरूरत जितनी चीजें आसानी से पूर्ण कर सकती हैं, परंतु जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बेशुमार साधनसंपत्ति का उपयोग करता रहा । जीवनशैली में आए नए बदलावों के कारण मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम जरूरत की चीजों की तुलना में अनावश्यक चीजों की माँग बढ़ने लगी है जिससे परिसंस्था पर तनाव बढ़ गया और वर्ज्य पदार्थों का अनुपात भी बड़ी मात्रा में बढ़ गया ।



18.6 परिसंस्था का विनाश

**शहरीकरण :** बढ़ते हुए शहरीकरण की निरंतर चल रही प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त घरों का निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा खेती की जमीन, दलदल वाला भाग, जलाशयों का क्षेत्र, जंगल, घासवाले प्रदेशों का उपयोग हो रहा है । इसलिए परिसंस्था में होनेवाले मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण परिसंस्था पूर्णरूपसे बदलती हैं या नष्ट हो जाती हैं ।

**औद्योगिकीकरण और यातायात :** बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के लिए लगनेवाला कच्चा माल प्राकृतिक वनों को तोड़कर प्राप्त किया जाता है । जिससे जंगलों का नाश होता है । यातायात में वृद्धि होने से उसकी सुविधाओं को बढ़ाते समय कई बार जंगलों से या जलाशय की जगहों पर रास्तों का या रेलमार्ग का जाल फैलाया जाता है ।

**पर्यटन :** प्रकृति का निरीक्षण, मनोरंजन और धार्मिक दर्शनों के लिए बड़ी मात्रा में पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए आते हैं । इन पर्यटकों के लिए ऐसी जगहों के परिसर में बड़े पैमाने पर मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाता है । जिससे स्थानिक परिसंस्था पर अतिरिक्त तनाव आकर उनका बड़ी मात्रा में नाश होता है ।



### जानकारी प्राप्त करो ।

तुम्हारे परिसर के किसी पर्यटन केंद्र में जाकर वहाँ की परिसंस्था की जानकारी प्राप्त करो । उसपर पर्यटन के कारण होनेवाले परिणामों को खोजो ।

**बड़े बाँध :** बाँधों के कारण बड़े पैमाने में जमीन पानी के नीचे चली जाती है । जिससे उस भाग के जंगल और घासवाले प्रदेशों का जलीय परिसंस्था में रूपांतरण हो जाता है । बाँधों के कारण नदी के निचले भाग के पानी का प्रवाह कम हो जाता है इसके परिणामस्वरूप पहले बहते हुए पानी में तैयार हुई परिसंस्थाएँ नष्ट हो जाती हैं ।



## थोड़ा सोचो ।

1. बाँधों के कारण कौन-से जैविक घटकों पर परिणाम हुआ ?
2. नदी के बहते पानी के जैविक घटकों पर क्या परिणाम होता है ?

**युद्ध :** जमीन, पानी, खनिज संपत्ति या किसी आर्थिक और राजकीय कारणों से मानवी समूहों में स्पर्धा और मतभेदों से युद्ध होता है। युद्ध में बड़े पैमाने पर बम वर्षा, सुगंग विस्फोट किए जाते हैं। इससे केवल जीव हानि ही होती है ऐसा नहीं है तो प्राकृतिक परिसंस्थाओं में बड़े बदलाव होते हैं या वे नष्ट भी हो जाती है।

इस प्रकार भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण और मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण कुछ प्राकृतिक परिसंस्थाओं का अलग प्रकार की परिसंस्थाओं में रूपांतरण होता है, कुछ परिसंस्थाओं का विनाश होता है, तो कुछ परिसंस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं।

प्राकृतिक परिसंस्था जीवमंडल का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए उनका संरक्षण करना महत्त्वपूर्ण होता है।

## स्वाध्याय

### 1. नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।

अ. हवा, पानी, खनिज, मृदा ये परिसंस्था के ..... घटक हैं।

(भौतिक, सेंद्रिय, असेंद्रिय)

आ. परिसंस्था नदी, तालाब, समुद्र ये ..... परिसंस्था के उदाहरण हैं।

(भूतल, जलीय, कृत्रिम)

इ. परिसंस्था में 'मनुष्य' प्राणी ..... समूह में समाविष्ट होता है।

(उत्पादक, भक्षक, विघटक)

ई. परिसंस्था के घटकों के बीच होनेवाली आंतरक्रिया स्पष्ट करो।

उ. सदाबहार वन (जंगल) और घासवाले प्रदेश इन परिसंस्थाओं में प्रमुख अंतर बताओ।

### 6. नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करो।



### 2. उचित जोड़ियाँ मिलाओ।

**उत्पादक**

**परिसंस्था**

अ. कॅक्टस

a) जंगल

आ. जलीय वनस्पति

b) सागर

इ. क्लोरो फायसी

c) जलीय

ई. पाईन

c) मरूस्थलीय

### 3. मेरे विषय में जानकारी लिखो।

अ. परिसंस्था

आ. बायोमस

इ. भोजन जाल

### 4. वैज्ञानिक कारण लिखो।

अ. परिसंस्था में वनस्पति को उत्पादक कहते हैं।

आ. बड़े बाँधों के कारण परिसंस्था का विनाश होता है।

इ. दुधवा जंगल में गेंडों का पुनर्वसन किया गया।

### 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो।

अ. जनसंख्या वृद्धि के कारण परिसंस्था पर क्या परिणाम हुआ है ?

आ. परिसंस्था नष्ट होने में शहरीकरण कैसे जिम्मेदार है ?

इ. प्राकृतिक परिसंस्था में बड़े बदलाव लानेवाले युद्ध क्यों होते हैं ?

### उपक्रम :

अ. अपने परिसर के किसी परिसंस्था में जाकर उसके जैविक-अजैविक घटकों का प्रेक्षण करो और वे एकदूसरे पर कैसे निर्भर हैं उसे प्रस्तुत करो।

आ. युद्ध या परमाणु विस्फोट के कारण हुई परिसंस्था की हानि इंटरनेट के माध्यम से खोजो और तुम्हारे शब्दों में लिखो।





## 19. तारों की जीवनयात्रा



**थोड़ा याद करो ।**

1. निहारिका (galaxy) अर्थात क्या हैं ?
2. हमारे सौरमंडल में कौन-कौन से घटक हैं ?
3. तारे और ग्रह में प्रमुख अंतर कौन-से हैं ?
4. उपग्रह अर्थात क्या हैं ?
5. हमारे सबसे नजदीक का तारा कौन-सा हैं ?

पिछली कक्षा में हमने विश्व के अंतरंग के बारे में पढ़ा है। हमारी सूर्यमाला एक निहारिका में अर्थात आकाशगंगा में समाविष्ट है। निहारिका में अरबों तारे, उनकी ग्रहमालिका व तारों के मध्य खाली जगह में आंतरतारकीय बादलों का (interstellar clouds) समूह होता है। विश्व इन असंख्य निहारिकाओं से मिलाकर बना है। इन निहारिकाओं के आकार तथा बनावट अलग-अलग होते हैं। उन्हें हम मुख्य तीन प्रकार में बाँट सकते हैं। चक्रकार (spiral), दीर्घवृत्ताकार (elliptical) तथा अनियमित आकार की (irregular) निहारिका। हमारी निहारिका चक्राकार है उसे मंदाकिनी नाम दिया गया है। आकृति 19.1 में एक चक्राकार निहारिका दिखाई है।



**19.1 एक चक्राकार निहारिका : हमारा सौरमंडल ऐसी ही एक निहारिका में स्थित है।**

विश्व के बारे में यह सब जानकारी हमें कैसे प्राप्त की ?

रात के समय आसमान की तरफ देखने पर हमें केवल ग्रह और तारे दिखाई देते हैं। फिर अन्य घटकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली इस प्रश्न का उत्तर दूरबीन है। इनमें से अनेक दूरबीनें पृथ्वी के पृष्ठभाग पर रखी होती है तो कुछ दूरबीनें मानवनिर्मित कृत्रिम उपग्रह पर रखी हैं और पृथ्वी के चारों ओर विशिष्ट कक्षा में परिभ्रमण करती हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण ये दूरबीनें खगोलीय वस्तुओं का अधिक प्रभावी रूप से निरीक्षण करती हैं। दूरबीन द्वारा किए गए निरीक्षणों का अध्ययन कर खगोलवैज्ञानिक विश्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पाठ में हम तारों के गुणधर्म और उनकी जीवनयात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे।

**तारों के गुणधर्म (Properties of stars) :** रात्रि के समय हम आकाश में लगभग 4000 तारे अपनी आँखों से देख सकते हैं। सूर्य उनमें से एक सामान्य तारा है। सामान्य कहने का अर्थ ऐसा है कि वह हमसे सबसे निकट होता है। यद्यपि वह आकाश में अन्य तारों से बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा कम अथवा अधिक द्रव्यमान, आकार तथा तापमान वाले अरबों तारे आकाश में हैं। तारे तप्त गैस के प्रचंड गोले होते हैं। सूर्य के कुछ गुणधर्म नीचे तालिका में दिए हैं। सूर्य के द्रव्यमान का 72% भाग हाइड्रोजन है, तो 26% भाग हीलियम है, शेष बचा हुआ 2% द्रव्यमान हीलियम की अपेक्षा अधिक परमाणुक्रमांक वाले तत्वों के परमाणुओं के रूप में है।



**क्या तुम जानते हो ?**

हमारे आकाशगंगा में  $10^{11}$  तारे हैं आकाशगंगा बीच में फूली हुई तशतरी जैसा होकर उसका व्यास लगभग  $10^{18}$  km है। सूर्यमाला उसके केन्द्र से लगभग  $2.7 \times 10^{17}$  km दूरी पर स्थित है। तशतरी के लंबवत व उसके केन्द्र से जाने वाले अक्ष पर आकाशगंगा परिवलन कर रही है व उसे एक परिवलन के लिए  $2 \times 10^8$  वर्ष लगते हैं।

**सूर्य के गुणधर्म :**

द्रव्यमान	$2 \times 10^{30}$ kg
त्रिज्या	695700 km
पृष्ठभाग का तापमान	5800 K
केन्द्र का तापमान	$1.5 \times 10^7$ K
उम्र/आयु	4.5 अरब वर्ष

सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3.3 लाख गुना है और उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 100 गुना है। अन्य तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का  $\frac{1}{10}$  ( $\frac{M_{\text{Sun}}}{10}$ ) से 100 गुना ( $100 M_{\text{Sun}}$ ) तक हो सकता है और त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या के  $\frac{1}{10}$  से 1000 गुना तक हो सकती है। (आकृति 19.2)



19.2 विविध तारों के आकारों की तुलना

### तारों की निर्मिति (Birth of stars) :

निहारिका के तारों के बीच की खाली जगहों में अनेक स्थानों में गैसों और धूल के प्रचंड बादल मिलते हैं। जिन्हें आंतरतारकीय बादल कहते हैं। आकृति 19.3 में हबल दूरबीन से खींचे गए ऐसे बादलों का एक प्रकाश चित्र दिखाया गया है। बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए वैज्ञानिक प्रकाश वर्ष (light year) इस इकाई का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष याने प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश का वेग 3,00,000 km/s होने के कारण एक प्रकाशवर्ष यह दूरी  $9.5 \times 10^{12}$  km होती है। आंतरतारकीय बादलों का आकार कुछ प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसलिए प्रकाश को इन बादलों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए कई वर्ष लगते हैं। इससे तुम इन बादलों के प्रचंड आकार की कल्पना कर सकते हो।



19.3 हबल दूरबीन से लिया हुआ विशाल आंतरतारकीय मेंघों का प्रकाशचित्र



### क्या तुम जानते हो?

प्रकाश को चंद्रमा से हमारे पास आने के लिए एक सेकंड लगता है, सूर्य से प्रकाश हम तक पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं तो सूर्य से सबसे नजदीक वाले अल्फा सेटारी तारों से प्रकाश हमारे पास पहुँचने के लिए 4.2 वर्ष लगते हैं।



### क्या तुम जानते हो?

अन्य तारों का द्रव्यमान मापते समय सूर्य के सापेक्ष मापा जाता है। अर्थात् सूर्य का द्रव्यमान इकाई माना जाता है। इसे  $M_{\text{Sun}}$  कहते हैं।

सूर्य तथा अन्य तारों की उम्र अर्थात् उनके निर्माण के बाद का समय यह कुछ दस लाख से अरबों वर्ष इतना विशाल है। इस अवधि में यदि सूर्य के गुणधर्म में परिवर्तन हुआ तो उसके कारण पृथ्वी के गुणधर्म में और सजीवसृष्टि में परिवर्तन हुआ होता इसलिए पृथ्वी के गुणधर्म का गहन अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य के गुणधर्म उसके जीवनकाल में याने गए 4.5 अरब वर्ष में बदले नहीं हैं। खगोल वैज्ञानिकों के विश्लेषण के अनुसार ये गुणधर्म भविष्य में भी 4.5 अरब वर्ष में धिरे-धिरे बदलेंगे।

किसी विक्रोभ (disturbance) के कारण यह आंतरतारकीय बादल आकुंचित होने लगते हैं व इस आकुंचन के कारण उसका घनत्व बढ़ता है उसी प्रकार उनका तापमान भी बढ़ने लगता है और उसमें से एक तप्त गैसों का गोला तैयार होता है। इस गोले के केन्द्र का तापमान और घनत्व बहुत अधिक बढ़कर वहाँ परमाणु ऊर्जा (परमाणु नाभिकों के एकत्रित होने से निर्माण हुई ऊर्जा) का निर्माण होता है इस ऊर्जा के निर्माण के कारण यह गैसों का गोला स्वयंप्रकाशित हो जाता है। अर्थात् इस प्रक्रिया के दौरान एक तारे का निर्माण होता है या एक तारे का जन्म होता है ऐसा हम कह सकते हैं। सूर्य में यह ऊर्जा हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होकर हिलियम का नाभिक तैयार होने से उत्पन्न होती है इसलिए सूर्य के केन्द्रभाग में उपस्थित हाइड्रोजन यह ईंधन का कार्य करता है।



### क्या तुम जानते हो?

गैसों का गोला आकुंचित होने पर गैसों का तापमान बढ़ता है, गुरुत्वीय स्थितिज उर्जा का रूपांतर ऊष्मा में होने के कारण यह होता है।


किसी विशाल आंतरतारकीय बादलों के आकुंचन से एक ही समय में अनेक तारों का निर्माण हो सकता है, हजारों तारों के एक समूह का चित्र आकृति 19.4 में दिखाया गया है। इनमें से अधिकांश तारे एक ही प्रचंड आंतरतारकीय बादल से निर्मित हुए हैं।



### थोड़ा याद करो।

संतुलित व असंतुलित बल का क्या अर्थ है ?

**तारों की स्थिरता :** किसी कमरे के एक कोने में अगर बत्ती जलाई तो उसकी सुगंध कुछ ही क्षणों में कमरे में फैलती है। उसी प्रकार उबलते हुए पानी के बर्तन का ढक्कन निकालने पर उसकी भाप सब तरफ फैलती है अर्थात् तप्त वायु सर्वत्र फैलती है फिर तारों की तप्त वायु अंतरिक्ष में क्यों नहीं फैलती ? उसी प्रकार सूर्य के गुणधर्म पिछले 4.5 अरब वर्षों से स्थिर कैसे रहे हैं ?




19.4 एक विशाल तारों का समूह। इनमें से अधिकांश तारे एक ही आंतरतारकीय बादल से निर्मित हुए हैं।

इन प्रश्नों का उत्तर गुरुत्वीय बल है। तारों के गैसों के कणों में गुरुत्वीय बल होता है यह कणों को एकत्रित बांध कर रखता है। गैसों के कणों को एकत्रित लाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील गुरुत्वीय बल और उसके विपरीत कार्यरत रहनेवाला तथा तारों के पदार्थ को सभी तरफ फैलाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील तारों के तप्त गैसों का दाब, इन दोनों में संतुलन होने पर तारा स्थिर रहता है। गुरुत्वीय बल तारों के आंतरिक भाग में अर्थात् केन्द्र के दिशा में निर्देशित होता है तो गैस का दाब तारे के बाहरी भाग अर्थात् केन्द्र के विरुद्ध दिशा में निर्देशित होता है। (आकृति 19.5 देखो)



### विचार करो।



19.5 तारे की स्थिरता

तुमने रस्सीखेंच खेल खेला ही होगा रस्सी के दोनों सिरे, दो अलग-अलग समूह अपने तरफ खींचते हैं। दोनों बाजूओं में लगाया बल यदि समान हो तो वह बल संतुलित होता है व रस्सी मध्य में स्थिर रहती है जब एक बाजू का बल दूसरे बाजू के बल की अपेक्षा अधिक हो तब रस्सी का मध्य उस बाजू की तरफ सरकता है ऐसा ही कुछ तारों के संबंध में होता है। गुरुत्वीय बल और गैसों का दाब संतुलित हो तो तारा स्थिर होगा परंतु एक बल दूसरे बल की अपेक्षा ज्यादा हुआ तो तारों का आकुंचन अथवा प्रसरण होता है।



### क्या तुम जानते हो?

1. यदि सूर्य में वायु का दाब न हो तो गुरुत्वीय बल के कारण वह 1 से 2 घंटों में पूर्णतः आकुंचित होकर बिन्दुरूप में हो जाएगा।
2. गैस का दाब उसके घनत्व और उसके तापमान पर निर्भर होता है, इन दोनों का मान जितना अधिक होगा उतना दाब अधिक होगा।



## तारों की उत्क्रांति (Evolution of stars)

तारों की उत्क्रांति का मतलब समय के साथ तारों के गुणधर्म में परिवर्तन होकर उसके भिन्न-भिन्न अवस्था में रूपांतर होने की क्रिया। हमने देखा कि सूर्य के गुणधर्म में पिछले 4.5 अरब वर्ष से कोई बदल (परिवर्तन) नहीं हुआ। तारों के जीवन के अधिकांश समय में तारों की उत्क्रान्ति अत्यंत धीमी गति से होती रहती है। तारों से लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण उसकी ऊर्जा लगातार घटती जाती है।

तारों की स्थिरता हमेशा बने रहने के लिए अर्थात् वायु का दाब और गुरुत्वीय बल इनमें समतोल रहने के लिए तारों का तापमान स्थिर रहना जरूरी है और तापमान स्थिर रहने के लिए तारों में ऊर्जा की निर्मिति होना अत्यंत आवश्यक है। तारों के केन्द्र में ईंधन के जलने से यह ऊर्जा निर्मित होती रहती है। तारों के उत्क्रान्ति का कारण उसके केन्द्र का ईंधन जलना और उसकी मात्रा (quantity) का कम होना होता है। ईंधन समाप्त होने पर ऊर्जा की निर्मिति भी समाप्त हो जाती है और तारे का तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने से वायु का दाब भी कम हो जाता है और वह गुरुत्वीय बल से संतुलन नहीं रख पाता। गुरुत्वीय बल अब वायुदाब की अपेक्षा अधिक होने के कारण तारा आकुंचित हो जाता है। इस कारण दूसरे ईंधन का उपयोग होता है उदाहरणार्थ केन्द्र के हाइड्रोजन समाप्त हो जाने पर हिलीयम का विलीनीकरण हो जाता है तथा ऊर्जा की निर्मिति पुनः शुरू हो जाती है। ऐसे एक


के बाद एक कितने ईंधनों का उपयोग होगा यह तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है।

किसी तारे का द्रव्यमान जितना अधिक, उतना ही अधिक ईंधनों का उपयोग होता है। इस दरम्यान होनेवाले विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण तारों का आकुंचन तो कभी उनका प्रसरण होता है तथा तारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। संभावित सभी ईंधन समाप्त होने पर ऊर्जा निर्मिति पूर्ण रूप से बंद हो जाती है और तारे का तापमान कम हो जाता है इसलिए गैस का दाब और गुरुत्वीय बल संतुलित नहीं रह सकता। तारों की उत्क्रान्ति कब रूकती है व उसकी अंतिम अवस्था क्या होती है यह हम अब देखेंगे।

**तारों की अंतिम स्थिति (End stages of stars) :** तारे का द्रव्यमान जितना अधिक उतने ही तीव्र गति से उसकी उत्क्रांति होती है। तारों की उत्क्रान्ति में आने वाली अवस्थाएँ अर्थात् तारे के उत्क्रान्ति का मार्ग यह भी तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह उत्क्रान्ति कैसे रूकती है ?

हमने देखा कि तारों से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की निर्मिति बंद होने पर तापमान कम हो जाता है। जिससे वायु का दाब भी कम हो जाता है। तारा आकुंचित होकर उसका घनत्व बढ़ता जाता है। वायु का घनत्व बहुत अधिक होने पर उसमें कुछ ऐसा दाब निर्मित होता है जो तापमान पर निर्भर नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में ऊर्जा की निर्मिति संपूर्ण रूप से रूकने पर भी तथा तारेका तापमान कम होते जाने पर भी दाब स्थिर रहता है। इसके कारण तारे की स्थिरता कायम रह सकती है व यही तारे की अंतिम अवस्था होती है।

तारों के मूल द्रव्यमानके अनुसार उसके उत्क्रान्ति के तीन मार्ग हैं। इस अनुसार हम तारों को तीन समूहों में बाँट सकते हैं। एक समूह के सभी तारों का उत्क्रान्ति का मार्ग व उनकी अंतिम स्थिति एक समान होती है। इस बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे।



19.6 द्रव्यमान के अनुसार तारों की उत्क्रांति

1. सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना कम मूल द्रव्यमान वाले तारों की ( $M_{\text{star}} < 8 M_{\text{Sun}}$ ) अंतिम अवस्था : इन तारों की उत्क्रान्ति के समय उनका बड़े पैमाने पर प्रसरण होता है तथा उनका आकार 100 से 200 गुना बढ़ता है इस अवस्था में उन्हें 'लाल राक्षसी तारा' कहते हैं। यह नाम उनके बड़े आकार के कारण तथा उनका तापमान कम होने से वे लालछौंह दिखने के कारण दिया गया है। अन्य प्रकार के तारों की अपेक्षा लाल राक्षसी तारे का आकार आकृति 19.2 में दिखाया गया है। उत्क्रान्ति के अंत में तारों का विस्फोट होता है। तारों का बाहरी आवरण दूर फेंक दिया जाता है व अंदर का भाग



आकुंचित हो जाता है। इस अंदर के भाग का आकार साधारण रूप से पृथ्वी के आकार जितना ही होता है। तारों का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा बहुत अधिक होने के कारण तथा आकार पृथ्वी के बराबर होने से तारों का घनत्व अधिक बढ़ता है। ऐसी स्थिति में उनके इलेक्ट्रॉनों के कारण निर्माण हुआ दाब तापमान पर निर्भर नहीं रहता और वह तारों के गुरुत्वीय बल को अनंत समय तक संतुलित करने के लिए पर्याप्त होता है। इस अवस्था में तारे सफेद दिखते हैं तथा उनके आकार छोटे होने के कारण वे श्वेतबटु (White dwarfs) के नाम से पहचाने जाते हैं। इसके बाद उनका तापमान कम होते जाता है, परंतु आकार व द्रव्यमान अनंत समय तक स्थिर रहता है। इसलिए यह बटू अवस्था ही इन तारों की अंतिम अवस्था होती है।



19.7 श्वेतबटू की निर्मिति के समय बाहर फेंका गया गैसों का आवरण। मध्यभाग में श्वेतबटू है।



**क्या तुम जानते हो?**

जब सूर्य लाल राक्षसी तारे की अवस्था में जाएगा तब उसका व्यास इतना बढ़ जाएगा कि वह बुध तथा शुक ग्रहों को निगल लेगा। पृथ्वी भी उसमें समाविष्ट होने की संभावना है। सूर्य को इस स्थिति में आने के लिए और लगभग 4 से 5 अब्ज वर्ष लगेगें।

**2. सूर्य के द्रव्यमान से 8 से 25 गुना द्रव्यमान ( $8 M_{\text{Sun}} < M_{\text{star}} < 25 M_{\text{Sun}}$ ) वाले तारों की अंतिम अवस्था :** ये तारे भी ऊपरी तारों के समान लाल राक्षसी तारा व बाद में महाराक्षसी तारा इस अवस्था में से जाते हैं। महाराक्षसी अवस्था में उनका आकार 1000 गुना बढ़ सकता है। उसमें अंत में होने वाला महाविस्फोट (supernova explosion) बहुत ही शक्तिशाली होता है तथा उससे प्रचंड मात्रा में ऊर्जा निकलने के कारण ये तारे दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। महाविस्फोट से



बचा हुआ केन्द्र का भाग आकुंचित होकर उसका आकार लगभग 10 km हो जाता है। इस अवस्था में वह संपूर्ण रूप से न्यूट्रॉन का बना होता है। इसलिए इसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। तारे का न्यूट्रॉन के कारण निर्माण हुआ दाब, तापमान पर निर्भर नहीं करता तथा वह अनंत समय तक गुरुत्वीय बल को संतुलित करने में सक्षम होता है। न्यूट्रॉन तारे, यही इन तारों की अंतिम अवस्था होती है।

**19.8 सन 1054 में आँख के द्वारा देखे गए महाविस्फोट के स्थान का अभी लिया गया प्रकाशचित्र**



**क्या तुम जानते हो?**

1. श्वेतबटु तारों का आकार पृथ्वी जितना छोटा होता है व उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। उसके एक चम्मच पदार्थ का वजन लगभग कुछ टन होगा। न्यूट्रॉन तारों का आकार श्वेतबटु तारों की अपेक्षा बहुत ही छोटा होने के कारण उसका घनत्व उससे अधिक होता है। उसके एक चम्मच पदार्थ का वजन पृथ्वी पर स्थित सभी प्राणीमात्र के वजन के बराबर होगा।
2. हमारे आकाशगंगा के एक तारे पर लगभग 7500 वर्षपूर्व महाविस्फोट हुआ था। वह तारा हम से लगभग 6500 प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण उस विस्फोट से बाहर निकलने वाले प्रकाश को हम तक पहुँचने के लिए 6500 वर्ष लगे तथा पृथ्वी पर यह विस्फोट चीनी लोगों ने सन 1054 में प्रथम देखा। वह इतना तेजस्वी था कि दिन में सूर्य के प्रकाश में भी वह निरंतर दो वर्ष तक दिखाई दिया। विस्फोट के बाद लगभग 1000 वर्ष बीतने के पश्चात भी वहाँ की गैसें 1000 km/s से अधिक वेग से प्रसरित हो रही हैं।

**3. सूर्य के द्रव्यमान से 25 गुना अधिक द्रव्यमान वाले तारों की ( $M_{\text{star}} > 25 M_{\text{Sun}}$ ) अंतिम अवस्था :** इन तारों की उत्क्रान्ति ऊपर दिए गए दूसरे समूह के तारों के जैसे होती है। परंतु महाविस्फोट के बाद कोई भी दाब उसके प्रचंड गुरुत्वीय बल को संतुलित नहीं रख सकता और वे तारे हमेशा के लिए आकुंचित होते रहते हैं। उनका आकार धीरे धीरे छोटा होने के कारण उनका घनत्व व उनका गुरुत्वीय बल बहुत अधिक बढ़ता है। इसलिए तारों के पास की सभी वस्तुएँ तारों की ओर आकर्षित होती हैं तथा इस प्रकार के तारे से बाहर कुछ भी नहीं निकल सकता। यहाँ तक की प्रकाश भी बाहर निकल नहीं सकता। उसी प्रकार तारे पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित न होकर

तारे के अंदर ही अवशोषित होता है इसलिए हम इन तारों को देख नहीं सकते और उनके स्थान पर हमें केवल एक अतिसूक्ष्म काला छिद्र दिखाई देगा। इसलिए इस अंतिम स्थिति को “कृष्णविवर” (black hole) यह नाम दिया है इस तरह से हमने देखा कि मूल द्रव्यमान के अनुसार तारों के उत्क्रान्ति के तीन मार्ग होते हैं व उनकी तीन अंतिम अवस्थाएँ होती हैं। वह नीचे तालिका में दी हैं।

तारों के मूल द्रव्यमान	तारों की अंतिम अवस्था
$< 8 M_{\text{Sun}}$	श्वेतबटू
8 से $25 M_{\text{Sun}}$	न्युट्रॉन तारा
$> 25 M_{\text{Sun}}$	कृष्ण विवर

## स्वाध्याय

### 1. खोजोगे तो पाओगे

- हमारे निहारिका का नाम ..... है।
- प्रचंड दूरी मापने के लिए ..... इकाई का उपयोग होता है।
- प्रकाश का वेग ..... km/s हैं।
- हमारे आकाशगंगा में लगभग ..... तारे हैं।
- सूर्य की अंतिम अवस्था ..... होगी।
- तारों का जन्म ..... बादलों से होता है।
- आकाशगंगा ये एक ..... निहारिका है।
- तारा यह ..... गैसों का गोला होता है।
- तारों का द्रव्यमान ..... द्रव्यमान के सापेक्ष मापा जाता है।
- सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने के लिए ..... समय लगता है तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने के लिए ..... समय लगेगा।
- तारे का द्रव्यमान जितना अधिक उतना ही उसका ..... जलद गति से होता है।
- तारों के जीवनकाल में कितने प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है यह उसके ..... पर निर्भर होता है।

### 2. कौन सच कहता है?

- प्रकाशवर्ष यह इकाई समय के मापन के लिए उपयोग में लाई जाती है।
- तारों की अंतिम अवस्था उनके मूल द्रव्यमान पर निर्भर होती है।

- तारों का गुरुत्वीय बल उसके इलेक्ट्रॉन के दाब से संतुलित होने पर तारा, न्युट्रॉन तारा बन जाता है।
- कृष्ण विवर से केवल प्रकाश ही बाहर निकलता है।
- सूर्य के उत्क्रान्ति के दौरान सूर्य महाराक्षसी अवस्था से जाएगा।
- सूर्य की अंतिम अवस्था श्वेत बटु होगी।

### 3. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो।

- तारों का निर्माण कैसे होता है?
- तारों की उत्क्रान्ति किस कारण होती है?
- तारों की तीन अंतिम अवस्था कौनसी हैं?
- कृष्ण विवर यह नाम किस कारण पड़ा?
- न्युट्रॉन तारा यह किस प्रकार के तारों की अंतिम स्थिति होती है?

### 4. अ. यदि तुम सूर्य हो तो तुम्हारे गुणधर्म अपने शब्दों में लिखो।

ब. श्वेतबटु संबंधी जानकारी दो।

### उपक्रम:

- कल्पना के आधार पर मंदाकिनी निहारिका और उसमें स्थित हमारे सौरमंडल की प्रतिकृति तैयार करो।
- परिणाम लिखो : यदि सूर्य नष्ट हो गया तो .....



## इयत्ता आठवी सामान्य विज्ञान शब्दसूची

अंतरआण्विक - intermolecular - इन्टर म'लेक्यल (र)	द्रवणांक - melting point - मेल्टिंग पॉइन्ट
अणुसूत्र - molecular formula - म'लेक्यल (र) फॉडम्यल	द्विनाम - binomial - बा'इनउमीअल
अधातू - non-metal - नॉन् मेटल्	धमनी - artery - 'आटरी
आनुवंशिकता - heredity - ह'रेडिट्री	धातु - metal - मेटल्
आघातवर्धता - malleability - मॅलीअ'बिलटी	नाभिक - nucleus - 'न्यूक्लीअस्
आदिजीव - protozoa - प्रउट'झउअ	नियंत्रक - controller - कन'ट्रुअल
आपतन बिन्दु - incident point - इन्सिडन्ट पॉइन्ट	नियमित परावर्तन - regular reflection - रेग्युल (र)
आपतित किरण - incident ray - इन्सिडन्ट रेड	रिफ्लेक्शन
उच्च रक्तदाब - hypertesion - 'हाइप (र) टेन्डन्शन	निर्देशांक - index - 'इन्डेक्स
उत्क्रांती - evolution - ईव्ह'लूश्न्	निलंबन - suspension - स'स्पेन्श्न्
उदासिनीकरण - neutrilisation - न्यूट्रलाइझेशन	परमाणु प्रतिकृति - atomic model - अटॉमिक् मॉडल्
उप्लावक बल - upthrust force - अथ्रस्ट फॉडस्	परमाणुक्रमांक - atomic number - अ'टॉमिक् नेम्ब(र)
कलिल - colloid - क'लाइड	परावर्तन कोण - angle of reflection - अँडग्ल् अव्ह
कवक - fungi - फङ्गी	रिफ्लेक्शन
कवच - shell - शेल्	परावर्तित किरण - reflected ray - रिफ्लेक्टेड रेड
किरणोपचार - radiotherapy - रेडिअउ'थेरापी	परासरण - osmosis - ऑझ'मउसिस्
केलासीय - crystalline - क्रिसटलाइन्	परिदर्शी - periscope - 'पेरीस्कउप्
कोशिका श्वसन - cell respiration - सेल् रेसप्'रेइश्न्	परिपथ - circuit - 'सडकिट
कोशिकांग - organelles - ऑडगनली	परिसंस्था - ecosystem - 'ईकउसिस्टम्
क्षय - tuberculosis - ट्यूब (र) क्यु'लउसिस्	परिस्थिति विज्ञान शास्त्री - ecologist - इ'कॉलजिस्ट
क्षरण - corrosion - क्'रउडन्	प्रकाशीय काँच - optical glass - 'ऑप्टिक्ल् ग्लास्
गुरुत्वीय बल - gravitational force - ग्रॅव्हि'टेशन्ल् फॉडस्	प्रतिजैविक - antibiotics - अँन्टीबाइ'ऑटिक्
चमक - lusture - लस्ट् (र)	प्रतिबंधात्मक - preventive - प्रि'व्हेन्टिव्ह
चुंबकीय बल - magnetic force - मॅग्'नेटिक् फॉडस्	प्रसरण - expansion - इक्'स्पॅन्श्न्
जटिलता - complexity - कम्'प्लेक्सटी	भूकंप विज्ञान - seismology - साइझ'मॉलजी
जडत्व - inertia - इ'नउस	भूस्खलन - landslide - 'लॅन्डस्लाइड
जीवनशैली - lifestyle - लाइफ् स्टाइल्	मिश्रण - mixture - 'मिक्सच(र)
जीवाणु - bacterai - बॅक्'टिअरीअ	मिश्रधातु - alloy - अँलॉइ
जैव वैद्यकीय - biomedical - बाइअ' मेडिक्ल्	मोटापा - obesity - अउ'बीस्टी
जैवविघटनशील - bio degradable - बाइअउडि'ग्रेइडब्ल्	यौगिक - compound - कॉम्पाउन्ड
जैवविविधता - biodiversity - बाइ.अउडाइ'व्ह डसटी	रक्त-आधान - blood transfusion - ब्लड ट्रॅन्स्'फ्यूझन्
टीकाकरण - vaccination - 'व्हॉक्सि'नेइश्न्	रक्तदाब - blood pressure - ब्लेड्'प्रेस(र)
तत्त्व - elements - 'अेलिमन्ट्	रक्तद्रव - plasma - 'प्लॅझम
तन्यता - ductility - डक्टिलिटी	रक्तपट्टिका - platelates - 'प्लेइट्लट्
तापमापी - thermometer - थ'मॉमिटर (र)	रक्तबँक - blood bank - ब्लेड् बँक
तारकासमूह - constellation - कॉन्स्ट'लेइश्न्	रक्तवाहिनियाँ - blood vessels - ब्लड व्हेइसडल्
तीव्रता - frequency - फ्रीक्वन्सी	रक्तविज्ञान - hematology - हिमॅटॉलॉजी
दर्शक - indicator - 'इन्डिकेइटर (र)	रचना - structure - 'स्ट्रक्च (र)

रसायनोपचार – chemotherapy – कीमउ'थेरीपी	संक्रामक – infectious – इन्'फेकशस
राजधातू – nobel metal – 'नउब्ल' 'मेटल्	संचरण – propagation – प्रॉप'गेइश्न्
वर्गीकरण – classification – क्लॉसिफिकऽशन	संचलक – moderator – 'मॉडरेइट्र
वहन – conduction – कन्'डक्शन्	संयोजकता – valency – 'व्हेइलन्सी
विघटक – decomposer – डीकम्'पउझ् (र)	संलक्षण – syndrome – 'सिन्ड्रुम्
विद्युत अग्र – electrode – इ'लेक्कउड्	संस्कारित काच – processed glass – प्रउसेस्ड ग्लास्
विशिष्ट – specific – स्प'सिफिक्	समस्थानिक – isotopes – सऽकिट
विशिष्ट गुरुत्व – specific gravity – स्प'सिफिक् ग्रॅव्हटी	समांगी – homogenous – हॉम'जीनीअस्
विषमांगी – heterogenous – हेटर'जीनीअस्	समुद्री – marine – म'रीन्
विषाणू – virus – व्हाइरस	सांद्र – concentrated – कॉन्-सन-ट्रेइटिड्
विसरण – diffusion – डि'फ्यूझन्	सापेक्ष घनत्व – Relative density – रिलेटिव्ह डेन्सटी
विस्फोट – explosion – इक्'स्प्लउडन्	सैद्रिय – organic – ऑऽगैनिक्
वैश्विक – universal – युनि'व्हऽस्ल्	स्थिरता – stability – स्टॅ'बिलीटी
शिरा – veins – व्हेइन्स्	स्नायू बल – muscular force – मसक्यल (र) फॉऽस्
शुद्धता – purity – 'प्युअरटी	स्वयंपोषी – autotrophic – 'ऑऽट्रुफिक्
शैवाल – algae – अॅल्गी	
श्वसननलिका – trachea – ट्र'कीअ	

कक्षा आठवीं प्राथमिक स्तर की अंतिम कक्षा है। अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए माध्यमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यमापन में लिए जानेवाले प्रात्यक्षिक कार्यों की पूर्वतयारी हो साथ ही विद्यार्थी में प्रयोग कौशल विकसित होने के दृष्टिकोण से कदम बढ़े इसलिए नमूने के तौर पर प्रयोग की सूची दी गई है। शालेय स्तर पर सूची के अनुसार प्रयोग करवाना अपेक्षित है।

अ.क्र.	प्रयोग का शीर्षक
1	दही / छाछ के लॅक्टोबॅसिलाय जीवाणुओं का निरीक्षण करना।
2	ब्रेड पर उगी कवक का निरीक्षण करना।
3	दैनिक जीवन में उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर संतुलित व असंतुलित बल का अध्ययन करना।
4	जड़त्व के प्रकारों का अध्ययन करना।
5	आर्कमिडीज के सिद्धांत का अध्ययन करना।
6	धारा विद्युत के चुंबकीय परिणाम का परिक्षण करना।
7	प्रयोगशाला में आयर्न ऑक्साइड यह यौगिक बनाकर गुणधर्मों का अध्ययन करना।
8	धातु व अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों और रासायनिक गुणधर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
9	परिसर के अप्रदूषित और प्रदूषित जलाशयों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
10	मानवी श्वसन संस्थान की प्रतिकृति के आधार पर अध्ययन करना।
11	मानवी हृदय की रचना का प्रतिकृति के आधार पर अध्ययन करना।
12	सूचकों का उपयोग करके अम्ल व क्षारक पहचानना।
13	ध्वनि के प्रसारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यह सिद्ध करना।
14	समतल दर्पण से होनेवाले प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियमों का अध्ययन करना।
15	परिसर की परिसंस्था में पाए जानेवाले जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन करना।





महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

सामान्य विज्ञान इयत्ता आठवी (हिंदी माध्यम)

₹ 60.00